

परोपकाराय सता निभृतय
ग्रंथाक ५२.
आत्महितकर आध्यात्मिक
वस्तु संग्रह.

आत्महिताभिलाषी चतुर्विध संघने वांचवा भणवा
गणवा रुप स्वा'याय अर्थ,

छपायी प्रसिद्ध करनार

श्री जैन त्रेयस्कर मडळ तरफथी-

शाह वेणीचढ सुरचढ-म्हेसाणा

आवृत्ति १ ली

प्रति २०००

घोर न २४५२

घिक्रम न १९८२

मने १९२६

मुद्रणस्थान घसत मुद्रणालय, घीकाटारोड अमदावाड
मुद्रक घीमनलाल ईश्वरलाल म्हेता

मूल्य, ०-१०-०.

प्रस्तावना

जैन साहित्य चार अनुयोगमा बहँचायल्लं छे. ? द्रव्यानुयोग, रगणितानुयोग, चरणकरणानुयोग अने ४ धर्मकथानुयोग. पहेलामा छ द्रव्यनु विविध प्रकारे वर्णन आवे छे, बीजामा पर्वत, क्षेत्र, नदी वगेरे शाश्वता पदार्थानी लबाइ, पहोळाइ, ऊचाइ, परिधि, मतर अने घन वगेरेना गणितप्रमाणोनी हकीकत आवे छे, बीजामा चरणसिचरी अने करणसिचरीरूप यतिधर्म बताव्या छे अने चौथामा प्रोध लइ अनुकरण कग्वा लायक पूर्व महापुरूपो अने स्त्रीओना जीवनचरित्रो वर्णववामा आव्या छे. आ चारे अनुयोगो यत्रपि मोक्षमार्ग मेळववा मात्रे उपकारक छे छता तेमा पण द्रव्यानुयोग शीघ्र आत्महित सघापी आपे छे ज्यारे शेष त्रण अनुयोगो कटक विलंबे मोक्षप्राप्ति करावी आपे छे. शेष त्रणमा पण द्रव्यानुयोग भय्यो होय तो सोनामा सुगध भळता त्वरित ज कार्यसिद्धि थाय छे. धर्मकथानुयोगथी जीवन पवित्र बने छे, गणितानुयोगथी वृद्धि तीक्ष्ण थाय छे, चरणकरणानुयोगथी जीव कुशलानुसंधी क्रियामार्गमा जोडाय छे अने तेमा ज्यारे आत्मभान कराववारूप-जीवपुद्गल अथवा स्वपरनी बहँचण कराववारूप द्रव्यानुयोग टाखल थाय छे त्यारे तेना सघळा साधनो साचा-शुद्ध-सिद्धि थवारूप-सफळ थाय छे. द्रव्यानुयोगना अभ्यास, मनन अने परिशीलनथी जीवनो अधिकार उच्च थायछे. पछी ते सासारिक के पाँद्गलिक सुखमा लिप्त-आसक्त थतो नथी, ते सुखोने ते दुःखरूपे माने छे अने मोक्षसुखनीज साचा सुखरूपे बाछा कर छे कारण के तेने विवेकज्ञान मगट थयेलु होय छे धर्मकथानुयोग सामान्य कोटिना जीवोने बहु उपकारक थाय छे परिणामे तेओ देश अने सर्वचारित्र तरफ बळता अनुक्रमे द्रव्यानुयोगमा आवे छे अने आत्मसिद्धि कर छे.

आ ग्रथ द्रव्यानुयोगविषयना सग्रहरूप छे. तेमा अ थ ग्रथोमाथी पसद करी २१ वस्तुओ सफलित करवामा आवी छे. तेना नाम

અનુક્રમણિકામાં આપ્યાં છે, તે ઉપરથી જોઈ શકાશે તે દરેક વસ્તુઓ આત્માને અત્યંત હિતકારી છે. તેને મળવાથી તથા સ્થિર ચિત્તે, શાંત સ્થિતિમાં, વસ્ત્ર અને કાયાથી પવિત્ર થઈ, શુદ્ધ ઉચ્ચાર સાથે, શ્રદ્ધાપૂર્વક ગળવાથી આત્માને સમાપ્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, જીવ અને દેહની ભિન્નતા સ્પષ્ટ થાય છે અને દેહના ઝર્મોં કે સુખદુઃખને જીવ પોતાનાં માનતો હતો, તેના સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી થતો હતો, મારું કુટુંબ, મારો વૈભવ, એમ રટના કરતો હતો, લાભ અલાભે સુખ દુઃખ અને ટટ્ટવિયોગે અનિષ્ટસંયોગે શોક સ્વેદ ધારણ કરતો હતો, તે અનાદિ કાલની મ્હોટી ભૂલ હતી, એમ સમજાય છે. પરિણામે તેનામાં આત્મજાગૃતિ પ્રગટ થતાં તેના કર્મ-વધ પાતલા પડતા જાય છે અને જે કર્મવંધ પ્રમાદયોગે થઈ જાય છે તેને માટે પશ્ચાત્તાપ કરી જલ્દી તે કર્મનો ભાર હલ્લો કરે છે.

આ ગ્રંથ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા વગેરે દરેકને સ્વા યાચાર્યે અવશ્ય ઉપયોગી થશે, એમ અમારું માનવું છે.

આ ગ્રંથ ડાહવામાં રૂ. ૨૦૧) શ્રી ધ્રાગધ્રાના સંઘ તરફથી શ્રી દવાણાનિવાસી શાહ સુદરજી જીવણદાસે ૫૦ શ્રી મક્તિવિજયજી મહારાજ પાસે ટીકા લીધેલી તે વચ્ચે જ્ઞાન સ્વાતે ડપજેલી રકમમાંથી આવ્યા છે અને રૂ. ૧૪૬) શ્રી રાણપુરના શાહ મણિલાલ નાગરદાસ તરફથી આ ગ્રંથ સ્વરીટવા માટે આવ્યા છે. આ પ્રશસનીય કાર્ય માટે ઉક્ત સઘ તથા સદ્ગૃહસ્થનો ઉપકાર માનવામાં આવે છે.

પ્રાતે આ ગ્રંથના મળવા ગળવાથી સદૃ મહ્યાત્માઓ આત્મશાંતિ-આત્મસમાધિ મેળવે, સંસાર ઉપરથી ઉદાસીનતા પ્રાપ્ત કરે અને કર્મવંધમાં ઢીલા થઈ પરિણામે એકાંત આત્મહિત તરફ વળી કર્મથી મુક્ત થાઓ, એમ સદ્ભાવે ટચ્ઠી અત્ર વિરમવામાં આવે છે.

મ્હેસાણા, સ ૧૯૮૨ ની }
વૈશાલીપુર્ણિમા }

શ્રી જૈન શ્રેયસ્કર મહાજી.

अनुक्रमणिका

नंबर.	वस्तुनु नाम	पृष्ठ.
१	चउसरण	१
२	आउर पच्चक्खाण	०
३	परमानद-पचविंशति.	१८
४	समाधिशतक	२२
५	समताशतक	२०
६	पुद्गलगीता	३०
७	अभ्यात्मगीता	४९
८	श्री सीमधर स्वामीनु सवासो गाथानु स्तवन	५६
९	सम्यक्त्त विचार गभित महावीर जिन स्तवन	७०
१०	अढार पापस्थानकनी सजायो	८१
११	समफितना सडसठ बोलनी सजाय	९०
१२	यतिधर्मत्रिशी	१०८
१३	परमात्मछत्रिशी	१११
१४	क्षमाछत्रिशी	११४
१५	पद्मावतीआराधना	११७
१६	अमृतवेलिनी सजाय	१२०
१७	सारसमुच्चय*	१२३
१८	अ यात्मविंदुप्रथमद्वारिंशिका	१५६
१९	मोक्षोपदेशे पंचाशत्	१६३
२०	सम्यक्त्तस्वरूपस्तव	१६०
२१	आठ दृष्टिनी सजायो	१७२





आत्महितकर आध्यात्मिक

वस्तु संग्रह.

॥ ॐ श्रीमुनिसुवताय नमो नमः॥ ॐ श्रीसिद्धाचलाय
नमो नमः ॥ ॐ नमो गुरुभ्यः ॥

॥ १ ॥ चउसरण ॥

सावज्जजोगविरइ, उक्कित्तण गुणवओ अ पडिवत्ती।
खलियस्सनिंदणा वण-तिगिच्छ गुणधारणा चेव ॥१॥

चारित्तस्स विसोही, कीरइ सामाडएण किल इहयं
सावजेयरजोगाण, वज्जणासेवणत्तणओ ॥२॥

दंसणयारविसोही, चउवीसायत्थएण किच्चइ^१ य ।
अच्चप्पुअगुणकित्तण-रूवेण जिणवरिदाण ॥३॥

नाणाइआ उ गुणा, तस्सपन्नपडिवत्तिकरणाओ ।
 घदणएण विहिणा, कीरइ सोही उ तेसिं तु ॥४॥
 खलिअस्स य तेसि पुणो, विहिणा ज निंदणाइ
 पडिकमण ।
 तेण पडिकमणेण, तेसिं पि य कीरअे सोही ॥५॥
 चरणाइ^१याइयाण, जहकम वणतिगिच्छरूवेण ।
 पडिकमणासुद्धाण, सोही तह काउस्सग्गेण ॥६॥
 गुणधारणरूवेण, पच्चक्खाणेण तवइआरस्स ।
 विरिआयारस्स पुणो, सव्वेहि वि कीरणे सोही ॥७॥
 गयवसहसीहअभिसेअ, -दामससिदिणयर झय कुभा
 पउमसरसागरविमाण, -भवणरयणुच्चयसिहिं च ॥८॥
 अमरिदनरिंदमुणिंद-वदिय वदिउ महावीर ।
 कुसलाणुवधिवधुर-मज्झयण कित्तइस्सामि ॥९॥
 चउसरणगमण दुक्कड-गरिहा सुकडाणुमोयणा चेव ।
 एस गणो अणवरय, कायवो कुसलहेउ त्ति ॥१०॥
 अरिहतसिद्धसाहू, केवलिकहिओ सुहावहो धम्मो ।
 एए चउरो चउगइ-हरणा सरण लहइ धन्नो ॥११॥
 अह सो जिणभत्तिभर^२ चउरतरोमचकचुअकरालो ।
 पहरिसपणउम्मीस, सीसमि कयजली भणइ ॥१२॥

रागद्वोसारीण, हता कम्मद्वमाइअरिहंता ।
 विसयकसायारीण, अरिहता हुंतु मे सरण ॥१३॥
 रायसिरिमवकसित्ता, तवचरणं दुच्चर अणुचरित्ता ।
 केवलसिरिमरहता, अरिहता हुतु मे सरण ॥१४॥
 धुइवदणमरहता, अमरिंदनरिंदपूअमरहता ।
 सासयसुहमरहंता, अरिहता हुतु मे सरण ॥१५॥
 परमणगयं मुणंता, जोडदमहिदज्ञाणमरहता ।
 धम्मकहं अरहता, अरिहंता हुतु मे सरण ॥१६॥
 सब्बजिआणमहिस, अरहतासच्चवयणमरहता ।
 वभवयमरहता, अरिहता हुतु मे सरण ॥१७॥
 ओसरणमवसरित्ता, चउतीस अडसए निसेवित्ता ।
 धम्मकह च कहता, अरिहता हुतु मे सरण ॥१८॥
 एगाइ गिराणेगे, सवेहे देहिण समं छित्ता ।
 तिहुअणमणुसासता, अरिहता हुतु मे सरण ॥१९॥
 वयणामएण भुवणं, निव्वावता गुणेषु ठावता ।
 जिअलोअमुद्धरंता, अरिहता हुंतु मे सरण ॥२०॥
 अच्चप्पुअगुणवते, नियजसससहरपसाहिअदिअते ।
 निययमणाइअणते, पडिवन्नो सरणमरिहते ॥२१॥

उज्झयजरमरणाण, समत्तदुक्खत्तसत्तसरणाणं ।
 तिहुअणजणसुहयाण, अरिहताण नमो ताण ॥२२॥
 अरिहतसरणमलसुद्धि-लद्धसुविसुद्धसिद्धवहुमाणो ।
 पणयसिररइयकरकमल-सेहरो सहरिस भणइ ॥२३॥
 कम्मद्वक्खयसिद्धा, साहाविअनाणदसणसमिद्धा ।
 सव्वद्वलद्धिसिद्धा, ते सिद्धा हुतु मे सरण ॥२४॥
 तिअलोअमत्थयत्था, परमपयत्था अचित्तसामत्था ।
 मगलसिद्धपयत्था, सिद्धा सरण सुहपसत्था ॥२५॥
 मूलक्ख'यपडिवक्खा, अमूढलक्खा सजोगिपच्चक्खा ।
 साहाविअत्तसुक्खा, सिद्धा सरण परममुक्खा ॥२६॥
 पडिपिह्निअपडिणीआ, समग्गज्ञाणग्गिदडुभववीआ ।
 जोईसरसरणीआ, सिद्धा सरण समरणीया ॥२७॥
 पाविअपरमाणदा, गुणनीसदा त्रि^३दिन्नभवकदा ।
 लहुईकयरविचदा, सिद्धा सरण खविअददा ॥२८॥
 उवलद्धपरमवमा, दुल्लहलभा विमुक्कसरभा ।
 भुवणघरधरणखभा, सिद्धा सरण निरारभा ॥२९॥
 सिद्धसरणेण नयवभहेउ-साहुगुणजणिअअणुराओ ।
 मेइणिमिलतसुपसत्थमत्थओ तत्थिम भणइ ॥३०॥
 जिअलोअवधुणो कुगइ-खिंधुणो पारगा महाभागा ।
 नाणाइअेहिं सिवसुक्ख-साहगा साहुणो सरण ॥३१॥

कवलिणो परमोही, विउलमई सुअहरा जिणमयंमि।
 आयरियउवज्झाया, ते सव्वे साहुणो सरण ॥३२॥

वउदसदसुभ्रवपुव्वी, दुवालसिक्कारसगिणो जे अ।

जेणकप्पाहालदिअ, परिहारविसु^१द्धिसाहू अ ॥३३॥

वीरासवमहुआसव, सभिन्नसोअकुट्टबुद्धी अ।

वारणवेउच्चिपयाणु--सारिणो साहुणो सरण ॥३४॥

उज्झियवइरविरोहा, निच्चमदोहा पसतमुहसोहा।

अभिमयगुणसंदोहा, हयमोहा साहुणो सरण ॥३५॥

खडिअसिणेहदामा, अकामधामा निकामसुहकामा।

सुपुरिसमप्पाभिरामा, आयारामा मुणी सरण ॥३६॥

मेलिहअविसयकसाया, उज्झिअघरघरणसगसुहसाया।

अकलिअहरिसविसाया, साहू सरणं

गयपमाया ॥३७॥

हिसाइदोससुत्ता, कयकारुत्ता सयभुरुप्प^२त्ता।

अजरामरपट्टखुत्ता, साहू सरण सुकयपुत्ता ॥३८॥

कामविडवणचुक्का, कलिमलमुक्का विमुक्कचोरिक्का।

पावरयसुरयरिक्का, साहुगुणरयणचिच्चिक्का ॥३९॥

साहुत्तसुट्ठीआ ज, आयरियाई तओ अ ते साहू।

साहुभणिअेण गहिआ, तम्हा ते साहुणो सरण ४०॥

पडिवन्नसाहुसरणां, सरण काउ पुणोवि जिणधम्म ।
पहरिसरोमचपवच-कचुअचिअतणू भणइ ॥४१॥

पवरसुकएहि पत्त, पत्तेहि वि नवरि केहि वि न पत्त ।
त केवलिपन्नत्त, धम्म सरण पवन्नोह ॥४२॥

पत्तेण अपत्तेण य, पत्ताणि य जेण नरसुरसुहाड ।
मुक्खसुह पुण पत्तेण, नवरि धम्मो स मे सरण ॥४३॥

निद्वलिअकलुसकम्मो, कयसुहजम्मो खलीकय-
अहम्मो ।

पमुहपरिणामरम्मो, सरण मे होउ जिणधम्मो ॥४४॥
कालत्तएवि न मय, जम्मजरमरणवाहिसयसमय ।

अमयव बहुमय, जिणमय च सरण पवन्नोह ॥४५॥
पसामअकामपमोहं, दिट्ठुदिट्ठेसु न कलियविरोह ।

सिवसुहफल्यममोह, धम्म सरण पवन्नोह ॥४६॥
नरयगइगमणरोह, गुणसदोह पवाइनिक्खोह ।

निहणियवम्महजोह, धम्म सरण पवन्नोह ॥४७॥
भासुरसुवन्नसुदर-रयणालकारगारवमहर्घ ।

निहि मिव दोगच्चहर, धम्म जिणदेसिअ वदे ॥४८॥
चउसरणगमणसचिअ-सुचरिअरोमचअचिअसरीरो ।

कयदुक्कडगरि^१हाअसुह-कम्मक्ख^२यकखिरो भणइ ॥४९॥

इहभविअमन्नभविअं, मिच्छत्तपवत्तण जमहिगरणं ।
जिणपवयणपडिकुट्टु, दुट्ठं गरिहामि त पावं ॥५०॥

मिच्छत्ततमधेणं, अरिहताडसु अवन्नवयणं जं ।
अन्नाणेण विरइअ, इन्हि गरिहामि त पाव ॥५१॥

सुअधम्मसंघसाहुसु, पावं पडिणीअयाइ जं रइअं ।
अन्नेसु अ पावेसु, इन्हि गरिहामि तं पावं ॥५२॥

अन्नेसु अ जीवेसु, मित्तीकरुणाडगोअरेसु कयं ।
परिआवणाइ दुक्खं, इन्हि गरिहामि त पाव ॥५३॥

ज मणवयकाएहिं, कयकारिअअणुमईहिं आयरिय ।
धम्मविरुद्धमसुद्ध, सव्वं गरिहामि तं पाव ॥५४॥

अह सो दुक्कडगरिहा--दलिउक्कडदुक्कडो फुड भणड ।
सुकडाणुरायसमुडन्न--पुन्नपुलयंकुरकरालो ॥५५॥

अरिहंतं अरिहंतेसु, जं च सिद्धत्तणं च सिद्धेसु ।
आयारं आयरिए, उ^१वज्झायत्तं उवज्झाए ॥५६॥

साहूण साहुचरिअ, देसविरडं च सावयज्जणाणं ।
अणुमन्ने सव्वेसिं, सम्मत्तं सम्मदिट्ठीणं ॥५७॥

अहवा सव्व चिय वीअ--रायवयणाणुसारि ज सुकडं ।
कालत्तएवि तिनिहं, अणुमोअेमो तयं सव्वं ॥५८॥

सुहपरिणामो निच्च, चउसरणगमाइ आयर जीवो ।
 कुसलपयडीउ वधइ, वद्धाउ सुहाणुवंधाउ ॥५९॥
 मदणुभावा वद्धा, तिब्बणुभावा उ कुणइ ता चेव ।
 असुहाउ निरणुवधाउ कुणइ तिब्वाउ मंदाउ ॥६०॥
 ता अये कायव्व, बुहेहि निचंधं पि सकिल्लेसंमि ।
 होइ तिकाल सम्म, असकिल्लेसंमि सुकयफल ॥६१॥
 चउरगो जिणधम्मो, न कओ चउरगसरणमवि न कय ।
 चउरंगभवच्छेओ, न कओ हा हारिओ जम्मो ॥६२॥
 इय जीवपमायमहारि-वीरभइतमेयमज्झयण ।
 जाअेसु तिसऊमवऊ-कारण निव्वुइसुहाणं ॥ ६३ ॥

॥ इय चउसरणपइन्नयं समत्तं ॥



२ ॥ आउर पच्चक्खाण ॥

देसिकदेसविरओ, सम्मदिट्ठी मरिज्ज जो जीवो ।
 त होइ वालपडिय-मरण जिणसासणे भणिय ॥१॥
 पच य अणुव्वयाइ, सत्त उ सिक्खाउ देसजइधम्मो ॥
 सब्बेण व देसेण व, तेण जुओ होइ देसजई ॥२॥
 पाणवहमुसावाअे-अदत्तपरदारनियमणेहि च ।
 अपरिमिइच्छाओविय, अणुव्वयाइ विरमणाइ ॥३॥
 जं च दिसावेरमण, अणत्थदडाउ ज च वेरमण ।
 देसावगासियपि य, गुणव्वयाइ भवे ताइं ॥४॥
 भोगाण परिसखा, सामाडअ अतिहिसविभागो य ।
 पोसहविही उ सब्बो, चउरो सिक्खाउ वुत्ताओ ॥५॥
 आसुक्कारे मरणे, अच्छिन्नाअे य जीवियासाए ।
 नाएहि वा अमुक्को, पच्छिमसलेहणमकिच्चा ॥६॥
 आलोइअ निस्सलो, सघरे चेवारुहित्तु सथार ।
 जइ मरइ देसविरओ, त वुत्त वालपडिअय ॥७॥
 जो भत्तपरिन्नाए, उवक्कमो वित्थरेण निदिट्ठो ।
 सो चेव वालपडिय-मरणे नेओ जहाजुग्ग ॥८॥
 वेमाणिएसु कप्पो-वगेषु नियमेण तस्स उववाओ ।
 नियमा सिज्झइ उक्को-सएण सो सत्तममि भवे ॥९॥

इय वालपडिय होइ, मरणमरिहतसासणे दिट्टु ।
 इत्तो पडियपडिय मरण वुच्छ समासेण ॥१०॥
 इच्छामि भते उत्तमट्टु पडिक्कमामि । अइय पडिक्कमामि ।
 अणागय पडिक्कमामि । पच्चुप्पन्न पडिक्कमामि ।
 कय पडिक्कमामि । कारिय पडिक्कमामि ।
 अणुमोइय पडिक्कमामि । मिच्छत पडिक्कमामि ।
 असजम पडिक्कमामि । कसाय पडिक्कमामि ।
 पावपओग पडिक्कमामि । मिच्छादसणपरिणामेसु वा ।
 इहलोगेसु वा । परलोगेसु वा ।
 सच्चित्तेसु वा । अचित्तेसु वा ।
 पचसु इदियत्येसु वा ।
 अन्नाणज्ञाणे ॥ १ ॥ अणायारज्ञाणे ॥ २ ॥
 कुदसणज्ञाणे ॥ ३ ॥ कोहज्ञाणे ॥ ४ ॥
 माणज्ञाणे ॥ ५ ॥ मायज्ञाणे ॥ ६ ॥
 लोहज्ञाणे ॥७॥ रागज्ञाणे ॥८॥ दोसज्ञाणे ॥ ९ ॥
 मोहज्ञाणे ॥१०॥ इच्छज्ञाणे ॥११॥ मिच्छज्ञाणे ॥ १२ ॥
 मुच्छज्ञाणे ॥ १३ ॥ सकज्ञाणे ॥ १४ ॥
 कखज्ञाणे ॥ १५ ॥ गेहिंज्ञाणे ॥ १६ ॥
 आसज्ञाणे ॥ १७ ॥ तन्हज्ञाणे ॥ १८ ॥
 छुहज्ञाणे ॥ १९ ॥ पथज्ञाणे ॥ २० ॥
 पथाणज्ञाणे ॥ २१ ॥ निदज्ञाणे ॥ २२ ॥

- नियाणझाणे ॥ २३ ॥ नेहझाणे ॥ २४ ॥
 कामझाणे ॥ २५ ॥ कलुसझाणे ॥ २६ ॥
 कलहझाणे ॥ २७ ॥ जुञ्जझाणे ॥ २८ ॥
 निजुञ्जझाणे ॥ २९ ॥ सगझाणे ॥ ३० ॥
 सगहजाणे ॥ ३१ ॥ ववहारंझाणे ॥ ३२ ॥
 कयविक्रयंझाणे ॥ ३३ ॥ अणत्थदडझाणे ॥ ३४ ॥
 आभोगझाणे ॥ ३५ ॥ अणाभोगझाणे ॥ ३६ ॥
 अणाइल्लझाणे ॥ ३७ ॥ वेरंझाणे ॥ ३८ ॥
 वियक्कझाणे ॥ ३९ ॥ हिसझाणे ॥ ४० ॥
 हासझाणे ॥ ४१ ॥ पहासझाणे ॥ ४२ ॥
 पओसझाणे ॥ ४३ ॥ फरुसझाणे ॥ ४४ ॥
 भयझाणे ॥ ४५ ॥ रूत्रझाणे ॥ ४६ ॥
 अप्पपससझाणे ॥ ४७ ॥ परनिदंझाणे ॥ ४८ ॥
 परगरिहझाणे ॥ ४९ ॥ परिग्गहझाणे ॥ ५० ॥
 परपरिवायजाणे ॥ ५१ ॥ परदृसणजाणे ॥ ५२ ॥
 आरभजाणे ॥ ५३ ॥ सरभजाणे ॥ ५४ ॥
 पावाणुमोयणजाणे ॥ ५५ ॥ अहिगरणझाणे ॥ ५६ ॥
 असमाहिमरणजाणे ॥ ५७ ॥ कम्मोदयपच्चयझाणे ॥ ५८ ॥
 इड्डिगारवंजाणे ॥ ५९ ॥ रसगारवझाणे ॥ ६० ॥
 सायागारवंझाणे ॥ ६१ ॥ अवेरमणझाणे ॥ ६२ ॥
 अमुत्तिमरणझाणे ॥ ६३ ॥

पसुत्तस्स वा । पडिवुद्धस्स वा । जो मे कोड
 देवसिओ राडओ उत्तमट्टे अडक्कमो वड्कमो अइयारो
 अणायारो तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥

एस करेमि पणाम, जिणवरवसहस्स वद्धमाणस्स ।
 सेसाण च जिणाण, सगणहराण च सव्वेसिं ॥११॥

सव्वं पाणारभ, पच्चक्खामित्ति अलियवयण च ।

सव्वमदिन्नादाण, मेहुन्न परिग्गह चेव ॥ १२ ॥

सम्म मे सव्वभूएसु, वेर मज्झ न केणइ ।

आसाओ वोसिरित्ताण, समाहिमणुपालए ॥१३॥

सव्व चाहारविहिं, सन्नाओ गारवे कसाए य ।

सव्व चेव ममत्त, चएमि सव्व स्रमावेमि ॥१४॥

हुज्जा इममि समअे, उवक्कमो जीविअस्स जइ मज्झ ।

अेयं पच्चक्खाण, विउला आराहणा होउ ॥१५॥

सव्वदुक्खपहीणाए, सिद्धाण अरहओ नमो ।

सद्वहे जिणपन्नत्त, पच्चअसामि य पावग ॥१६॥

नमुत्थु धुअपावाण, सिद्धाण च महेसिण ।

सथारं पडिवज्जामि, जहाकेवलिवेसिय ॥१७॥

ज किंचिवि दुच्चरिय, त सव्व वोसिरामि तिविहेण ॥

सामाडअ च तिविह, करेमि सव्व निरागार ॥१८॥

वज्झ अविंभतर उवहिं, सरीराइ सभोयण ।

मणसा वयकाएहिं, सव्व भावेण वोसिरे ॥१९॥

सव्वं पाणारंभ, पच्चक्खामित्ति अलियवयण च ।
 सव्वमदिन्नादाण, मेहुन्न परिग्गह चेव ॥२०॥
 सम्म मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झ न केणइ ।
 आसाओ वोसिरित्ताण, समाहिमणुपालअे ॥२१॥
 राग वध पओस च, हरिस दीणभावय ।
 उस्सुगत्त भय सोग, रड अरइ च वोसिरे ॥२२॥
 समत्त परिवज्जामि, निम्ममत्त उवट्ठिओ ।
 आलवण च मे आया, अवसेस च वोसिरे ॥२३॥
 आया इ मह नाणे, आया मे दंसणे चरित्ते य ।
 आया पच्चक्खाणे, आया मे सजमे जोगे ॥२४॥
 एगो वच्चइ जीवो, एगो चेवुववज्जए ।
 एगस्स चेव मरण, एगो सिज्झइ नीरओ ॥ २५ ॥
 एगो मे सासओ अप्पा, नाणदसणसजुओ ।
 सेसा मे वाहिरा भावा, सव्वे सजोगलक्खणा ॥२६॥
 सजोगमूला जीवेण, पत्ता दुक्खपरंपरा ।
 तम्हा सजोगसवध, सव्व त्तिविहेण^१ वोसिरे ॥ २७ ॥
 मूलगुणे उत्तरगुणे, जे मे नाराहिया पयत्तेण^२ ।
 तमह सव्व निदे, पडिक्कमे आगमिस्साण ॥ २८ ॥
 सत्त भए अट्टु मए, सन्ना चत्तारि गारवे तिन्नि ।

आसायण तिचीस, राग दोस च गरिहामि ॥ २९ ॥
 असजममन्नाण, मिच्छत्त सवमेव य समत्त ।
 जीवेसु अजीवेसु अ, त निदे त च गरिहामि ॥३०॥
 निंदामि निदणिज्ज, गरिहामि अ ज च मे गरहणिज्ज।
 आलोएमि अ सव्व, अविंभतरवाहिर उवहिं ॥३१॥
 जह वालो जपतो, कज्जमकज्ज च उज्जुअ भणइ ।
 त तह आलोइज्जा, मायामयप्पिप्पमुक्को^१ य ॥३२॥
 नाणमि वसणमि य, तवे चरित्ते य चउसुवि अकपो ।
 धीरो आगमकुसलो, अपरिस्सावी रहस्साण ॥३३॥
 रागेण व दोसेण व, ज भे अकयन्नुआ पमाएण ।
 जो मे किचिपि भणिओ, तमह तिविहेण खामेमि ॥३४॥
 तिविह भणति मरण, वालाण वालपडियाण च ।
 तइय पडियमरण, ज केवलिणो अणुमरति^२ ॥३५॥
 जे पुण अट्टुमईया, पयलियसन्ना य वक्कभावा य ।
 असमाहिणा मरति, न हु ते आराहगा भणिया ॥३६॥
 मरणे विराहिए देव-दुग्गई दुल्लहा य फिर वोही ।
 ससारो य अणतो, हवइ पुणो आगमिस्साण ॥३७॥
 का देवदुग्गई ? का-अवोहि ? केणेव बुज्झइ मरण ? ।
 केण अणतपार, ससार हिडई ? जीवो ॥ ३८ ॥

ऋद्वपदेवकिविस-अभिओगा आसुरी य समोहा ।
 ता देवदुग्गईओ, मरणमि विराहिए हुति ॥ ३९ ॥
 मिच्छादसणरत्ता, सनियाणा किन्हलेसमोगाढा ।
 इह जे मरंति जीवा, तेसिं दुलहा भवे वोही ॥४०॥
 सम्मदसणरत्ता, अनियाणा सुकलेसमोगाढा ।
 इह जे मरति जीवा, तेसि सुलहा भवे वोही ॥४१॥
 जे पुण गुरुपडिणीया, बहुमोहा ससवला कुसीला या
 असमाहिणा मरंति, ते हुति अणतससारी ॥ ४२ ॥
 जिणवयणे अणुरत्ता, गुरुवयण जे करति भावेण ।
 असवलअसकिलिटा, ते हुति परित्तससारी ॥ ४३ ॥
 वालमरणाणि बहुसो, बहुआणि अकामगाणि मरणाणि
 मरिहति ते वराया, जे जिणवयण न याणति ॥४४॥
 सत्यग्गहण विसभ-क्खण च जलण च जलप्पवेसो अ ।
 अणयारभडसेवी, जम्मणमरणाणुवधीणि ॥ ४५ ॥
 उड्डमहे तिरियमिवि, मयाणि जीवेण वालमरणाणि ।
 दसणनाणसहगओ, पडियमरण अणुमरिस्स ॥ ४६॥
 उव्वेयणय जार्ड-मरण नरणसु वेअणाओ य ।
 एआणि सभरंतो, पडियमरण मरसुइन्हि ॥ ४७ ॥
 जइ उप्पज्जइ दुक्खं, तो दद्धेवो सहावओ नवर ।
 कि किं मए न पत्त, ससारं^१ ससरत्तेण ॥ ४८ ॥

ससारचक्रवाले, सबवेवि य पुग्गला मए बहुत्तो ।
 आहारिआ य परिणा-मिआय न यह गओ तत्ति ॥४९॥
 तणकट्टेहि व अग्गी, लवणजलो वा नडसहस्सेहि ।
 न डमो जीवो सक्को, तिप्पेउ^१ कामभोगेहिं ॥ ५० ॥
 आहारनिमित्तेण, मच्छा गच्छति सत्तमिं पुढविं ।
 सच्चित्तो आहारो, न खमो^२ मणसावि पत्थेउ ॥५१॥
 पुढिं कयपरिकम्मो, अनियाणो उहिउण मइवुद्धिं ।
 पच्छा मलिअकसाओ, सज्जो मरण पडिच्छामि ॥५२॥
 अक्कडेचिरभाविय, ते पुरिसा मरणदेसकालमि ।
 पुव्वकयकम्मपरिभा वणाइ पच्छा परिवडति ॥ ५३ ॥
 तम्हा चदगविञ्ज, सकारण उज्जुएण पुरिसेण ।
 जीवो अपिरहियगुणो, कायव्वो मुक्खमग्गमि ॥५४॥
 वाहिरजोगपिरहिओ, अट्ठिभतरज्ञाणजोगमल्लीणो ।
 जह तमि देसकाले, अमूढसन्नो चयइ देह ॥ ५५ ॥
 हत्तूण रागदास, छित्तूण^३ य अट्टकम्मसघाय ।
 जम्मणमरणरहट्ट, छित्तूण^४ भवा विमुच्चिहिसि ॥५६॥
 एउ सव्वुएस, जिणट्ठिट्ठ सदहामि तिविहेण ।
 तसथावरखेमकर, पार निव्वाणमग्गस्स ॥ ५७ ॥
 न हि तमि देसकाले, सक्को वारसविहो सुअप्पखधो ।
 सब्बो अणुचिंतेउ, वणियपि समत्थचित्तेण ॥ ५८ ॥

एगमिवि जमि पए, सवेग वीअरायमग्गंमि ।
 गच्छइ नरो अभिक्ख, त मरण तेण मरियव्वं ॥५९॥
 ता एगपि सिलोग, जो पुरिसो मरणदेसकालमि ।
 आराहणोवउत्तो, चिततो आराहगो होइ ॥६०॥
 आराहणोवउत्तो, काल काऊण सुविहिओ सम्मं ।
 उक्कोसं तिन्नि भवे, गतूण लहइ निवाण ॥ ६१ ॥
 समणुत्ति अह पढमं, वीयं सव्वत्थ सजओमिति ।
 सव्वं च वोसिरामि, एय भणिय समासेण ॥६२॥
 लद्ध अलद्धपुव्व, जिणवयणसुभासियं अमयभूअ ।
 गहिओ सुग्गडमग्गो, नाहं मरणस्स वीहेमि ॥६३॥
 धीरेणवि मरियव्व, काउरिसेणवि अवस्स मरियव्वं ।
 दुन्हंपि हु ^१मरिअव्वे, वर खु धीरत्तणे मरिउ ॥६४॥
 सीलेणवि मरियव्व, निस्सीलेणवि ^२अवस्स मरियव्व ।
 दुन्हंपि हु ^३मरिअव्वे, वरं खु सीलत्तणे मरिउ ॥६५॥
 नाणस्स दसणस्स य, सम्मत्तस्स य चरित्तजुत्तस्स ।
 जो काही उवओग, ससारा सो विमुच्चिहिसि ॥६६॥
 चिरउसिय वभयारी, पप्फोडेऊण सेसय कम्म ।
 अणुपुवीइ विसुद्धो, गच्छइ सिद्धिं धुयकिलेसो ॥६७॥
 निकसायस्स दत्तस्स, सूरस्स ववसाइणा ।
 ससारपरिभीअस्स, पच्चक्खाण सुह भवे ॥ ६८ ॥

१ मरिअव्वं. २ निस्सीलेणवि. ३ मरिअव्वं.

एय पच्चम्खाण, जो काही मरणदेसकालमि ।
 धीरो अमूढसन्नो, सो गच्छड उत्तम ठाण ॥६९॥
 धीरो जरमरणविऊ, धीरो विघ्नाणनणसपन्नो ।
 लोगस्सुज्जोअगरो, विसउ खय सब्बदुक्खाण ॥७०॥

॥ इय आउरपच्चम्खाणपडन्नय समत्त ॥

३ ॥ परमानद-पचविशतिः ॥

परमानदसयुक्त, निर्विकार निरामय ।
 ध्यानहीना न पश्यति, निजदेहे व्यवस्थित ॥१॥
 अनतसुरसपन्न, ज्ञानामृतपयोधर ।
 अनतवीर्यसपन्न, दर्शन परमात्मन ॥ २ ॥
 निर्विकार निराहार, सर्वसगत्रिवर्जित ।
 परमानदसपन्न, शुद्ध चैतन्यलक्षण ॥ ३ ॥
 त्रिभिर्विशेषक
 उत्तमा ह्यात्मचिंता स्यात्-मोहचिंता च मध्यमा ।
 अधमा कामचिंता स्यात्-परचिंताऽधमाऽवमा ॥४॥
 निर्विकल्प समुत्पन्न, ज्ञानमेवमुधारस ।
 त्रिवेकमजल्लिङ्कता, त पिवन्ति तपस्विन ॥५॥

सदानदमय जीवं, यो जानाति स पण्डितः ।

ससेवते निजात्मान, परमानंदकारण ॥६॥

नलिन्यां च यथानीरं, भिन्न तिष्ठति सर्वदा ।

अयमात्मा स्वभावेन, देहे तिष्ठति निर्मल ॥७॥

द्रव्यकर्मविनिर्मुक्त, भावकर्मविवर्जित ।

नोकर्मरहित विद्धि, निश्चयेन चिदात्मक ॥८॥

आनंदं ब्रह्मणो रूपं, निजदेहे व्यवस्थितं ।

ध्यानहीना न पश्यति, जात्यंधा इव भास्कर ॥९॥

तद्ध्यान क्रियते भव्य, मनो येन विलीयते ।

तत्क्षण पश्यति शुद्ध, चित्चमत्कारलक्षण ॥१०॥

ये धर्मलीना मुनयः प्रधानाः ।

ते दुःखहीना नियत भवति ।

सप्राप्य शास्त्र परमात्मतत्त्व, व्रजति मोक्ष क्षणमेक

मध्ये ॥ ११ ॥

आनटरूप परमात्मतत्त्व, समस्तसकल्पविकल्पमुक्त ।

स्वभावलीना निवसति नित्य, जानाति योगी स्वय-

मेव तत्त्वं ॥१२॥

सदानदमय शुद्ध, निराकारं निरामय ।

अनतसुखसपन्न, सर्वसगविवर्जितं ॥ १३ ॥

लोकमात्र प्रमाणोऽह, निश्चयेन न सशय ।
 व्यवहारे देहमात्र, कथित परमेश्वर ॥१४॥
 यत्क्षण पश्यति शुद्ध, तत्क्षण गतविभ्रम ।
 सुस्थ चित्त स्थिरीभूत, निर्विकल्पसमाधिना ॥१५॥
 स एव परम ब्रह्म, स एव जिनपुगव ॥
 स एव परम चित्त, स एव परमो गुरु ॥१६॥
 स एव परम ज्योति स एव परम तप ।
 स एव परम ध्यान, स एव परमात्मक ॥१७॥
 स एव सर्वकल्याण, स एव सुखभाजन ।
 स एव शुद्धचिद्रूप, स एव परम शिव ॥१८॥
 स एव परमानन्द, स एव सुखदायक ।
 स एव परचैतन्य, स एव गुणसागर. ॥१९॥
 परमाह्लादसपन्न, रागद्वेषविवर्जित ।
 स अह देहमध्येषु, यो जानाति स पडित ॥२०॥
 आकाररहित शुद्ध, स्वस्वरूपे व्यवस्थित ।
 सिद्धावष्टगुणोपेत, निर्विकार निरामय ॥२१॥
 तत्सदृश निजात्मान, परमानन्दकारण ।
 ससेवते निजात्मान, यो जानाति स पडित ॥२२॥
 पाषाणेषु यथा हेम, दुग्धमध्ये यथा घृत ।
 तिलमध्ये यथा तैल, देहमध्ये तथा शिव ॥२३॥

काष्ठमध्ये यथा वह्निः, शक्तिरूपेण तिष्ठति ।
 अयमात्मा स्वभावेन, देहे तिष्ठति निर्मलः ॥२४॥
 अव्रतानि परित्यज्य, व्रतेषु परिनिष्ठितः ।
 त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य, परम पदमात्मनः ॥२५॥

इति श्रीपरमानंदपचविंशतिः सपूर्णा



समाधि शतक.

दोहरा

समरी भगवती भारती, प्रणमी जिन जगवधु, क्वठ आतमबोधको, करगु सरस प्रबध.	१
केवल आतमबोध है, परमारथ शिवपथ, तामे जीनकी मगनता, सोइ भावनिग्रंथ.	२
भोगज्ञान जुं बालको, बाह्यज्ञानकी टोर, तरुणभोग अनुभव जीस्यो, मगनभाव कछु ओर.	३
आतमज्ञाने मगन जो, सो सत्र पुद्गलखेल, इद्रजाळ करी लेखवे, मिले न तहा मनमेल	४
ज्ञान विना व्यवहारको, कहा वनाप्रत नाच, रत्न कहो को काचकु, अंत काच सो काच.	५
राचे साचे व्यानमें, जाचे विषय न कोइ, नाचे माचे भुगतिरस, आतमज्ञानी सोइ	६
वहिर अतर परम ए, आतमपरिणति तीन, देहादिक आतमभरम, वहिरातम वहु टीन.	७
चित्तदोष आतमभरम, अतर आतम खेल, अति निर्मळ परमातमा, नादिक कर्मको भेल.	८
नरदेहादिक देखके, आतमज्ञाने हीन, इन्द्रियमल वहिरातमा, अहकार मन लीन.	९

अलख निरंजन अकलगति, व्यापी रह्यो शरीर, लखै मुझाने आतमा, खीर लीन ज्यु नीर.	१०
अरिमित्रादिक कल्पना, देहातम अभिमान, निजपर तनु संबधमति, ताको होत निदान.	११
देहादिक आतम भ्रमी, कल्पे निज परभाव, आतमज्ञानी जग लहे, केवल शुद्धस्वभाव.	१२
स्वपर विकल्पै वासना, होत अवित्रारूप, ताते बहुरी विकल्पमय, भ्रमजाल अंधरूप.	१३
पुत्रादिककी कल्पना, देहातम भ्रम भूल, ताकुं जड संपत्ति कहे, हहा मोह प्रतिकूल.	१४
या भ्रममति अत्र छाड दो, देखो अंतरदृष्टि, मोहदृष्टि जो छोडीए, प्रगटे निज गुणसृष्टि.	१५
रूपादिकको देखवो, कहन कहावन कूट, इंद्रिय योगादिक बले, ए सत्र लूटा लूट.	१६
परपद आतम द्रव्यकुं, कहन सुनन कछु नाहि, चिदानंद्यन खेलही, निजपद तो निजमाही.	१७
ग्रहणअयोग्य ग्रहे नहि, ग्रहो न छोडे जेह, जाने सर्व स्वभावने, स्वपर प्रकाशक तेह.	१८
स्पेके भ्रम सीपमें, ज्युं जड करे प्रयास, देहातमभ्रमते भयो, त्यु तुज कूटअभ्यास.	१९
मिटे रजतभ्रम सीपमें, जनप्रवृत्ति जीम नाहि, न रमे आतमभ्रम मिटे, त्यु देहादिकमाहि.	२०
फीरे अपोपे कठगत, चापीकरके न्याय, ज्ञानप्रकाशे मुगति तुज, सहज सिद्ध निरुपाय.	२१
या विन तु मूतो सदा, योगे भोगे जेण, ए अतींद्रिय तुं छते, कही शके कहु केण.	२२

- दगे भाने भी करे, शानी गरदि भराभ,
 व्यरदार व्यरदारगुं, निशयमें थिर थभ. २३
- जग जाणे उमग भी, भी जाने जग भय,
 शानीरु जगम रघो, यु नदि फोड सपंच. २४
- या पर छाही शानफी, व्यरदारें ज्युं फदा,
 निरिक्कन्य नुन रूपमें, छिया भाव न सुहाड. २५
- यु बहिरातम छाडर, भतरआतम होइ,
 परमातम मति भातीप, जहा विक्कन्य न फोइ. २६
- गोमें या हट रामना, परमातम पत् हत,
 इलिका भ्रमरी ध्यानगत, जिनमति जिनपत् देत. २७
- भार भय पत् गोइ ह, जहा जटफो विश्वास,
 जीनसो भी हस्तो फर, गोइ अभयपद तास
 इंद्रियग्रसि निरोध फरी, जो खिनु गलितविभार;
 देरें अतरआतमा, गो परमातमभार २८
- देदानिक ते विक्कमें, मोथ न्यार तेहु,
 परमातम पय डीपिका, शुद्ध भावना एहु. २९
- क्रियाफळ भि नहु लह, भेद ज्ञान सुगरां,
 या तिन बहु विजि तप फर, तोभि नहि भवभत. ३०
- अभिनिवश पुहुगलविषय, शानीरु फहा होत,
 गुणको भी मद मिट गयो, प्रकटत रादज लपोत. ३१
- धर्म क्षमादिक भी मिटे, प्रकटत धर्मसन्ध्यास,
 तो फल्पित भरभारमें, वयुं नहि होत उदास ? ३२
- रज्जु अविद्याजनित अदि, मिटे रज्जुकें ज्ञान,
 आतमज्ञाने ल्युं मिटे, भारभरोध निदान. ३३
- धर्म अरूपी द्रव्यकें, नहि रपी पर हेत,
 अपरमगुन राचें नही, युं शानी मति देत. ३४

नैगमनयकी कल्पना, अपरमभाव विशेष, परमभावमें मगनता, अति विशुद्ध नयरेख.	३६
रागादिक जब परिहरी, करे सहज गुणखोज, घटमें भी प्रगटे तदा, चिदानन्दकी मोज.	३७
रागादिक परिणामयुत, मनहि अनत संसार, तेहिज रागादिकरहित, जाने परमपद सार.	३८
भवप्रपंच मनजाळकी, बाजी जठी मूळ, चार पाच दिन सुश लगे, अंत धूळकी धूळ.	३९
मोह बागुरी जाल मन, तामें मृग मत होउ, यामें जे मुनि नहि परे, ताकुं असुख न कोउ.	४०
जब निज मन सनमुख हुए, चित्तगत पर गुण दोष, तत्र बहु राड लगाडए, ज्ञान ध्यान रस पोष.	४१
अहकार परमें धरत, न लहे निज गुण गंव, अहंज्ञान निज गुण लगे, छटे परहि संवय.	४२
अर्थ त्रिलिङ्गीपद लहे, सो नहि आतमरूप, तो पद करी रुथुं पाइए, अनुभवगम्य स्वरूप.	४३
आतमगुण अनुभव तभी, देहादिकतें भिन्न, भूले विभ्रमवासना-जोरे फिरे फिरे खिन्न.	४४
देखें सो चेतन नही, चेतन नहि दिखाय, रोष तोष किनसु करे, आपहि आप नुझाय.	४५
त्यागग्रहण बाहिर करे, मूढ कुशल अतरग, बाहिर अंतर सिद्धकु, नही त्याग अरु संग.	४६
आतमज्ञाने मन धरे वचन काय रति छोड, तो प्रकटे शुभ वासना, गुण अनुभवकी जोड.	४७

योगारभीकु अमुख, अतर बाहिर मुग्व सिद्धयोगकु मुख है, अतर बाहिर दु'ख.	४८
सो कहिए सो पृछीए, तामें धरीए रंग, याते मिटे अमोघता, वोप रुप वह चग.	४०
नहि कछु इन्द्रियत्रिपयमें, चेतनकु हितकार, तो भी जन तामें रमे, अधो मोहअ गार.	५०
मूढातमसु ते प्रवळ, मोह छोडि शुद्धि, जागत है ममताभरे, पुद्गलमें-निज उद्धि.	५१
ताकु बोधनश्रम अफळ, जाहु नही शुभ योग, आप आपकु वृक्षये, निश्चय अनुभवभोग.	५२
परको कीशो वृक्षावनो, तु पर ग्रहण न लाग, चाहे जेमें वृक्षवो, सो नहि तुज गुणभाग	५३
जगळो प्राणी निज मते, ग्रह वचन मन काय, तबलो है ससार धिर, भेदज्ञान मिट जाय	५४
मुखम यन जीरन नये, ज्यु कपर त्यु देह, ताने युव माने नहि, अपनी परिणति तेह.	५५
जैसे नाश न आपको, होत वस्त्रको नाश, तेसे तनुके नाशते, चेतन अचल अनाश.	५६
जगम जग थावर परे, जाकु भासे निच, सो चारये समतासु ग, अवर नहि जड चित्त.	५७
मुगति दूरी ताकु नही, जाकु स्थिर सतोप, दूर मुगति ताकु सदा, जाकु अविरतिपोप.	५८
होत वचन मन चपलता, जनके सग निमित्त, जन सगी होवे नहि, ता ते मुनि जग मित्त.	५९

- वास नगर वनके विषे, माने दुविध अगुद्ध,
आतमदरशीकुं वसती, कैवल आतम शुद्ध. ६०
- आप भावना देहमें, देहतर गति हैत,
आपगुद्धि जो आपमें, सो विदेहपद देत. ६१
- भवि शिवपद दे आपकुं, आपहि सनमुख होइ,
ताते गुरु है आतमा, अपनो और न कोइ. ६२
- सोवत है निज भावम, जागे जे व्यवहार,
सूतो आतमभावमें, सदा स्वरूप अंधार. ६३
- अंतर चेतन देखके, वाहीर देहस्वभाव,
ताते अंतरज्ञानते, होइ अचळ दृढभाव. ६४
- भासे आतमज्ञान धुरी, जम उन्मत्त समान,
आगे दृढ अभ्यासते, पत्थर तृण अनुमान. ६५
- भिन्न देहते भाविए, त्यु आपहीमें आप,
ज्युं स्वप्नहीमें नही ह्युए, देहातम भ्रम ताप. ६६
- पुण्य पाप व्रत अत्रत, गुगति टोडके त्याग,
अत्रत परे त्रत भी तजे, ताते वरी शिवराग. ६७
- परम भाव प्राप्ति लगे, त्रत धर अत्रत छोड,
परम भाव रति पायके, व्रतभि इनमे जोड. ६८
- दहनसमे ज्युं तृण दहे, त्युं त्रत अत्रत छेद,
क्रियाशक्ति इनमें नही, जागती निश्चय भेद. ६९
- व्रतगुण धारत अत्रती, त्रती ज्ञानगुण दोइ,
परमात्मके ज्ञानते, परमआतमा होइ. ७०
- लिंग देह आश्रित रहे, भवको कारण देह,
ताते भव छेहे नही, लिंग पक्ष रति जेह. ७१

- जाति देह आश्रित रह, भवको कारण देह,
ताते भव छेदे नहि, जाति पक्ष रति जेह. ७२
- जाति लिंगक पक्षमें, जीनकु हँ दृढ राग,
मोहजाळमें सो परं, न लहे शिव सुख भाग. ७३
- लिंग द्रव्य गुण आदरे, निश्चय मुख व्यवहार;
बाह्य लिंग हठ नय मति, कर मूढ अचिचार. ७४
- भावलिंग जाते भये, सिद्धा पनरस भेद,
ताते आत्मकु नहि, लिंग न जाति न भेद. ७५
- पगु दृष्टि ज्युं अधम, दृष्टिभेद नहु देत,
आत्मदृष्टि शरीरमें, त्यु न धरे गुणहेत. ७६
- स्वप्न विकलतादिक दशा, भ्रम माने व्यवहार,
निश्चय नयमें टोपस्य, विना सदा भ्रमचार. ७७
- छूटे नहि बहिरात्मा, जागतभि पलि ग्रथ,
छूटे भवयें अनुभवी, सुपन विकल निग्रथ. ७८
- पत्नी पार कहा पावनो, मिटयो न मनको चार,
ज्युं कोल्हुके बेलकु, घरही कोस हजार. ७९
- जहा बुद्धि धिर पुरुषकी, तहा रुचि तहा मन लीन,
आत्म गति आत्म रुचि, कहो कौन आधीन. ८०
- सेवत पर परमात्मा, लहे भविक तस रूप,
वतिया सेवत ज्योतिकु, होवत ज्योतिसरूप. ८१
- आप आपमें स्थित हुए, तरयें अग्निउद्योत,
सेवत आपहि आपकु, त्यु परमात्म होत. ८२
- एहि परम पद भागीए, वचनअगोचर सार,
सहज ज्योति तो पाइए, फीर नही भयअवतार. ८३

- ज्ञानीकुं दुःख कहुं नही, सहज सिद्ध निर्वाण,
सुख प्रकाश अनुभव भयो, सबहि ठोर कल्याण. ८४
- सुपनदृष्टि सुखनाशतें, ज्युं दुःख न लहे लोरु,
यागर दृष्ट विनष्टमें, त्युं बुधकुं नहि शोक. ८५
- सुख भावित दुःख पायके, क्षय पावे जगज्ञान,
न रहे सो बहु तापमें, कोमळ फूल समान. ८६
- दुःखपरितापे नवि गले, दुःख भावित मुनि ज्ञान,
बज्र गले नवि दहनमें, कंचनके अनुमान. ८७
- तातें दुःख सुभावीए, आप शक्ति अनुसार,
तो दृढतर हुइ उल्लसे, ज्ञान चरण आचार. ८८
- रनमें लरते सुभट ज्युं, गिने न वानप्रहार,
मभुरंजनके हेत त्युं, ज्ञानी अमुख प्रचार. ८९
- व्यापारी व्यापारमें, सुख करी माने दुःख,
क्रियाकष्ट सुखमें गिने, त्युं वंछित मुनि सुख. ९०
- क्रिया योग अभ्यास है, फल है ज्ञान अत्र,
दोनुंकुं ज्ञानी भजे, एक मति मति अंध. ९१
- इच्छा शास्त्र समर्थना, त्रिविध योग है सार,
इच्छा निज शक्ति करी, विकल योग व्यवहार. ९२
- शास्त्र योग गुणठाणको, पूरण विधि आचार,
पद अतीत अनुभव कयो, योग तृतीय विचार. ९३
- रहे यथा बल योगमें, गहे सकल नय सार,
भावजनता सो लहे, चहे न मिथ्या चार. ९४
- भारगअनुसारी क्रिया, टेदे सो मतिहीन,
कपटक्रियारल जग ठगे, सो भी भवजलमीन. ९५

- जाति देह आश्रित रह, भवको कारण देह,
ताते भव ठेदे नहि, जाति पक्ष रति जेह. ७२
- जाति लिंगक पक्षमें, जीनकु हँ दृढ राग,
मोहजाळर्म सो पर, न लहे शिव सुख भाग. ७३
- लिंग द्रव्य गुण आदरे, निश्चय सुख व्यवहार,
वाह्य लिंग हठ नय मति, कर मूढ अविचार. ७४
- भावलिंग जाते भये, सिद्धा पनरस भेद,
ताते आत्मकुं नहि, लिंग न जाति न भेद. ७५
- पगु दृष्टि ज्यु अधर्म, दृष्टिभेद नहु देत,
आत्मदृष्टि शरीरमें, त्यु न धर गुणहेत. ७६
- स्वप्न विकलतादिक दशा, भ्रम माने व्यवहार,
निश्चय नयमें दोषस्य, विना सदा भ्रमचार. ७७
- छूटे नहि बहिरातमा, जागतभि पलि ग्रथ,
छूटे भवयें अनुभवी, सुपन विकल निग्रथ. ७८
- पढी पार कहा पावनो, मिटयो न मनको चार,
ज्यु कोल्हुके बेलकु, घरही कोस हजार. ७९
- जहा बुद्धि थिर पुरुषकी, तहा रुचि तहा मन लीन,
आत्म गति आत्म रुचि, कहो कौन आधीन. ८०
- सेवन पर परमात्मा, लह भविक तस रूप
वतिया सेवत ज्योतिकु, होवत ज्योतिसरूप. ८१
- आप आपमें स्थित हुए, तरथ अग्निउद्योत,
सेवत आपहि आपकु, त्यु परमात्म होत. ८२
- एहि परम पद भावीए, वचन-गोचर सार,
सहज ज्योति तो पाइए, फीर नही भवअवतार. ८३

- ज्ञानीकुं दुःख कहुं नही, सहज सिद्ध निर्वाण,
सुख प्रकाश अनुभव भयो, सवहि ठोर कल्याण. ८४
- सुपनदृष्टि सुखनाशते, ज्युं दुःख न लहे लोक,
यागर दृष्ट विनष्टमें, त्युं सुखकु नहि शोक. ८५
- सुख भावित दुःख पायके, क्षय पावे जगज्ञान,
न रहे सो बहु तापमें, कोमळ फूल समान. ८६
- दुःखपरितापे नवि गले, दुःख भावित मुनि ज्ञान,
वज्र गले नवि दहनमें, कंचनके अनुमान. ८७
- ताते दुःख सुभासीए, आप शक्ति अनुसार,
तो दृढतर हुइ उल्लसे, ज्ञान चरण आचार. ८८
- रनमें लरते सुभट ज्युं, गिने न वानप्रहार,
प्रभुरंजनके हेत त्युं, ज्ञानी अमुख प्रचार. ८९
- व्यापारी व्यापारमें, सुख करी माने दुःख,
क्रियाकष्ट सुखमें गिने, त्युं वंडित मुनि सुख. ९०
- क्रिया योग अभ्यास है, फल है ज्ञान अवंध,
दोनुंहुं ज्ञानी भजै, एक मति मति अंध. ९१
- इच्छा शास्त्र समर्थना, त्रिविध योग है सार,
इच्छा निज शक्ति करी, विकल योग व्यवहार. ९२
- शास्त्र योग गुणठाणको, पूरण त्रिधि आचार,
पद अतीत अनुभव कही, योग तृतीय विचार. ९३
- रहे यथा बल योगर्म, गह सकल नय सार,
भावजैनता सो लहे, चहे न मिथ्या चार. ९४
- मारगअनुसारी क्रिया, छेदे सो मतिहीन,
कपटक्रियावल जग टगे, सो भी भवजलमीन. ९५

निज निज मनमें लरी परे, नयवादी वह रग, उदासीनता परिणमे, ज्ञानीकू सरग.	९६
दोउ लरै तिहा एक परे, देखनमें दुःख नाहि, उदासीनता मुखसदन, परप्रवृत्ति दुःख छाहि.	९७
उदासीनता सुरलता, समतारसफळ चाख, परपेखनमें मत पर, निजमें गुण निज राख.	९८
उदासीनता ज्ञानफळ, परप्रवृत्ति है मोह, शुभ जानो सो आदरो, उदित विनेक प्ररोह.	९९
दोधिकशतके उद्भूयु, तंन समाधि विचार, धरो एह बुध कठमें, भावरतनको हार.	१००
ज्ञानविमान चारित्रपवि, नदन सहजसमाध, मुनिसुरपति समताशची,—यश रगे रमे अगाध.	१०१
कवि जशविचये ए रच्यो, दोधिकशतक प्रमाण, एह भाव जो मन अर, सो पाव कल्याण.	१०२

समता शतक

दोहरा

समता गगा मगनता, उदासीनता जात, चिदानंद जयवत हो, केवल भानु प्रभात.	१
सरल कलामें सार लय, रहो दूर स्थिति एह, सरल योगमें भि सरल, लय दे ब्रह्म विदेह.	२
चिदानदविधुकी कला, अमृतबीज अनपाय, जाने केवल अनुभवी, किनहि कही न जाय.	३

तो भी आश्रवतापके, उपशम करण निदान, वरपतहु ताके वचन, अमृत विंदु अनुमान.	४
उदासीनता परिनयन, ज्ञान ज्ञान रग रोल, अष्ट अंग मुनियोगको, एही अमृतनिचोल.	५
अनासंग मति विषयमें, राग द्वेषको छेद, सहज भावमें लीनता, उदासीनता भेद.	६
ताको कारण अममता, तामें मन विश्राम, करे साधु आनदघन, होवत आतमराम.	७
ममता थिर सुख शाकिनी, निर्ममता सुखमूल, ममता शिव प्रतिकूल है, निर्ममता अनुकूल.	८
ममता विष मृडित भये, अंतरंग गुणवृंद, जागे भावनिरागता, लगत अमृतके सुंद.	९
परिणति विषय विरागता, भवतरु मूल कुठार, ता आगे कर्युं करी रहे, ममता वेलि प्रचार.	१०
हृदा मोहकी वासना, बुधकुं भी प्रतिकूल, या केवल श्रुतअधता, अहंकारको मूल.	११
मोहतिमिर मनमें जगे, याके उदय अत्रेह, अंधकार परिणाम है, श्रुतके नामे तेह,	१२
करे मृदमति पुरुषकुं, अत्र भी मद भय रोष, ज्यु रोगीके खीर घृत, सन्निपातका पोष	१३
ढाले दाह तृषा हरे, गाले ममतापक, लहरि भाववैरागकी, ताकुं भजो निशक.	१४
राग भुजगम विष हरन, गारो भत्र विषेन, भव मन मूल उछेदहु, विलसे याकी देन.	१५

- रवि बीजो त्रीजो नयन, भतर भाव प्रकाश,
करो रथ सर परिहरी, एक विवेक अभ्यास. १६
- प्रथम पुष्कराञ्जके, वरपत हरख विशाल,
द्वेषहुताश बुझाइए, चिंता जाऊज टाल. १७
- किनके वश भगवासना, होवे वेड्याधृत,
मुनिभी जीनके वश भये, हावभाव अवधृत. १८
- ज्युं ल्युं भवकी वासना, जगे मोहनिदान,
त्यु ल्यु रचे न लोकहुं, निर्मल भाव प्रधान,
विषय ताप भगवासना, त्रिविध दोषको जोर,
प्रकृटे याकी प्रयत्ना, क्वाथ कपाइ घोर. २०
- तातें दुष्ट कपायके, छेदे हित निज चित्त,
धरो एह शुभ भावना, सहज भावमें मित्त. २१
- सिद्ध औषधि इक क्षमा, ताको करो प्रयोग,
ज्यु मिटि जाये मोहघर, विषम क्रोध ज्वर रोग. २२
- चेतनहुं कोमल ललित, चिदानदमय देह,
मूरु भूक जुर जात हे, क्रोध लूकतें तेह. २३
- क्षमा मार चंदन रमे, सिंचो चित्त पवित्र,
दया बेल मटप तले, रहो लहो मुख मित्त. २४
- याको भासे सम वधु, क्षमा सहजमें जोर,
क्रोधयोध क्युं करी करे, सो अपनो बल सोर. २५
- देत खेदवर्जित क्षमा, खेदरहित मुखराज,
इनमे नहि सदेह कलु, कारन सरिखो काज. २६
- पर्वत गर्भ शिखर चढ्यो, गुरुहुंभी लघु रूप,
कहे तहा अचरज किश्यो, कथन ज्ञान अनुरूप. २७

- आठ शिखर गिरिराजके, ठामे विमलालोक,
तो प्रकाशमुख क्युं लहे, विशम मान वश लोक. २८
- मानमहीधर छेड तुं, कर मृदुतापवि घात,
ज्यु मुख मारग सरलता, होवे चित्त विरयात. २९
- मृदुता कोमल कमलयें, वज्रसार अहकार,
छेडत हे एक पलकमें, अचरिज एह अपार. ३०
- विकसित माया बेलि घर, भव अट्टीके बीच,
सोवत हे नित मृढ नर, नयन ज्ञानके भीच. ३१
- कोमळता चाहि वरत, करत वक्र गति चार,
मायासापिणी जग ढसे, ग्रसे सकल गृण सार. ३२
- ताके निग्रह करनकुं, करो ज्युं चित्त विचार,
समरो रजुताजागुली, पाठसिद्ध निरधार. ३३
- लोभ महा तरु शिर चढी, बढी ज्युं तृष्णावेली,
खेदकुसुम विकसित भइ, फले दुःखस्तु मेली. ३४
- आगर सवही दोषको, गुनधनको बढ चोर,
व्यसनवेलिको कंद है, लोभपास चिंह ओर. ३५
- लोभमेघ उन्नत भये, पापपंक बहु होत,
वर्महस रति नहु लहे, चाहे न ज्ञानउद्योत. ३६
- कोड सयंभूरमनको, जे नर पावे पार,
सोभी लोभसमुद्रको, लहे न माय प्रचार. ३७
- मन सतोप अगस्तिकुं, ताके शोचनिमित्त,
नितु सेवो जीनि सो कियो, निज जल अंजलि मित्त. ३८
- याकि लालच तु फिरे, चिंते तु डमडोल,
ता लालच मिटि जात घट, प्रकटे मुख रंगरोल. ३९

- वन मानत गिरिमृत्तिका, फिरत मूढ दुर्ध्यान,
अखय खजानो ज्ञानको, लखे न सुखनिदान. ४०
- होत न विजय कपायको, त्रिनु इन्द्रिय वश कीन,
ताते इन्द्रिय वश करे, साधु सहज गुणलीन. ४१
- आप काज पर सुख हरे, वरे न कोसु भीति,
इन्द्रिय दुर्जन परि दहे, वहे न धर्म न नीति. ४२
- अथवा दुर्जनये बुरे, इहपरभवदुःखकार,
इन्द्रिय दुर्जन देतु हे, इहभरदु ख इक वार. ४३
- नयनफरस जनु तनु लमे, दहे दृष्टिविपसाप,
तिनमुभी पापी विपे, सुमरे कर संताप. ४४
- इच्छाचारी विषयमें, फीरते इन्द्रियग्राम,
वश कीजे पगमें धरी, यत्र ज्ञान परिणाम. ४५
- उन्मारगगामी अज्ञ, इन्द्रिय चपल तुरग,
खेची नरकअरण्यमें, लेइ जाय निज सग. ४६
- जे नजीक हे श्रमरहित, आपहीमें सुखराज,
बाधत है ताकु करन, आप अरथके काज ४७
- अतरग रिपु कटक भर, सेनानि बलवत,
इन्द्रिय क्षणमें हरत है, श्रतपल अतुल अनत. ४८
- अनियत चचल करण हय, पट प्रगाह रजपूर,
आशा छाटक करतु हें, तत्त्वदृष्टि बल दूर ४९
- पच वाण इन्द्रिय करी, काम मुभट जग नीति,
सत्रके शिर पद हतु हे, गणे न कोसुं भीति. ५०
- वीर पच इन्द्रिय लही, कामनृपति बलवत,
कर न सरया पूरणी, मुभट सेणिनी तत. ५१

- दुःख सप्रहि सुख विषयको, कर्म व्याधि प्रतिकार,
ताकुं मन्मथ सुर कहे, धूर्त जगत दुःखकार. ५२
- ठगे कामके सुख गिने, पाइ विषयकी भीख.
सद्वज राज पावत नहि, लगो न सद्गुरुशीख. ५३
- अप्रमाद पवि दंढ्यें, करी मोह चक्रचूर,
ज्ञानी आत्मपद लहे, चिदानंद भरपूर. ५४
- जाके राज विचारमें, अरुला एक प्रधान,
सो चाहत है ज्ञानभय, कैसे काम अयान. ५५
- और भ्रांति मिटि जात ह, प्रकटत ज्ञानउद्योत,
ज्ञानीकुं भि विषयभ्रम, दिशा मोह सम हांत. ५६
- दासे आप विलास करी, जूठेकुभि साच,
इद्रजाल परे कामिनी, तासुं तुं मत राच. ५७
- हसितफूल पद्मवअवर, कुचफल कठिन विगाल,
प्रिया देखी मत राच तुं, या विषयेलि रसाल. ५८
- चर्ममदित हे कामिनी, भाजन मृत पुरीख,
काम कीट आकुल सदा, परिहर मुनि गुरुशीख. ५९
- विषय तजे सो सप्र तजे, पातिक दोष वितान,
जलधि तरत नवि कयु तरें, तटिनी गग समान. ६०
- चाटे निज लालामिलित, -शुष्क हाड ज्यु श्वान,
तेसैं राचे विषयमें, जड निज रुचि अनुमान. ६१
- भूरान बहु पनावते, चढन चरचत देह,
धंचत आपही आपकु, जड वरी पुद्गलनेह. ६२
- दुर्दमनके जय कियें, इद्रिय जग सुख होत,
तार्त मन जय करनकु, करो सिचार उद्योत. ६३

- विषयग्रामकी सीममें, इच्छाचारी चरंत,
जिन आणा अंकुश धरी, मनगज बश करो सत. ६४
- एक भाव मनपौनको, जूठ कहे ग्रंथकार,
यात पवनहितें अधिक, होत चित्तको चार. ६५
- जामें राचे ताहिमें, विरचे करी चित्तचार,
इष्ट अनिष्ट न विषयको, सुं निश्चय निरधार. ६६
- केवलतामें कर्मको, रागद्वेष ते बध,
परमं निज अभिमान धरी, क्या फिरत हो अध. ६७
- जैसे ललना ललितमें, भाव धरतु हे सार,
तैसे मंत्रीप्रमुखम, चित्त धरी कर सुविचार ६८
- बाहिर बहुरि कहा फिरे, आपहिमें हित देख,
मृगवृष्णा सम विषयको, मुख सज जानि उवेख. ६९
- प्रिय अप्रिय व्यवहार निज, रुचिरस साचो नाहि,
अंगज बल्लभ सुत भयो, यूकादिक नहि काहि. ७०
- होवत मुख नृप रककु, नोवत सुनत समान,
इक भोगे इरु नाहि सो, बढयो चित्त अभिमान. ७१
- भवको मुख सकल्प भव, कृत्रिम जिसो कपूर,
रजत है जन मुगधकु, वर्जित ज्ञानअकूर. ७२
- गुन ममकार न वस्तुको, सो वासनानिमित्त,
माने सुतमें सुत अधिक, दौरत है हित चित्त. ७३
- मनकृत ममता जूठ है, नहीं वस्तुपरजाय,
नहि तो वस्तु विकार्यमें, बधु ममता मिटि जाय ? ७४
- जन जनकी रुचि भिन्न है, भोजन कर कपूर,
भोगवंतकु जो रुचे, करभ कर सो दूर. ७५

- करभ हसे नृपभोगकुं, हसे करभकुं भृप,
उदासीनता विनु नही, टोनुकु गति रूप. ७६
- परमे राचे पररुचि, निजरुचि निज गुणमाहि,
खेले प्रभु आनदघन, धरि समता गले वाहि. ७७
- मायामय जगको कद्यो, जहा सरहि विस्तार,
ज्ञानीकुं हावत कहा, तहा शोक्रको चार. ७८
- शोचत नहि अनित्यमति, होवत माल मलान,
भाडेभी शोचत भगे, धरत नित्य अभिपान. ७९
- कूट रासना मढित ह्य, आशा ततु वितान,
टेढे ताकुं शुभमति, कर वरी मोधकृपान. ८०
- जननी मोह अंधारकी, मायारजनी क्रूर,
ज्ञानभानु आलोकते, ताको कीजे दूर. ८१
- उदासीनता मगन हुड, अध्यातम रस कृप,
देखे नहि कट्टु और जव, तव देखे निज रूप. ८२
- आगे करी निःसंगता, समता सेवत जेहु,
रमे परभआनंदरस, सत्ययोगमें तेहु. ८३
- दंभही जनित असंगता, इहभयके सुख देत,
दभरहित निःसंगता, कोन दूर सुख देत. ८४
- मत हो संग निव्रत्तकुं, प्रेम परम गति पाड,
ताको समता रंग पुनि, किनही कद्यो न जाय. ८५
- तिसना विद्रुम बल्लिल घन, विषय घुमर बहु जोर,
भीम भयंकर खेद जल, भवसागर चिहं और. ८६
- चाहे ताको पार तो, सज कर समतानाड,
शीलअंग दृढ पाटीए, सहस अदार बनाड. ८७

- कूवा थभ शुभ योग परी, बैठे मालीम ज्ञान,
अभ्यातम सढ बले चले, समय पौन प्रमाण. ८८
- योगी जे बहु तप करे, साइ जुर तरुपात,
उदासीनता विनु भसम, हुतिमें सोभि जात. ८९
- छटे भवने जालयें, जीनहि तप करी लोक,
सोभी मोहे काहुकु, देत जनमको शोक. ९०
- विषयउपद्रव सय मिटयो, होवत सुख सतोष,
ताते विषयातीत है, देत शात रस पोख. ९१
- बिन लालच वश होत है, वगा वात यह साच,
याते करे निरीहर, आगे सम रति नाच. ९२
- दे परिमल समतालता, वचनअगोचर सार,
नित्य धीहीरीभी ज्या वसे, लहतु प्रेम महकार. ९३
- सेना राखस मोहकी, जीप सुखे प्रजुद्ध,
रहयानीक लेइके, समता अतर शुद्ध. ९४
- कवि सुख कल्पित अमृतक, रसम मृगत काही,
भजो एक समतासुधा, रति वरी शिवपदमाही. ९५
- योग ग्रथ जलनिधि मयो, करी मेरु मथान,
समताअभूत पादके, हो अनुभव रस जान. ९६
- उदासीनमति पुरुष जो, समतानिधि शुभ वेश,
छोरत ताकु क्रोधकी धु, आपे कर्म अशेष. ९७
- शुद्ध योग श्रद्धान धरी, नित्य करमको त्याग,
प्रथम कर जो मूढ सो, उभयभ्रष्ट निर्भाग. ९८
- क्रियामूढ जूठी क्रिया, करे न थापे ज्ञान,
क्रियाभ्रष्ट एक ज्ञानमति, उदे क्रिया अप्यान. ९९

ते दोनुंयें दूरि शिव, जे निज बल अनुसार, मार्गरुचि मारग गढे, सो शिवसाजनहार.	१००
निवृत्तिललनाकु सहज, अचरिजकारी कोड, जो नर याकु रुचत है, याकु देखे सोड.	१०१
मनपारद मूर्छित भयो, समताऔपयि आइ, सहज वैर रस परम गुन, सोजनसिद्धि रुमाड.	१०२
ग्रहृत ग्रथ नय देखिके, महा पुरप कृत सार, विजयसिंह मूरि कियो, समता शतको हार.	१०३
भावत जाकु तरु मन, हो समता रस लीन, ज्यु प्रगटे तुज सहज मुख, अनुभगम्य अहीन.	१०४
कवि यशविजय सुशीख ए, आप आपकु देत, शाम्यशतक उद्धार करी, हमविजय मुनि हत.	१०५

६ श्रीघिदानदजी कृत पुद्गलगीता.

सतो देखीयें वे, परगट पुद्गल जाल तमासा. पुद्गल खाणो पुद्गल पीणो, पुद्गल दृथी काया, वर्ण गध रस फरस सहु ए, पुद्गलदृकी माया.	स० १
खान पान पुद्गल बनावे, नहीं पुद्गल विण काय, पर्णादिक नही जीयमें वे, दीनो भेद बताय.	सं० २
पुद्गल काला नीला राता, पीला पुद्गल होय, धवला युत ए पचवरण गुण, पुद्गलहुंका जोय.	सं० ३
पुद्गलविण काला नहि वे, नील रक्त अरु पीत, श्वेत वर्ण पुद्गल पिना वे, चेतनमें नहि मीत.	स० ४

- सुरभिगंध दुरगंधता वे, पुद्गलहुंमे होय,
पुद्गलका परसंग विना ते, जीवमाहे नवि होय. स० ५
- पुद्गल तीखा कडवा पुद्गल, फुनि कसायल कहीयें,
खाटा मीठा पुद्गलकेरा, रस पाचुं सर्दहीयें. स० ६
- शीत उष्ण अरु काठा कोमल, हलुवा भारी सोय,
चिकणा रुखा आठ फरस ए, पुद्गलहुंमे होय. स० ७
- पुद्गलथी न्यारा सदा जे, जाण अफरसी जीव,
ताका अनुभव भेदज्ञानथी, गुरुगम करो सदीव. स० ८
- क्रोधी मानी मायी लोभी, पुद्गलरागें होय,
पुद्गलसग विना चेतन ए, शिवनायक नित जोय. स० ९
- नर नारी नपुंसक वेदी, पुद्गलके परसग,
जाण अवेदी सदा जीव ए, पुद्गल विना अभंग. स० १०
- बूढा बाला तरुण थया ते, पुद्गलका सग धार,
त्रिहु अवस्था नहीं जीवमें, पुद्गलसग निवार. स० ११
- जन्म जरा मरणादिक चेतन, नानाविध दु ख पावे,
पुद्गल सग निवारत तिण दिन, अजरामर होय जावे. सं० १२
- पुद्गलराग करी चेतनकु, होत कर्मको बध,
पुद्गलराग विसारत मनथी, नीरागी निर्बंध. स० १३
- मन वच काय जोग पुद्गलथी, निपजावे नितमेव,
पुद्गलसग विना अयोगी, थाय लही निज मेव. स० १४
- पुद्गलर्षिद्वयकी निपजावे, भला भयकर रूप,
पुद्गलका परिहार कियायी, होव आप अरूप. सं० १५
- पुद्गलरागी थइ धरत निज, देहगेद्वयी नेह,
पुद्गलरागभाव तज दिलथी, छिनमें होत विदेह. स० १६

- पुद्गल पिंड लोलुपी नेतन, जगमं राक कहाये,
पुद्गलनेह निवार पल्लकर्म, जगपति पिरद घराये. सं० १७
- पुद्गल मोह प्रसगे चेतन, चाह गतिमें भटके,
पुद्गलनेह तजी शिव जाता, समयमान नदीं अटके. सं० १८
- पुद्गल रस रागी जग भटकत, काल अनत गमायो,
काची टोय प्रदीमें निज गुण, राग बजी प्रगटायो. सं० १९
- पुद्गलरागें वार अनती, तान मात मुष थड्या,
किसका नेटा किसका बाया, भेट साच जंघ लहीया. सं० २०
- पुद्गलसग नाटक उहु नटयत, करता पार न पायो,
भयस्थिति परिपवर थड तय, सहेजं मारग आयो. सं० २१
- पुद्गलरागें देहादिक निज, मान मिथ्याति सोय,
देहगेहनो नेह तजीने, मम्यगुदृष्टि होय. सं० २२
- काल अनत निगोदधाममे, पुद्गलरामे रहियो
दःख अनत नरकादिकथी तु, अधिक उहुविध सहियो. सं० २३
- पाय अकामनिर्नराको उल, किंचित उंचो आयो.
वाटरमा पुद्गल रस वदायी, काल असख गमायो. सं० २४
- लही क्षयोपशम मनिगानको, पंचेद्रिय जय लारी,
विषयामक्त राग पुद्गलथी, राग नरकगति माथी. सं० २५
- नाटन मारन नेटन भेटन, उटन बहुविध पाड,
नेनाटना आदि टडने, ने.भेट टरमाट. सं० २६
- पुद्गलरागें नरकउटना, राग अनती घेन्ती,
पुण्ययोगे नरभय रागें, अग्रभ युगलगति भेट्ती. सं० २७
- प्रति दुर्लभ देवनहु नरभय, श्रीजिनदेव रग्याणे,
श्रवण गुणी ते वचनमुशारम, प्राग तेम नवि आणे. सं० २८

- जडलक्षण परगट जे पुद्गल, तास मर्म नवि जाणे,
मदिरापान छत्रयो जिम मत्रप, स्व पर नवि पीछाणे. सं० ५३
- जीव अरुपी रुप वरत ते, परपरिणतिपरसग,
वन्नरत्नमा ढक्योग जिम, दर्शित नानारग. सं० ५४
- निज गुण त्याग राग परधी थिर, गहत अशुभदलथोर,
शुद्ध रुधिर तज गटो लोही-पान करत जिम जोर. सं० ५५
- जड पुद्गल चेतनकु जगमें, नाना नाच नचाणे,
छाली खात वायकु यारो, ए अचरिज मन आणे. सं० ५६
- ज्ञान अनत जीवनो निज गुण, ते पुद्गल आपरिया,
जे अनत शक्तिनो नायक, ते टण कायर करियो सं० ५७
- चेतनकु पुद्गल ये निशदिन, नानाविध दुःख घाले,
पण पिंजरगत नाहरनी पर, जोर कष्ट नवि चाले सं० ५८
- इतने परभी जो चेतनकु, पुद्गलसग मोहान,
रोगी नर जिम रुपथ करीने, मनमा हर्षित धार. सं० ५९
- जात्यपात्य कुल न्यात न जाकु, नाम गाम नवि कोट,
पुद्गलसगत नाम वरावत, निज गुण सघलो खोट. सं० ६०
- पुद्गलके वस हायत चालत, पुद्गलक वस बोले,
कहूक वेठा टक टक जूण, कहूक नयण न खोले. सं० ६१
- मनगमना कहू भोग भोगत, सुरमन्यामे सोणे,
कहूक मूरया तरम्या वाहर, पड्या गलीम रोणे सं० ६२
- पुद्गलके वग एनेद्रिज उहु, पचेन्द्रिपणु पाणे
लेश्यावत जीव ए जगमें, पुद्गलमग कहाणे सं० ६३
- चट्टे गुणधानक मारगणा, पुद्गलसगे जाणो,
पुद्गलभाव विना चेतनमें, भेदभाव नवि आणो. सं० ६४

- पाणीमांढ गले जे वस्तु, जले अग्निसंयोग,
पुद्गलपिंड जाण ते चेतन, त्याग हरख अरु सोग. सं० ६५
- छाया आकृति तेज शुति सहु, पुद्गलकी परजाय,
सडन पडन विध्वंस वर्म ए, पुद्गलको कहेवाय. सं० ६६
- मल्या पिंड जेहने वये वे, काले विखरी जाय,
चरम नयण करी देखीये ते, सहु पुद्गल कहेवाय. सं० ६७
- चौदे राजलोक घृतपट जिम, पुद्गलद्रव्ये भरिया,
सध देश परदेश भेद तस, परमाणु जिन करिया. सं० ६८
- नित्य अनित्यादिक जे अंतर, पक्ष समान विशेष,
स्याद्वाद्द समजणनी शैली, जिनगणीमें देख. सं० ६९
- पृष्ण गलन धर्मथी पुद्गल, नाम जिणद् वखाणे,
काल विण परजाय अनती, चार ज्ञान नथि जाणे. सं० ७०
- शुभथी अशुभ अशुभथी जे शुभ, मूल स्वभावे थाय,
धर्म पालटण पुद्गलनो डम, सद्गुरु टीयो वताय. सं० ७१
- अष्ट वर्गणा पुद्गलकेरी, पामी तास संयोग,
भयो जीवहु एम अनादि, वधनरूपी रोग. सं० ७२
- गहन वरगणा शुभ पुद्गलकी, शुभ परिणामे जीव,
अशुभ अशुभ परिणामयोगथी, जाणो एम सटीव. सं० ७३
- शुभ सयोगे पुण्य सचवे, अशुभ योगथी पाप,
लहत विशुद्धभाय जय चेतन, समजे आपोआप. सं० ७४
- तीन सुवनमें देखीये सहु, पुद्गलका चिन्हार,
पुद्गल विण कोउ सिद्धरपमें, द्रसत नहि थिकार. सं० ७५
- पुद्गलहुं महेल मालीये, पुद्गलहुंसी सेज
पुद्गलपिंड नारको तेथी, मुख विलसत धरी हेज. सं० ७६

- पुद्गलपिंड धारके चेतन, भूपति नाम धराये,
पुद्गलवलथी पुद्गल उपर, अहनिश हुकुम चलाये. स० ७७
- पुद्गलहुक वस्त्र आभूषण, तैथी भूपित काया,
पुद्गलहुका चामर छत्र, सिंहासन अजब बनाया. स० ७८
- पुद्गलहुका किला कोट अरु, पुद्गलहुकी रसाइ,
पुद्गलहुका दार गोला, रच पच तोप बनाइ. स० ७९
- परपुद्गलरागी थड चेतन, करत महा सग्राम,
छल बल कल करी एम चितने, रासु अपणु नाम. स० ८०
- रुद्धि सिद्धि बके गड तोडी, जोडी अगम अपार,
पण ते पुद्गल द्रव्य स्वभाव, विणसत लगे न वार. स० ८१
- पुद्गलके सयोग वियोगे, हरख शोक चित्त धारे,
अधिर वस्तु थिर होइ कहो किम, इणि विध नहींय विचार. ८२
- जा तनकी मन गर्व उरत है, छिन छिन रूप निहार,
ते तो पुद्गलपिंड पलकमें, जल बल होउ डार. स० ८३
- इण विध ज्ञान हीयेमें मारी, गर्व न कीजे मित्त,
अधिर स्वभाव जाण पुद्गलको, तजो अनाटि रीत स० ८४
- परमात्मथी मोह निरंतर, लावो त्रिपरण शुद्ध,
पावो गुणम ज्ञान सुधारस, प्रखपर अत्रिद्ध. स० ८५
- ज्ञान भानु पूरण ऋत अतर, यथा जिहा परगास,
मोहनिसाचर तास तेज लख, नाठा थड उदास. स० ८६
- भेदज्ञान अतरदृग मारी, परिहर पुद्गलजाल,
खीरनीरकी भिन्नता जिम, छिनमें करत मराल स० ८७
- एहवा भेद लखी पुद्गलका, मन सतोप धरीजे,
हाण लाभ सुख दु ख अवसरमें, हर्ष शोक नवि कीजे. स० ८८

- जो उपजे सो तुं नहि अरु, विणसे सो तुं नाहि,
 तुं तो अचल अरुल अविनाशि, समज देख टिलमांहि. सं० ८९
- तन मन वचन पणे जे पुद्गल, वार अनंती वारया
 बम्या आहार अज्ञान गहलथी, फिर फिर लागत प्यारा. सं० ९०
- धन्य धन्य जगमें ते प्राणी, जे नित रहत उदास,
 शुद्ध विवेक हियेमें भारी, करे न परकी आस. सं० ९१
- धन्य धन्य जगमां ते प्राणी, जे घट समता आणे,
 वादविवाद हीये नवि नारे, परमारथपथ जाणे सं० ९२
- धन्य धन्य जगमां ते प्राणी, जे गुरुवचन विचारे,
 अष्ट दयाना मर्म लहीने, आवमकाज सुधारे. सं० ९३
- धन्य धन्य जगमा ते प्राणी, जेह प्रतिज्ञा धारे,
 प्राण जाय पण धर्म न मूके, शुद्ध वचन अनुसारे. सं० ९४
- इम विवेक हिरिदेमें धारी, स्वपरभाव विचारो,
 काया जीव ज्ञानदृग् देखत, अहिकंचुकी जिम न्यारो. सं० ९५
- गर्भादिकदुःख वार अनंती, पुद्गलसगे पाये,
 पुद्गलसग निवार पलकमें, अजरामर कहवाये. सं० ९६
- रागभाव धारत पुद्गलथी, जे अविवेकी जीव,
 पाय विवेक राग तजी चेतन, वधण विगत सटीव. सं० ९७
- रुर्मयवना हेतु जीवकु, रागद्वेष जिन भाखे,
 तजी राग अरु रोप हियेधी, अनुभवरस कोउ चाखे. सं० ९८
- पुद्गल सग विना चेतनमें, कर्मकलक न कोय,
 जिम वायुसंयोग विना जल,—माही तरग न होय. सं० ९९
- जीव अजीव तत्र त्रिभुवनमें, युगल जिनेश्वर भाखे,
 अपर तत्र जे सप्त रहे ते, सयोगिक जिन दाखे. सं० १००

गुण पर्याय द्रव्य टोडके, जुए जुए दरसाये, ए समजण जिणक हिये उतरी, ते तो निज घर आये. स० १०१	
भेद पचशत अधिक तिरेशठ, जीततणा जे कहीये, ते पुद्गलसयोग्यकी सहु, व्यवहार सरदहीये. स० १००	
निहचेनय चिद्रूपद्रव्यमें, भेदभाव नहि कोय, बव अवयवकृता नयपरखथी, इण विव जाणो द्योय. स० १०३	
भेद पचशत त्रीश अधिक, स्पी पुद्गलके जाणो, त्रीश अरपी द्रव्यवणे जिन-आगमथी मन आणा. स० १०१	
पुद्गलभेदभाव इम जाणी, परपखराग निवारो, शुद्ध रमणता रूप बोव, अतर्गत सदा विचारा स० १०५	
रूप रूप रूपातर जाणी, आणी अतुल विवेक, तद्गत लेश लीनता वार, सो ज्ञाता अतिरेक. स० १०६	
धार लीनता लवलव लाइ, चपलभाव विसराइ, आवागमन नही जिण धानक, रहिये तिहा समाइ. स० १०७	
वालख्याल रचियो ए अनुपम, अल्पमति अनुसार, वालजीवकु अति उपगारी, चिदानद सुखमार. स० १०८	

॥ इति पुद्गलगीता नपूर्णा ॥

७. अध्यात्म-गीता

प्रणमीए विश्वहित^१ जेनपाणी,
महानंदतरु सिंचवा अमृतपाणी,
महा मोहपुर भेदवा वज्रपाणि^२,
गहन भयफंद छेदन कृपाणि^३. १

द्रव्य अनंत प्रकाशक भासक तत्त्वस्वरूप,
आत्मतत्त्वप्रियो यक सत् चिद रूप,
नय निक्षेप प्रभाणे जाणे वस्तु समस्त,
त्रिकरणजोगे प्रणमु जैनागम सुप्रशस्त.^४ २

जेणे आत्मा शुद्धताए पिठाण्यो,
तेणे लोक अलोकनो भाव जाण्यो,
आत्मा रमणी मुनि जगविदिता,
उपदिशी तेणे अध्यात्म-गीता. ३

द्रव्य सर्वना भावनो जाणग पासग एह,
ज्ञाता कर्त्ता भोक्ता रमता परिणति गेह,
ग्राहक रक्षक व्यापक धारक धर्मसमूह,
दान लाभ भोग उपभोग तणो जे व्यूह. ४

संग्रहे एक आया रखाण्यो, नेगमे अंशथी जे प्रमाण्यो,
दुविध व्यवहार नय वस्तु वर्धचे, अशुद्ध वळी शुद्ध भासन प्रपचे. ५

अशुद्धपणे पणसय तेसट्टी^१ भेत् प्रमाण,
उदयविभेदे द्रव्यना भेद अनत कदाण,
शुद्धपणे नेतनता प्रगटे जीव विभिन्न,
क्षायोपशमिक असरय क्षायरु एक अनुन्न^२. ६

नामथी जीव चेतन प्रजुद्ध, क्षेत्रथी असरय देशी विशुद्ध,
द्रव्यथी स्व गुण पर्याय पिड, नित्य एकरु महज अखड. ७

उज्जुसुए^३ विकल्पपरिणामे^४ जीवस्वभाय,
वर्तमान परिणत मय व्यक्त ग्राहकभाय,
शब्दनये निज सत्ता जोतो इहतो^५ यर्म,
शुद्ध अरूपी चेतन अणग्रहतो नय^६ कर्म. ८

इणी परे शुद्ध सिद्धात्मरूपी, मुक्त परशक्ति व्यक्त अरूपी,
समकिती देशयति सर्वविरति, धर साभ्यरूप सदा तत्त्वमीति. ९

समभिरुठ नये निरावरणी ज्ञानादिकगुण मुरय,
क्षायरु अनत चतुष्टयी^७ भोगी सुग्व अलक्षय,
एवभूति निर्मळ सकळ स्वधर्मप्रकास,
पूरण पर्याय प्रगटे पूरण शक्तिविलास. १०

एम नय भग सगे सनूरो, साधना सिद्धता रुप पूरो,
साधकभाव त्या लगे अत्रो, साभ्य सिद्धे नहि हेतु मूरो. ११

काळ अनादि अतीत अनते जे पररक्त,
संगागीपरिणामे वर्त्ते मोहासक्त,

१ पाचसो अने वेसठ २ मपूण ३ रुजुसुत्रनये ४ अनु
सारे ५ अभिलपतो, इच्छतो ६ नया ७ अनतज्ञान दर्शन,
चारित्र्य अने धीर्य

पुद्गलभोगे धारे पुद्गलखंड्य,
पर कर्त्ता परिणामे वांघे कर्मनो वध. १०

वंधक वीर्यकरणे उद्वीरे, विपाकीप्रकृति भोगने ढळ विखेरे,
कर्म उदयागता स्वगुण रोके^१, गुण विना जीव भवोभने ढोके^२ १३

आत्मगुणआवरणे न ग्रहे आत्मधर्म,
ग्राहक शक्ति प्रयोगे जोडे पुद्गलधर्म^३,
परलोभे परभोगने योगे थाये पर कीरतार,
ए अनादि प्रवर्त्ते वाये पर विस्तार. १४

एम उपयोग वीर्यादि लब्धि, परभावरगी करे कर्मवृद्धि,
परदयादिक यदा मुह विहल्पे, तदा पुण्यकर्मतणो न न कल्पे. १५

तेहज हिंसादिक द्रव्याश्रय करतो चचळ चित्त,
कडुविपाके चैतन मेळे^४ कर्म पिचित्त^५,
आत्मगुणने हणतो हिंसरुभाये थाय,
आत्मधर्म^६नो रक्षरु भावअहिंस कहाय. १६

आत्मगुणरक्षणा तेह धर्म, स्वगुणवि वसणा ते अधर्म,
भाव अध्यात्म प्रवृत्ति, तेहथी होय संसारठित्ति^७. १७

एह प्रयोपनो कारण तारण सद्गुरुसंग,
श्रतउपयोगी चरणानदी करी गुरुसंग,
आत्मतत्त्वालवी रमता आत्मराम,
शुद्ध स्वरूपने भोगे योगे जमु^८ विसराम. १८

सद्गुरुयोगधी प्रहृला जीव, कोइ वळी सहजवी थद् सजीव,
आत्मशक्ति करी गठी भेडी, भेडवानी थयो आत्मवेदी. १९

१ अटकावे २ रलडे ३ टण ४ एज्ज करे, मचे ५
पिचिय ६ ज्ञानादिक आत्मगुण ७ छद ८ जेने ९ मोहमयि
रागद्वेषनी गाठ

द्रव्य गुण पर्याय अनतनी थट परतीत,
जाण्यो आतम कर्त्ता भोक्ता गद पर भीत,
श्रद्धायोगे उपन्यो भासन मुनये सत्य,
साध्यालनी चेतना वळगी आतमतत्त्व.

इद्र चंद्रादि पदवी रोग जाण्यो, शुद्ध निज शुद्धता धन पिछाण्यो,
आन्मधन अन्य आपे न चोरे, कोण जग टीन वळी कोण जोरे ?

आतम सर्व समान निधान महा मुखकंद,
सिद्धतणा साधर्मी सत्ताए गुणवृन्द,
जेह स्वजाति तेहथी कोण करे वध वध,
प्रगटयो भाव अहिंसक जाणे शुद्ध प्रवध. २२

ज्ञाननी तोङ्गता चरण तेह, ज्ञान एकत्वता ध्यान गेह,
आत्मतादात्म्यता^१ पूर्ण भावे, तदा निर्मळानंद सपूर्ण पावे. २३

चेतन अस्ति स्वभावमा जेहने भासे भाव,
तेहथी भिन्न अरोचक रोचक आत्मस्वभाव,
समकितभावे भावे आतमशक्ति अनत,
कर्मनाशनो चिंतन नाणे चिंते ते मतिमद. २४

स्वगुण चिंतन रसे बुद्धि घाले, आत्मसत्ता भणी जे निहाळे,
शुद्ध स्याद्वादपद जे सभाळे,^२पर घर^३तेह मति केम वाळे ? २५

पुन्य पाप वे पुद्गळ्ळपासे पर भाव,
पर भावे पर सगत पामे दुष्ट विभाव,
ते माटे निजभोगी योगीसर सुप्रसन्न,
देव नरक तृण मणि सम^४ भासे जेहने मन्न. २६

१ तमयता अभेदता एकता २ वरावर काळजीयी (घोत रागनी आशाने) पाळे ३ नकामी वस्तुमा ४ न्युमाधिकता रक्षित

तेह समतारस तत्र साये,
निश्चलानड अनुभव आराये,
तीत्र मनघाति^१ निज कर्म तोडे,
संवि^२ पडिलेहिने^३ ते विछोडे. २७

सम्यग् रत्नत्रयी रस साचो चेतनराय,
ज्ञानक्रिया चरे चक्रचूरे सर्व अपाय^४,
कारक^५ चक्रस्वभावे साये पूरण सा य,
कर्त्ता कारण कारज एक थया निरबाध. २८

स्वगुणआयुवयकी कर्म चूरे,
असख्यात गुण निर्जरा तेह पूरे,
टळे आवरणथी गुणप्रकासे,
साधनाशक्ति तेम तेम प्रकासे. २९

प्रगटयो आत्मधर्म थया सवि साधन रीत,
बाधकभावग्रहणता भागी जागी नीत,
उदय उदीरण ते पण पूरण निर्जराकाज,
अनभिसंधी बाधकता नीरसता^६ आत्मराज. ३०

देशपति जय थयो नित्यरंगी,
तदा कोण थाय कुनय चाल सगी ?
यदा आतमा आत्मभावे रमाव्यो,
तदा बाधकभाव दूरे गमाव्यो. ३१

१ ज्ञानाधरणी, दशनाधरणी, मोहनी अने अतराय कर्म
२ त्याग ३ जोडने ४ घिघ्र ५ कर्त्ता कर्म, करण संप्रदान अ-
पादान अने अधिकरणरूप पद ६ अनाडवयोगे धंधाता कमनी
ओटाश

सहज क्षमा गुण शक्तिथी उद्यो क्रोधसुभट,
 मार्दव^१ भाव प्रभावथी भेद्यो मानमरट्ट,
 माया आर्जव^२ योग लोभे ते निःस्पृहभाव,
 मोह महाभट^३ भ्रसे ध्वंसयो^४ सर्व विभाय. ३२

एम स्वाभाविक थयो आत्मवीर, भोगवे आत्मसपदा सुधीर,
 जे उदयागता प्रकृति यळगी, अव्यापक थयो खेरवे तेह अळगी. ३३

वर्मभ्यान एक तानमे ध्यावे अरिहा सिद्ध,
 ते परिणतिथी प्रगटी ताच्चिक्क सहज समृद्ध^५,
 स्व स्वरूप एस्त्व तन्मय गुण पर्याय,
 भ्याने ध्याता निरमोहीने विमलप जाय. ३४

यदा निविकल्पी थयो शुद्ध ब्रह्म, तदा अनुभवे शुद्ध आनदशर्म,
 भेद स्तनत्रयी तीक्ष्णताए, अभेद स्तनत्रयीमें समाए. ३५

दर्शन ज्ञान चरण गुण सम्यग् एक एकना हतु,
 स्व स्व हतु थया समकाले तेह अभेद भाषेतु,
 पूर्ण स्वजाति समाधि प्रनघाति दल छिन्न,
 क्षायिकुभावे प्रगटे आतमवर्म विभिन्न. ३६

पडी योग^६ रूंधी थयो ते अयोगी-भाव शैलेशोताए^७ अभगी,
 पंच लघुअक्षर कार्यकारी, भनोपही^८ कर्मसतति विडारी. ३७

समश्रेणे एक समये पहोल्या जे लोकात,
 अफुसमाण गति निर्मळ चेतनभाव महात,
 चरम निभाग विहीन^९ प्रमाणे जमु अवगाह,

१ नम्रता, लघुता-धियाय २ मरलता ३ सुभट-धीर ४
 विनाश्यो ५ समृद्धि-आगंतु धन ६ मत्, ध्यान अने माया
 ७ मेरुपर्वतनी जेथो निमलता शैलेशोतरण ८ अघाति ९
 अस्पर्शमान १० ३

आतम भेद अरुप अखंडानंदावाह. ३८

जिहा एक सिद्धात्म तिहां ठे अनता,

अवन्ना अगगा नहि फासमता^१,

आतमगुण पूर्णतावत संता,

निरानाथ अत्यंत सुखास्वादवंता. ३९

कर्त्ता कारण कारज निज पारिणामिकभाव,

ज्ञाता ज्ञायक भोग्य योग्यता शुद्ध स्वभाव,

ग्राहक रक्षक व्यापक तन्मयताए लीन,

पूरण आतमधर्म प्रकासरसे लयलीन. ४०

द्रव्यथी जीव चेतन अलेशी, क्षेत्रथी जे असंख्य प्रदेशी,
उत्पाद वळी नास ध्रुव काल्परम, शुद्ध उपयोग गुण भावशर्म. ४१

स्याद्वाट आतम सत्ता रुचि समकित तेह,

आतमधर्मनो भासन निर्मळ ज्ञानी जेह,

आतम रमणी ध्यानी आतमलीन,

आतमधर्म रमो तेणे^२ भव्य सदा सुखपीन.^३ ४२

अहो भव्यतमे ओळखो जैन धर्म, जेणे पामीए शुद्ध अभ्यात्ममर्म,

अल्पकाले टळे दुष्ट कर्म, पामीए सोय आनंदशर्म. ४३

नय निक्षेप प्रमाणे जाणे जीवाजीव,

स्वपर विवेचन करता थाये लाभ सदैव,

निश्चय ने व्यवहारे विचरे जे मुनिराज,

भवसागरना तारण निर्भय तेह जहाज. ४४

वस्तुतत्त्वे रम्या ते निग्रथ, तत्त्वअभ्यास तिहा साधुपथ,

१ घर्णे गध अने स्पर्शरहित, अरुपी शुद्ध सहज स्वरूपी

२ ते माटे ३ पुष्ट

तिणे गीतार्थचरणे रहीजे, शुद्ध सिद्धातरस तो लहीजे. ४५

श्रुतअभ्यासी चोमासी वासी लीमढीठाम,
शासनरागी सोभागी श्रायऊना बहु वाम,
खरतर गच्छ पाठऊ श्री दीपचद्र मुपसाय,
देवचद्र निज हरखे गायो आत्मराय. ४६

आत्मरमण करवा अभ्यासे, शुद्धसत्तारसीने उज्जासे,
देवचद्रे रची आत्मगीता, आत्मरमणी मुनि सुप्रतीता.^१ ४७

इति अध्यात्मगीता

८ अथ श्री सीमधर स्वामिनु सवासो गाथानु स्तवन

ढाळ पहेली

एक दिन दासी दाडती—ए देशी

स्वामी सीमधर विनति, साभळो माहरी देवरे,
ताहरी आण हु शिर वर, आदरु ताहरी सेवरे—

स्वामी सीमधर विनति. ?

कुगुरुनी वासनापासमा, हरिण परे जे पढया लोकरे,
तेहने शरण तुज विण नहीं, टळवळे वापडा फोकरे. स्वा० २
ज्ञान दर्शन चरण गुण विना, जे करावे कुळाचारर,
छट्टे तेणे जन देखता, किहा करे लोक पोकाररे ? स्वा० ३

जेठ नवि भव तर्या निरगुणी, तारसो केणी पेरे तेहरे ?
 एम अनाण्या पडे फंदमां, पापवंचे रक्षा जेहरे. स्वा० ४
 कामकुंभादिक अधिकनुं, वर्मनुं को नवि मूलरे,
 दोकडे कुगुरु ते दाखवे, शं थयु एह जग शूलरे ? स्वा० ५
 अर्थनी देशना जे तीण, ओळवे धर्मना ग्रथरे,
 परम पढनी मगट चोरथी, तेहथी केम वहे पंधरे ? स्वा० ६
 यिपयरसमां गृही माचिया, नाचिया कुगुरु मदपूररे,
 धूमधामे वमाधम चली, ज्ञानमारग रवो दूररे. स्वा० ७
 कलहकारी रुढाग्रहभर्या, थापता आपणा बोलरे,
 जिनवचन अन्यथा दाखवे, आज तो वाजते ढोलरे. स्वा० ८
 केड निज दोपने गोपवा, रोपवा केड मतकंडरे,
 र्मनी देशना पालटे, सत्य भाषे नहीं मडरे. स्वा० ९
 उहु मुखे गोल एम साभळी, नवि धरे लोक विश्वासरे,
 हुंदता वर्मने ते थया, भमर जेम कमळनिवामरे. स्वा० १०

ढाल वीजी.

राग गोडी भोलीडा हसारे यिपय न राचीप—प देखी
 एम हुदतार र्म सोहामणो, मिलिओ सदगुरु एक,
 तेहने साचोरे मारग दाखव्यो, आणी हृदय विवेक.

श्री सीमर साहेब साभळो. ११

पर घर जोतारं धर्म तुमे फरो, निज घर न लहोरं वर्म,
 जेम नवि जाणरे मृग कस्तूरिओ, मृगमट परिमल मर्म. श्री० १२

- जेम ते भूलोरे मृग दश दिशि फर, लेवा मृगमदगध,
तेम जग हुढेरे वाहिर धर्मने, मिथ्यादृष्टि रे अध. श्री० १३
- जातिअंधनोर दोष न आकरो, जे नत्रि देखेर अर्थ,
मिथ्यादृष्टिरे तेहथी आकरो, माने अर्थ अनर्थ श्री० १४
- आप प्रशसेरे परगुण ओळ्ळे, न वरे गुणनोर लेश,
ते जिनवाणीरे नवि श्रवणे सुणे, दिए मिथ्या उपदेश. श्री० १५
- ज्ञानप्रकाशेर मोहतिमिर हर, जेहने सदगुरुसूर,
ते निज देखेरे सत्ता धर्मनी, चिदानदभरपूर. श्री० १६
- जेम निर्मळतारे रतन स्फटिकतणी, तेम जे जोवस्वभाव,
ते जिन वीररं धर्म प्रकाशीयो, प्रबळ कपाय अभाव. श्री० १७
- जेम ते रातेरे फूले रातडु, श्याम फूलधीरे श्याम,
पापपुण्यधीर तेम जग जीवने, राग द्वेष परिणाम. श्री० १८
- धर्म न कहिणरे निश्चे तेहने, जेह विभाव वड व्याधि,
पहेले अंगेर एणी पेर भाखियु, कसमे होए उपाधि. श्री० १९
- जे जे अशेरे निरुपाधिकपणु, ते ते जाणोर धर्म,
सम्यग्दृष्टिरे गुणठाणाधकी, जाव लहे शिवशर्म. श्री० २०
- एम जाणीनेरे ज्ञानदशा भजी, रहीए आपस्वरूप,
पर परिणतिधीरे धर्म न छाडीए नवि पढीए भवकूप. श्री० २१

ढाल त्रीजी

हवे राणी पद्मावती-ए देशी

जिहा लगे आतमद्रव्यनु, लक्षण नवि जाण्यु,
तिहा लगे गुणठाणुं भळु, केम आवे ताण्यु ?
आतमतत्त्व विचारीए

आतमअज्ञाने करी, जे भवदुःख लहीए, आतमज्ञाने ते टळे, एम मन सदहीए-आतम०	२३
ज्ञानदशा जे आकरी, तेह चरण विचारो, निर्विकल्प उपयोगमां, नहीं कर्मनो चारो-आतम०	२४
भगवद्-अंगे भाखिओ, सामायिक अर्थ, सामायिक पण आतमा, धरो सूधो अर्थ-आतम०	२५
लोकसार अध्ययनमा, समकित मुनिभावे, मुनिभायज समकित कहं, निज शुद्ध स्वभावे-आ०	२६
कष्ट करो संजम वरो, गाळो निज देह, ज्ञानदशा विण जीवने, नहीं दुःखनो ठेह आ०	२७
वाहिर यतना वापडा, करता दूहवाए, अंतर यतना ज्ञाननी, नवि तेणे थाए-आ०	२८
राग द्वेष मळ गाळवा, उपशमजळ शीलो, आतमपरिणति आदरी, पर परिणति पीलो-आ०	२९
हुं एहनो ए माहरो, ए हुं इण बुद्धि, चेतन जडता अनुभवे, न विमासो शुद्धि-आ०	३०
वाहिरदृष्टि देखता, वाहिर मन पावे; अंतरदृष्टि देखता, अक्षय पद पावे-आतम०	३१
चरण होय लज्जाटिके, नवि मनने भंगे, श्रीजे अ चयने कहं, एम पहेले अगे-आतम०	३२
अभ्यातम विण जे क्रिया, ते तनुमल तोले, ममकाराटिक योगधी, एम ज्ञानी बोले-आतम०	३३
हु करता परभावनो, एम जेम जेम जाणे, तेम तेम अज्ञानी पडे, निज कर्मने घाणे-आतम०	३४

पुद्गलकर्मादिकतणो, करता व्यवहारे,	
करता चेतनकरमनो, निश्चय सुविचारे—आतम०	३५
कर्त्ता शुद्ध स्वभावनो, नय शुद्धे कहीए,	
कर्त्ता पर परिणामनो, बेउ किरिया ग्रहीए—आतम०	३६

ढाल चोथी

धीरमति श्रोतिकारणी—ए देशो

शिष्य कहे जो परभावनो, अकर्त्ता कह्यो प्राणी,	
दानहरणादिक केम घटे, कहे सदगुरु वाणी—	
शुद्ध नय अर्थ मन धारीए.	३७
धर्म नवि दिए नवा सुख दिए, परजतुने देतो,	
आप सत्ता रहे आपमा, एम हृदयमा चेतो—शु०	३८
जोगविशे जे पुद्गल ग्रह्या, नवि जीवना तेह,	
तेहथी जीव ठे जूजुओ, वली जूजुओ देह—शु०	३९
भक्त पानादि पुद्गल प्रते, न दिए छति विना पोते,	
दानहरणादि पर जतुने, एम नवि घटे जोते—शु०	४०
दान हरणादिक अरसरं, शुभ अशुभ सकल्पे,	
दिए हरे तुं निज रुपने, मुखे अन्यया जल्प—शु०	४१
अन्यथा वचनअभिमानथी, फरी कर्म तु वाधे,	
ज्ञायकभाव जे एकलो, ग्रहे ते सुख साधे—शु०	४२
शुभ अशुभ वस्तु सकल्पथी, वर जे नटमाया,	
तेटलु सहज मुख अनुभवे, प्रभु आतमराया—शु०	४३
परतणी आस विपयेलडी, फळे कर्म बहु भाति,	
ज्ञानद्रहने करी ते दहे, होए एक जे जाति—शु०	४४

- राग दोष रहित एक जे, दया शुद्ध ते पाळे,
 प्रथ अगे एम भाखियु, निज शक्ति अजुआले—शु० ४५
- एकता ज्ञान निश्चय दया, सुगुरु तेहने भाखे,
 जेह अविरूप उपयोगभां, निज प्राणने राखे—शु० ४६
- जेह राखे पर प्राणने, दया तास व्यवहारें,
 निजदया विण कहो परदया, होए कवण प्रकारे?—शु० ४७
- लोक विण जेम नगरमेढनी, जेम जीव विण काया,
 फोक तेम ज्ञान विण परदया, जिस्मी नटीतणी घाया—शु० ४८
- सर्व आचारमय प्रवचने, भण्यो अनुभवयोग,
 तेहथी मुनि वमे मोहने, वली अरति रति शोग—शु० ४९
- मून अक्षर परावर्तना, सरस शेलडी दाखी,
 तास रस अनुभव चाखीए, जिहां एक छे साखी—शु० ५०
- आत्मराम अनुभव भजो, तजो परतणी माया,
 एह छे सार जिनवचननो, वळी एह शिवछाया—शु० ५१

ढाळ पांचमी.

प्रभु चित्त धरीने अवधारो मुज वात—ए देशी

- एम निश्चय नय सांभळीजी, बोले एक अजाण,
 आढरथुं अमे ज्ञाननेजी, शुं कीजे पच्चखाण ? —
 सोभागी जिन सीमंधर सुणो वात. ५२
- किरिया उत्थापि करीजी, छाडी तेणे लाज,
 नवि जाणे ते उपजेजी, कारण विण नवि काज—सो ५३

- निश्चय नय अवलंभताजी, नवि जाणे तस मर्म,
छोडे जे-व्यवहारनेजी, लोपे ते जिनधर्म-सो० ५८
- निश्चयदृष्टि हृदय धरीजी, पाळे जे व्यवहार,
पुण्यरंत ते पामशेजी, भवसमुद्रनो पार-सो० ५९
- तुरग चढी जेम पामिएजी, वेगे पुरनो पथ,
मार्ग तेम शिवनो ल्हजी, व्यवहार निग्रथ-सो० ६०
- महेल चढता जेम नहींजी, तेह तुरगनु काज,
सकळ नहीं निश्चय लहेजी, तेम तनु किरिया साज-सो० ६१
- निश्चय नवि पामी शक्रेजी, पाळे नहि व्यवहार,
पुण्यरहित जे एहवाजी, तेहने कुण आधार-सो० ६२
- हेमपरीक्षा जेम हुएजी, सहत हुताशनताप,
ज्ञानदशा तेम परखीएजी, जिहा बहु किरियाव्याप-सो० ६३
- आलयन विण जेम पडेजी, पामी रिपमी वाट,
सुग्य पडे भवकूपमाजी, तेम विण किरिया घाट-सो० ६४
- चरित भणी बहु लोकमाजी, भग्तादिकना जेह,
लोपे शुभ व्यवहारनेजो, बोधि हूणे निज तेह-सो० ६५
- बहु टळ दीसे जीवनाजी, व्यवहार शिवयोग,
छींटी ताके पावरोजी, छोटी पथ अयोग-सो० ६६
- आवश्यकमाहे भाखियोजी, एहज अर्थविचार,
फळसशय पण जाणताजी, जाणीजे ससार-सो० ६७

ढाल छट्टी

मुनि मन सगोधर हसलो अथवा रूपभनो वश रयणायर
—प देशी

- अवर उस्यो नय साभळी, एक ग्रहे व्यवहारोरे,
मर्भ छिविय तस नवि लहे, शुद्ध अशुद्ध विचारोरे— ६४
- तुज विण गति नहीं जंतुने, तु जगजंतुनो दीवोरे,
जीवीए तुज अवलवने, तु साहेव चिरजीवोरे—तुज० ६५
- जेह न आगम वारियो, टीसे अशठ आचारोरे,
तेहज बुध बहु मानियो, शुद्ध कयो व्यवहारोरे—तुज० ६६
- जेहमां निज मतिकल्पना, जेहथी नवि भयपारोरे,
अंधपरपरा वाधियो, ते अशुद्ध आचारोरे—तुज० ६७
- शिथिलविहारीए आचरचा, आलंन जे कूडारे,
नियतवासादिक साधुने, ते नवि जाणीए रुडारे—तुज० ६८
- आज न चरण ठे आरुं, संहननादिकदोपरे,
एम निज अयगुण ओळवी, कुमतिरुटाग्रह पोपेरे—तुज० ६९
- उत्तरगुणमाहे हीणडा, गुरुकुलादिक पाखेरे,
मूळगुणे नहीं हीणडा, एम पंचाशक भाखेरे—तुज० ७०
- परिग्रह ग्रह वश लिंगीया, लेइ कुमतिरज माखेरे,
निज गुण पर अवगुण लवे, इद्रियटपभ नवि नाथेरे—तुज० ७१
- नाणरहित हित परिहरि, निज दंसणगुण लूसरे,
मुनिजनना गुण साभळी, तेह अनारज रुसेरे—तुज० ७२
- अणुसम दोष जे परतणो, मेहसमान ते बोलेरे,
जेहसु पापनी गोठही, तेहसुं हियडलु खोलेरे—तुज० ७३
- सूत्रविरुद्ध जे आचरे, थापे अविधिना चाळारे,
ते अति निविड मिथ्यामति, जोले उपदेशमाळारे—तुज० ७४

पामर जन पण नवि कहे, सहसा जूठ सशूकोर, जूठ कहे मुनिवेष जे, ते परमारथ चूकोरे—तुज०	७५
निर्दयहृदय छ कायमा, जे मुनिवेशे प्रवर्त्तरे, गृही यति धर्मधी चाहेरा ते निर्धनगति वर्त्तरे—तुज०	७६
साधुभगति जिनपूजना, दानादिक शुभ कर्मरे, श्रावक जन कथो अति भलो, नहि मुनिवेषे अधर्मर—तु०	७७
केवळ लिंगधारीतणो, जे व्यवहार अशुद्धोरे, आदरोए नवि सर्वथा, जाणी धर्मविरुद्धोरे—तुज०	७८

ढाळ सातमी

आगे पूरय थार नवाणु—प देशी

जे मुनिवेश शके नहि छडी, चरणकरण गुणहीणाजी, ते पण मारगमाहे दाख्या, मुनिगुणपसे लीणाजी, मृषावाद भवकारण जाणी, मारग शुद्ध प्रस्तेजी, वदे नवि व्दावे मुनिने, आप थह निज रूपजी.	७९
मुनि गुण रागे पुरा नूरा, जे जे जयणा पाळेजी, ते तेहधी शुभ भाव लहीने, कर्म आपणा टाळेजी, आपहीनता जे मुनि भाखे, मान साकडे लोकेजी, ए दुर्द्धर व्रत एहनु दारयु, जे नवि फुले फोकेजी.	८०
प्रथम साधु बीजो वर श्रावक, तीजो सवेगपाखीजी, ए त्रणे शिवमारग कहीए, जिहा छे प्रयचन साखीजी, शेष त्रण भवमारग कहीए, कुमत कदाग्रह भरियाजी, गृहि यति लिंग कुलिंगे लखीए, सकळ दोपना ढरियाजी	८१

जे व्यवहार सुगतिमारगमा, गुणठाणाने लेखेजी,
 अनुक्रमे गुणश्रेणिनु चढुं, तेहज जिनवर देखेजी,
 जे पण द्रव्यक्रिया प्रतिपाळे, ते पण सन्मुखभाषेजी,
 शुद्धबीजनी चंद्रकळा जेम, पूर्ण भावमा आवेजी. ८२

ते कारण लज्जादिकथी पण, शील बरे जे प्राणीजी,
 अन्य तेह कृतपुण्य कृतारथ, महानिशीथे वाणीजी,
 पण व्यवहारनये मन गारो, निश्चयनयमत दारयुजी,
 प्रथमअंगमा वितिगिन्त्राए, भावचरण नवि भाग्युंजी. ८३

ढाल आठमी

घोषाडनी देशी ठे

अस एक भारे आचार, दया मान शुद्धज व्यवहार,
 जे बोले तेहज उत्थापे, शुद्ध करु हु मुख इम जपे. ८४

जिनपूजादिक शुभ व्यापार, ते माने आरभ अपार,
 नवि जाणे ऊतरतां नट, मुनिने जीवदया क्या गट ? ८५

जो ऊतरता मुनिने नदी, विप्रजोगे नवि हिंसा वदी,
 तो विप्रजोगे जिनपूजना, शिवकारण मत भूलो जना. ८६

विषयारभतणो ज्या त्याग, तेहथी लहीण भयजलताग,
 जिनपूजामा शुभ भावधी, विषयारभतणो भय नर्था. ८७

सामायिकप्रमुखे शुभ भाष, यत्रपि लहीण जयजळनाव,
 तो पण जिनपूजाए सार, जिननो विनय कथो उपचार. ८८

भारभादिक शफा गरी, जो जिनराजभक्ति परिहरी,
 दान मान वदन आदेश, तो तुज सगळो पडयो कलेश. ८९

स्वरूपधी दीसे मायत्र, अनुबधे पूजा निरवध,

जे कारण जिनगुण-बहुमान, जे अवसरे वरते शुभ प्रान.	९०
जिनवरपूजा देखी करी, भविष्य भावे भवजळ तरी	
छकायना रक्षक हो वळी, एह भाव जाणे केरळी	०१
जळ तरता जळ उपर यथा, मुनिने दया न होए दृथा,	
पुष्पादिक उपर तिम जाण, पुष्पादिक पूजाने ठाण.	९२
तो मुनिने नहीं किम पूजना ? एम तु शु चिते शुभमना,	
रोगीने औषधसम एह, नीरोगी ते मुनिरदेह.	०२

ढाल नवमी

प्रथम गोषाळीयातणे भवेजो-७ देशी

भावस्तव मुनिने भलोर्जी, बेड भेदे गृही धार,	
त्रीजे अध्ययने कद्योजी, महानिशीथ मझार-	
मुणो जिन तुज विण कवण आवार ?	९४
वळी तिहा फळ दाखियुजी, द्रव्य स्तवनुर सार	
स्वर्ग वारमु गेहिनेजो, एम दानादिक चार	मुणो० ०५
छट्टे अंगे द्रौपदीजी, जिनप्रतिमा पूजेय,	
सूरियाभपरं भावथीजी, एम जिनवर कडय	मुणो० ०६
नारद आव्ये नवि थइजी, उभी तेह सुजाण	
ते कारण ते श्राविकाजी, भाखे आळ अजाण	मुणो० ०७
जिनप्रतिमा आगळ कद्योजी, शक्रस्तव तेणे नार,	
जाणे कुण त्रिण श्राविकाजी, एह त्रिध हृदयविचार ?	मुणो० ०८
पूजे जिनप्रतिमा प्रतेजी, सूरियाभ सुरराय	
वाची पुस्तक रत्ननाजी, लेड धर्मव्यवसाय	मुणो० ०९

- रायपसेणी सूत्रमांजी, मोहोटो एह प्रबंध,
 एह वचन अणमानताजी, करे करमनो बंध. सुणो० १००
- विजय देव वक्तव्यताजी, जीवाभिगमेरे एम,
 जो थिति ठे ए सुरतणीजी, तो जिनगुणधुति केमसुणो० १०१
- सिद्धारथ राये कर्याजी, याग अनेक प्रकार,
 रूपमूत्रे एम भाखियुंजी, ते जिनपूजा सार. सुणो० १०२
- श्रमणोपासक ते कथाजी, पहला अंग मझार,
 याग अनेरा नवि करेजी, ते जाणो निरधार. सुणो० १०३
- एम अनेक सूत्रे भण्युजी, जिनपूजा गृहिकृत्य,
 जे नपि माने ते सहीजी, करशे वहु भव नृत्य. सुणो० १०४

ढाल दशमी

ज सुरसघा मा सुरसघा अथवा एणे पुर कणल
 कोइ न लेसी—ए देशी

- अरर करे पूजादिक ठाम, पुण्यबध ठे शुभ परिणामे,
 धर्म इहा नवि कोइ दीसे, जेम त्रतपरिणामे मन हीसे. १०५
- निश्चय धर्म न तेणे जाण्यो, जे शैलेशीअंत वखाण्यो,
 धर्म अर्धम तणो क्षयकारी, शिव सुख दे जे भवजळ तारी. १०६
- तस साधन तु जे जे देसे, निज निज गुणठाणाने लेखे,
 तेह धरम व्यवहारे जाणो, कारज कारण एक प्रमाणो. १०७
- एवंभूततणो मत भाख्यो, शुद्ध द्रव्य नय एम वळी दाख्यो,
 निज स्वभाय परिणति ते धर्म, जे विभाव ते भावज कर्म. १०८
- धर्म शुद्ध उपयोग स्वभावे, पुण्य पाप शुभ अशुभ विभावे,
 धर्महेतु व्यवहारज धर्म, निज स्वभाय परिणतिनो मर्म. १०९

शुभयोगे द्रव्याश्रय थाय, निज परिणामे न धर्म इणाय;
 यावत् योगक्रिया नहीं अभी, तावत् जीव ठे योगारभो. ११०
 मलिनारभ करे जे किरिया, असदारभ तजीने तरिया,
 विषय कपायादिकने त्यागे, वर्ममति रहीये शुभ मागे. १११
 स्वर्गहेतु जो पुण्य रहीजे, तो सराग सयम पण लहीजे,
 बहु रागे जे जिनवर पूजे, तस मुनिनी पर पातरु धूजे. ११२
 भावस्तव एहथी पामीजे, द्रव्यस्तत्र ए तेणे कहीजे,
 द्रव्य शब्द छे कारणवाची, भर्म न भूलो कर्म निकाची. ११३

ढाल अग्यारमी

दान उलट धरी दीजीए-ए देशी

कुमति एम सकळ दूरे करी, धारीए वर्मनी रीतर,
 हारीए नवि प्रभु वळ थकी, पामीए जगतमा जीतर-
 स्वामी सीमधर तु जयो. ११४
 भाव जाणे सकळ जंतुना, भवथकी दासने राखरे,
 बोलिया बोल जे ते गणु, सफळ जो ठे तुज साखर. स्वामी०
 एक ठे राग तुज उपरे, तेह मुज शीवतरुकदरे,
 नवि गणु तुज परे अवरने, जो मिले सुरनरवृन्दर. स्वामी०
 तुज विना में बहु दु ख लहा, तुज मिल्ये ते कम होयरे ?
 मेह विण मोर माचे नहीं, मेह देखी माचे सोयरे. स्वामी० ११७
 मनथकी मिलनमें तुज कियो, चरण तुज भेटया साइर,
 कीजीए जतन जिन ए विना, अवर न वाछीए काडरे स्वामी०
 तुज वचन राग मुख आगळे, नवि गणु सुरनरशर्मर
 कोडी जो कपट कोइ दाखव, नवि तजु तोए तुज धर्मरे स्वामी०

तुं मुज हृदयगिरिमां वमे, सिंह जो परम निरीहरे,
 कुमत मातगना जृथथी, तो कशी प्रभु मुज वीहर ? स्वामी०
 कोडी ठे दास प्रभु ताहरे, माहरे देव तु एकरे,
 कीजीए सार सेरकृतणी, ए तुज उचित विवेकर. स्वामी० १२१
 भक्तिभावे इस्युं भाखीए, राखीए एह मनमाहीर,
 दासना भयदुःख वारीए, तारीए सो ग्रही वाहीरे स्वामी० १२२
 वाल जेम तात आगळ कहे, विनबु हुं तेम तुजर,
 उचित जाणो तेम आचरु, नवि रत्तो तुज क्रिस्त्यु गुजर. स्वामी०
 मुज होजो चित्त शुभ भावथी, भव भव ताहरी सेवर,
 याचीए कोडी यतने करी, एह तुज आगळे देवर. स्वामी० १२४

कळश

हरिगीत छंद

इम सरुळमुखकर दुरितभयहर त्रिमळलक्षण गुणधरो,
 प्रभु अजर अमर नरिद्वंद्वित विनब्यो सीमररो,
 निज नाद तर्जित भेद्यगर्जित धैर्य निर्जित मदरो,
 श्री नयविजय युग चरण सेरक जशविजय युध जयररो.

९ श्री सम्यक्त्व विचार गर्भित श्री महावीरजिन स्तवन. +

ढाल पहेली

ए छीडी किहा राखी—ए दशी

इगविध दुविध त्रिविध चडविध वळी, पणविध दशविध जाणो,
 ए समकित शिवतरुनु बीजक, समति परे मन आणो रे—
 प्राणी समन्तित शुद्ध आराधो, जेम शिवमारग माधोर—प्राणी० १
 इगविध तुज आणा रुचि दुविहा, द्रव्य भावधी कहीए,
 निश्चय ने व्यवहार अथवा, समकित दुविध सद्वहोएर—प्राणी० २
 सद्वहणा मूधी तुज आगम, परमारथ नपि जाणो,
 समकित द्रव्यधकी तस कहीए, भावधी तत्त्व उखाणे र—प्राणी० ३
 मिव्या पुद्गल शुद्धनु वेडन, समकित द्रव्य कटार,
 भावधी तत्त्वरुचि पण तिमहिज, तत्त्वरुचि परिभावे र—प्राणी० ४
 पुद्गल रपी अरपी पुद्गल, ए पण द्विविध तु देरो,
 क्षायोपशमिक वेटक पुद्गल, शेष अपुद्गल लेखे रे—प्राणी० ५
 निश्चय समन्तित शुभ आतमनो, ज्ञानादिक परिणाम,
 अथवा आतम समकित कहीए, गुणगुणी भेट न ठामर—प्राणी० ६
 मिव्यात्पटितणी सस्तरना, त्यागादिन् व्यवहार,
 बलीय निसर्गापर अधिगमधी, विहु भेदे निरधार र—प्राणी० ७

जिम कोइ मारगभूलो पंथी, भमतो मारग आय,
 कोइक उपदेशादिक्रयोगे, कोइक थाग न पावे रे-प्राणी० ८
 ज्वर पण सहेजे औषद्ययोगे, जाये एक न जाय,
 मारग ज्वरदृष्टाते समकित, इणि परे छिद्रिय थाय रे-प्राणी० ९
 जातिमभरण प्रमुखयकी जे, तास निसर्ग विचारो,
 गुरु उपदेशादिकथी आव्यु, ते अधिगम चित्त धारो रे-प्राणी० १०
 कारक रोचक टीपक भेदे, त्रिविधे पण ए भाप्युं,
 अथवा उपशम क्षायोपशमिक, क्षायिक भेदे दारयुं रे-प्राणी० ११
 तें जिम भाप्युं ते तिम कीधुं, ते कारक तस खास,
 तुज यमोपरि रचिथी रोचक, नहि क्रियाअभ्यास रे-प्राणी०
 मित्यादृष्टि यको पण पोते, र्मकथादिक सारे,
 टीपक पर परने टीपावे, ते टीपक उपचारे रे-प्राणी० १३
 ते समकित जिम फरस्यु जीवे, तिम तुज आगळ दासु,
 तुज आगम नय न्याय शुद्धोदयि, परमारथ रस चासुं रे-प्राणी०

ढाल वीजी

देव । तुज सिद्धात मीठा—ए देशी

वीर जिणेसर साहेव सुणजो, निज सेवक अरदाम रे,
 दीन दयाकर ठाकुर आपो, तुम चरणे मुज पास रे-वीर० १
 लोकाकाणी रघो अविनाशी, भाव अनादि अनत रे,
 ए भवचरनणा दु.ख बहुला, भोगविया भगवत रे-वीर० २
 मूक्ष्म निगोद वम्यो हु स्वामी, अनादि वणस्सइ नाम रे,
 तिहा में कीथ अनंता पुद्गल-परायत्त विण स्वामीर-वीर० ३

- अव्यवहारराशे इम वसियो, काल अनंतो भोगे रे,
 कर्मपरिणाम नृपतिआदेशे, तादृश भव्यतायोगे र-वीर० ४
- तिहा एकण सासोसासमें कीया, भव सतर झाझैरा र,
 ए दु ख तुज विण कोण छोडावे?स्वामी मुज भवफेरा रे-वीर० ५
- व्यवहारराशि लइ उतकर्षे, काल अनत अनतो रे,
 धुल निगोदने पृथवी पाणी, तेज अनिल जस जतो र-वीर० ६
- तिहा पण हु वसियो तुम पासवे, मिथ्यामनने जोर र,
 हरि हर देव करी में मान्या, तु न चढ्यो मन मारे रे-वीर० ७
- तेण में छेदन भेदन ताडन, भूख तपा गुरु भार र,
 गर्भवास ने जन्म जरा दु.ख, भोगविया निरवार र-वीर० ८
- इम चउ गइ भयना दु'ख फरसी, वार अनती अनाणी रे,
 पालाहृष्टाते इग पुद्गल-परायत्त-स्थिति आणी र-वीर० ९
- भव्यपणादिकने परिपाक, गिरिसरिउपलन्याये र,
 अ'यस'साय विशेष करण जे, अनाभोगथी थाये रे-वीर० १०
- ते त्रिविधे भारयु तिहा पहेलु, यथाप्रवृत्त बळी वीजु रे,
 करण अपूरव नामे रहीए, अनिवृत्तकरण ते वीजु र-वीर० ११
- यथाप्रवृत्तकरणे आयु विण, सात करम करी खीण रे,
 कोडाकोडी सायर इग पलनो, असरय भाग तिणे हीण रे-वीर० १२
- इहा कर्म निविड गुपिल जिम ग्रथी-भेदन दुकर काम र,
 कर्मपरिणामजनित घन जीवनो, राग द्वेष परिणाम रे-वीर० १३
- ते ग्रंथो नवि भेदी जीव, पहिली इणे समार र,
 वार अनती अभव्य पण आव, ग्रथीलगे निरवार रे-वीर० १४
- भव्य अभव्य रह तिहा ग्रथी, मरय असरयो काल र,
 अरिहतादिकनी ऋद्धि देखी, समयने उजमाल र-वीर० १५

- तिहा लहं श्रुत सामायिक द्रव्ये, शेष लाभ नहि तास रे,
 तिहांथी ग्रैवेयके पण जीवे, पण नचि शिवपुरवामरे-वीर० १६
- कोइक भव्य महातम तेहमां, जेहने भवनो पार रे,
 निधित कुठारवारे जिम ततखिण, भेदे ञळ मनोहाररे-वीर० १७
- करण अपूरव परम विशुद्धे, तिम ते ग्रथी आय रे,
 मेदीने अंतरमुहूरतमां, अनिवृत्तिकरणे जाय रे-वीर० १८
- मिथ्यामोहतणी स्थिति तेहनु, अतरमुहूरत एको र,
 उदयक्षण उपरे ओलंघी, ते समस्थ सुत्रिवेकोरे-वीर० १९
- अनिवृत्तिकरण विशेषे अतर-मुहूरत काळ अनुपो रे,
 अंतरकरण करे तिहा वेत्र जे, ढलिक अभाव सरुपो र-वीर० २०
- जिम वनदव दग्ने घन ऊखर, पामी ठाम उल्हाय र,
 तिम मिथ्यावेदन वनदव सम, अतरकरणे धाय रे-वीर० २१
- अतरकरण कर्ये मिथ्यातनी, धितियुग कह जिन न्याने रे,
 अंतरकरणथकी धिति हेठी, पहली मुहूरत माने रे-वीर० २२
- तेहथी उपरली धिति बीजी, तिहां प्रथम स्थिति जाणो रे,
 मिथ्याढलिकरुनुं वेदन तेहथी, मिथ्यादृष्टि चखाणो र-वीर० २३
- अंतरमुहूरत ते धिति नाशे, नहि मिच्छाढलवेदोरे,
 अंतरकरणनो प्रथम समय तिहा, लहे उपशम निरवदो र-वीर०
- परमानढ मगन हीट भट जिम, जीती कटरु अशेष रे,
 न्यायवंत हरपे जिम गाढे, न्यायपनागम पेंव र-वीर० २५

ढाळ त्रीजी

महारी सहारे ममाणी-७ देशी

इणि परे तुजथी समकित फरस्थु, जेहथी भवजळ तगस्थु र-धन
 धन तुम सेवा;

- एहथी मनवच्छित फळ लेया, ते करया मुज हेवार-वन० १
- तिहा कोइ देगविरति तम मरसी, मरपिरति ल्हे हरिसी रे-वन०
- मिच्छा मयणकोदरवा सरिसु, उपशमभापध पररुं र-वन० २
- जळवस्त्राटिकने दृष्टाते, तुज आगम कह र्वाते रे-वन०
- मिथ्यापुज करे त्रण शोधी, उपशम करी शुभ बोधि रे-धन० ३
- शुद्ध ने अर्थ मिशुद्ध ते वीजो, अमिशुद्धे मत रीझो रे-धन०
- उपशमथी पडियो मन वामे, क्षायोपशमिक पामे र-वन० ४
- मिश्र तथा मिथ्यान्वने फरसे, करम मति डम हरसे रे-धन०
- वीजु क्षायोपशमिक कहीए, उपशम परि पण लहीए रे-वन० ५
- मिच्छापुंज करी त्रिण निरणे, कोट अपूरयकरणे र-वन०
- शुद्ध पुज तिहा वेदतो ज्ञानी, जिनवचनामृतपानीर-धन० ६
- उपशम पाम्या विण तुज नामे, क्षायोपशमिक पामे रे-वन०
- यथाप्रवृत्तिकरणत्रय क्रमनी, अतरकरणे तुजथी रे-धन० ७
- जे लहे उपशम भयजळ तरवा, तस त्रण पुज न करवा र-वन०
- आलवन अलहती इयळ, जिम सठाण न मूरु र-वन० ८
- मिश्रपुज अणलाभी उपशमे, तिम मिथ्यात्व हूक र-धन०
- उपशमसमकितथी तिणे पडियो, जद मिथ्यागुण अडियो र-वन०
- इम सिद्धाती निज मत खोले, कल्पभाप्य पण बोले रे-वन० -
- ते त्रण पुंजनु सक्रम भापुं, जिनवयणे मन रासु र-वन० १०
- मिथ्यादलिसुथी पुद्गल रिंची, समकितदृष्टि रिंची र-वन०
- सरुभात समकित मीसे, शुभ परिणामे हिंसे र-वन० ११
- समकितदृष्टि मीस आरुपीं, समकित माह हपीं रे-वन०
- सरुभावे मिथ्यादृष्टि, मिथ्यामा गुण पूर्ण र-वन० १२
- समकितपुद्गल मिथ्या माह, पण मीसे नरि चाहे र-वन०

- मिच्छा स्त्रीण नहि छे जेहने, ते त्रण पुंज छे तेहने रे-धन० ?
- मिच्छा स्त्रीण थये दोय पुंजी, मीस खये एरु पुजीरे-धन०
- सायिक समकित पुद्गल नाशे, जिनआगम डम भाषे रे-धन० ?
- शोभित मयणकोद्रवा थाने, समकितपुद्गल माने रे-धन०
- तेहने विरुध तैलादिक पाशे, शुद्धपणु तस नाशे रे-धन ?
- तिमज कुशास्त्र कुनीर्धीक मगे, तस किरिया मन रगे रे-धन०
- मिथ्या मिश्रित समकित जाये, ततक्षण मिथ्या धाय रे-धन० ?
- समकितवी पडियु जो पाछु, बळी समकित लहे आछुं रे-धन०
- ते त्रण पुज करे तिहा फेरी, मिच्छ अपूरवी वेरी रे-धन० ?
- अनिष्टत्तिकरणवले ते रसियो, समकितपुजे बसियो रे-धन०
- समकित परे जिहा विरतिने पावे, आद्य करण बे आवे रे-धन०
- करण अपूरव कालने आगे, विरति लही तिहा जागे रे-धन० ?
- अतरमुहूरतमा तस लावे, निज परिणामे वावे रे-धन०
- ज्चो नियम नहि तिहा कोइ, वृद्धि हाणि सम होइरे-धन० ?
- अनाभोग परिणामनी हाणे, गइ विरति नवि जाणे रे-धन०
- अकृतकरण थको ते प्राणी, फिरी लहे विरति मुहाणी रे-धन०
- आभोग जे विरतिथी स्वमिया, तिमज मिथ्यागुणे बसिया रे-धन०
- अतरमुहूरतमा रहे आछी, जयन्यथकी फिरी पाछी रे-धन० ?
- उत्कर्षे बहु काले भापी, आद्य करण छे साखी रे-धन०
- इणि परे कर्ममकृतिष्टि माहे, तिहां जो जो उच्छाहे रे-धन० ?
- कोइ विरापितसमकित फेरी, ते लहे मिथ्यावेरी रे-धन०
- छट्टी नरकलगे ते जाय, समयमने कहेवाय रे-धन० ?
- आउ बय विना उच्छाहे, फिरी समकित अवगाहे रे-धन०
- वेम्मानिरुविण आउ न वाये कर्ममति मत सांघे रे-धन० ?

- समकितपतित कहे मत वाधे, उत्कृष्टी स्थिति वाधे रे-वन०
 भिन्नग्रंथीने आगमन्याने, स्थिति उत्कर्ष न माने रे-वन० २५
 इणि पर भेद मतातर जाणे, पण सदेह न आणे रे-वन०
 निःशंकित तुज वचन आरात्रे, न्याये तस गुण वात्रे रे-वन० २६

ढाल चोथी

- घिनय वहो सुखकार अथवा शालिभद्र भोगी रहो-ए देशी
 दर्शनमोहविनाशथी जी, जे निर्मळ गुणठाण,
 ते समकित ओत्रे कहुजी, ते भवियण चित्त आण रे-
 जिनजी तुण आणामु रग, मृज न गमे मिथ्यासंग रे-जि० १
 मिच्छा दरसन माहनीजी, उपशमी उपशम जाण,
 धुर ग्रथीभेदे कहुजी, उपशम श्रेणी प्रमाण रे-जि० २
 नाश उदीरण मिच्छनोजी, अनुदीरण सम ठाम,
 क्षय उपशमथी उपजेजी, क्षयोपशमिका नाम रे-जि० ३
 त्रिविध मोह विनाशथीजी, त्रीजु क्षायिक नाम,
 क्षपक श्रेणी चढता हुएजी, जेहथी शिवपुरठाम रे-जि० ४
 विपाक प्रदेशे वदधुजी, द्विविध उदय विष्कभ,
 उपशमनुं तेहने कहजी, आगममा धिर थभ रे-जि० ५
 नाश विपाकोदयधकीजी, वेदन तेहनुं रे नाम,
 उपशमी ते नवि संभरेजी, क्षायोपशमिक ठाम रे-जि० ६
 मिच्छापुद्गल वेदवाजी, शुद्ध अशुद्ध तिहा दीय,
 विपाक प्रदेशोदयधकीजी, अनुक्रमे समजी जोय रे-जि० ७
 अण चउ दृग मिच्छातणाजी, पुज सपावी रे होय,
 शुद्ध पुज सपता तिहाजी, अतिम पुद्गल होय रे-जि० ८
 तस वेदन तेहने कहुजी, वदक चोर्धुं रे नाम,
 उपशम वमता पाचमुजी, सासादन गुण धाम रे-जि० ९

- अंतरमुहरत एकनीजी, उपशम स्थिति उवेस्व, १
 उत्कर्षे पट आवळीजी, जघन्य समय होय शेष रे-जि० १०
 अशुद्ध पुंज जावातणीजी, इच्छाए तिहा तास,
 अण कपाय उदये हुएजी, जेथी उपशमनाशरे-जि० ११
 उपशमथी पढतां थकाजी, न गयो मिच्छा रे जाव,
 तावत सासादन कहुंजी, उपशम स्वाद सहाय रे-जि० १२
 अंतरमुहरत काळनीजी, उपशमस्थिति गुणखाण,
 सासादन पट आवळीजी, वेदक समयप्रमाण र-जि० १३
 स्थिति सागर तेत्रीशनीजी, साधिक क्षायिक जाण,
 वमणी स्थिति एहथी कहीजी, क्षायोपशमिक ठाण रे-जि० १४
 उपशम सासादन कहुंजी, आभववेळा रे पच,
 वेदक एक वेळा हुएजी, तिमहीज क्षायिक सच र-जि० १५
 वार असंख उत्कर्षथीजी, क्षायोपशमिक होय,
 हवे तस गुणठाणां कहुंजी, सांभळजो महु कोय र-जि० १६
 उपशम अड गुणठाणमाजी, अविरत गुण पट रेख,
 क्षायिक गुणठाणे सवेजी, आदिम त्रण त्रिण शेष रे-जि० १७
 अविरति गुणठाणा थकीजी, जायत सत्तमठाण,
 एक वेदक वीजु इहा जी, क्षायोपशमिक जाण रे-जि० १८
 सासादन सासादनेजी, भापे अग उवंग,
 न्याये शिवमुख ते लहेजी, जश तुज आण अर्भग रे-जि० १९

ढाल पांचमी.

शक्ति सुधारन जुडमा तु रम मुनिवर—ए देशी
 धन धन शासन तादरुं, माहरुं जिहा मन लीन रे,
 क्षण पण तस विण नयि रहे, जिमं जळभर विण मीन रे-वन० १

देशविरति दरशन थकी, पलिय पहुत्तमा जाणी रे,	१
अनुक्रमे चरण त्रेणी मिहु, सरय सायर गुणखाणी रे-५०	२
तेहिज भये हुए तेहने, जेहने सत्तग खीण र,	३
चड तिय भव उत्कर्षथी, पुव वद्धाउने पीण र-५०	३
वद्धायु मुर नरगनु, तेहने तिय भव तत र,	४
आउ असरय नर तिरि तणु, तस पण चड भये अत र-५०	४
समकितस्थिति होए ओघथी, अंतरमुहूरत एक र,	५
साहिय खओवसमा सिरी, सायर छासट्टी ठेक रे-५०	५
इग अथवा बहु आसरी, दरसननो उपयोग र,	६
जघन्य उत्कृष्ट थकी कयो, अतरमुहूरत भोग रे-५०	६
दरसनलब्धि शुभ मुरलता, क्षयोपशमाटिक रूप रे,	७
अतरमुहूरत माननी, जघन्यथी करे जिनभूप रे-५०	७
छासठ सायर सवि मठी, नरभव हिय उत्कृष्ट रे	८
तेहथी उर्द्ध जो नवि दिए, समकित रयणने पृष्ठ रे-५०	८
ते निश्चय शिषपट लहे, ए एक जीवने योग र,	९
जीव नानाश्रित सर्वदा, दरसननो उपयोग रे-५०	९
अतरमुहूरत एकनु, जघ य अतर मन आण र,	१०
अर्द्ध पुद्गलपरावर्त्तनु, तस उत्कृष्ट परिमाण र-५०	१०
जीव नानाश्रित नवि होए, समकित अतर लेश रे,	११
तत्र आवश्यकट्टिमा, ए अधिकार विशेष र-५०	११
दशविध सहज उपदेशथी, उपशमप्रमुख जे पच र,	१२
अहव निसग रूड भेटथी, दशविध तस परपच रे-५०	१२
निसगगुवएस-आणारूड, वीयरूड अभिराम रे	१३
अभिगमा-भोग-किरियारूड, ससेय-वम्मस्ट नाम र-५०	१३
गुरु उपदेश विण स्हेजथी, जिनत्रयणे परतीन र,	१४
जेहने तेहने जाणजो, प्रथम निसर्गदृष्टि रीत र-५०	१४

ते सवि गुर उपदेशथी, सहदे जे जण आप रे,	
ते उपदेशरुचि नर कद्यो, इम तुम आगमथाप र-५०	१५
कारणप्रमुख अजागतो, मुज जिनआणज रोम रे,	
तद्य आणारुचि तु रुह, मापतुपादिक जेम रे-५०	१६
सूत्र भणतो समकित लहे, प्रसन्न प्रसन्न परिणाम रे,	
गोविंद वाचकनी परे, सुत्तरुट तस नाम रे-५०	१७
देशरु रओवसमयी, सबरुट विस्तारी रे,	
उदकमा तेलनिंदु परे, नीयरुड भय तारी रे-५०	१८
अभिगमरुड सुअनाणने, अरयवकी अवगाहे रे,	
अंग पडन्न प्रमुख जे, शास्त्र सवो निरवाहे रे-५०	१९
द्रव्यना भाय जाण्या जिणे, सर्व प्रमाणे असेस रे,	
सर्व नये तिम तस कद्यु, वित्थाररुड अजलेज रे-५०	२०
दंसण नाण चारित बजी, तिम तिनयोत्तम काम रे,	
सुमति गुपति किरिया रचे, ते किरियारुड नाम र-५०	२१
आगमकोविट नवि हुए, कुमय कुन्टिद्विजि जुत्त रे,	
सखेवरुड तेहने कद्यु, जिम चिलातिय पुत्त रे-५०	२२
धम्म अयम्म प्रमुख दव, चरण सुययम्मना भेट रे,	
जे जिनभापित सहदे, ते धम्मरुट निरवेद रे-५०	२३
ए दशविज दरसण कद्यु, उत्तरा ययनमझार रे,	
अभयने ते अदवीसमे, न्यायसागर सुखकार रे-५०	२४

ढाल छट्टी.

माड धर सुपन तु—ए देशी

जड जळ पण पोते सिन्धु काठ न बोळे,
तस संगति लोह तेहने पण तस तोळे,

- तेम हु गुणहीणो तो पण दास तमारो,
अवगुण उरेसी प्रभुजी पार उतारो. १
- तु गुणमणिन्रीयो उद्धरियो जग जेणे,
मुज काड न तार्यो तुज संगति नहि तेणे,
अलंगो तहिं विलंगो तुं मुज दिलथी देव,
अविचळ पद जापो ढीलतणी शी टेव ? २
- नहि तो मुज दावे नहि मूकु करु सोर,
शाली दिलभितर घाली करथु जोर,
जाशो किम दीया-विण शिवमुख जिनराज ।
सहेजे जो देशो तो रहेशे तुम लाज. ३
- अविनय मुज खमजो हु छु मूढ अजाण,
करता नवि आरे विनतडी जगभाण,
वाळरु जिम बोले कालो गहिलो वोल,
ते मातपितामन लागे अमृततोल. ४
- इणि परे प्रभु स्तवियो समकित लेश विचारे,
आगम अनुमारे मुज मतिने अनुहारे,
सवत ऋतुरसमुनि-चंद्र* सवत्सर जाणी,
भाद्रवे मासे सीत पचमी गुणखाणी. ५
- श्री तपगच्छ नायक श्री विजयरत्न सूरिंद,
सुरगुरु जस आगळे कर जोड मतिमद,
तस राज्ये पढित उच्चमसागर सीस,
कहे न्यायसागर प्रभु पुरो सधजगीस. ६

इति श्री सम्यक्त्व विचार गर्भित स्तवन.

१० श्री अठार पापस्थानकनी सज्झाय.

पहेला हिंसा पापस्थानकनी सज्झाय

कपूर होये अति ऊजळो रे-ए देशी
 पापस्थानक पट्टिलु कहुं र, हिंसा नाम दुरत,^१
 मारे जे जग जीवने रे, ते लहे मरण अनत रे प्राणी
 —जिनवाणी उरो चित्त. ?

मातपितादि अनंतनारे, पामे वियोग ते भद,
 द्वारिद्य दोहग^२ नवि टळेर, मिले न उल्लभट्टरे- प्राणी० ०
 होय विपाकं^३ दश गुणुर, एक वार क्रियु कर्म,
 शत सहस्र कोडी गमेरे, तीत्र भावना मर्म रे- प्राणी० ३
 मर कहेता पण दुःख हुएरे, मारे किम नवि होय ?
 हिंसाभगिनी अति सूरीरे, वैश्वानरनी^४ जाय रे- प्राणी० ४
 तेहने जोर जे हुआ रे, मोद्र व्यान प्रमत्त,
 नरकअतिथि ते नृप हुआ रे, जिम सुभूम ब्रह्मदत्तर- प्राणी० ५
 राय विपेक कन्या क्षमा रे, परणापे जस साय,
 तैथकी दूर टळे रे, हिंसा नाम वलाय रे- प्राणी० ६

वीजा मृपावाद पापास्थानकनी सज्झाय

लाछलदे भात मल्हार-ए देशी
 वीजु पापहुं स्थान, मृपावाद दु र्यानि
 आज हो छंडो रे भवि मडो उर्महुं प्रीतडीजी.
 वैर संद अविश्वास, एहथी दोषअभ्यास,
 आज हो वाए रे नवि जाए, व्यापि अपव्यथीजी.^५ ०

१ जेना फट्टनो दु खे पार आपे ते ० माठी गतिमा
 जयापणु ३ फट्ट आपवाने उगत ४ थमराजा ५ प्रतिकूट वस्तु

रहियु कालिङ्गमूरि, परिजनपचन ते भूरि,
 आज हो सहियु र नत्रि कहियु, जूठ भयादिकजी. ४
 जे सत्य त्रत अरे चित्त, होय जगमाहे पवित्र,
 आज हो तिहोरे र नत्रि भय, मुर व्यतर यक्षधीजी. ५
 जे नत्रि भावे अलिङ्ग,^१ रोले टावु ठीक,
 आज हो टंके र सुविपने, सुयश ते मुख वरजी. ६

त्रीजा अदत्तादान पापस्थानकनी सज्जाय.

निंदरडी चरण हुइ रह्यो-ए देशो

चोरी व्यसन निवारीए, पापस्थानक हो त्रीजु रह्युं घोरके,
 इहभव परभव दु रा त्रणा, एह व्यसने हो पामे जग चोरके. १
 चोर ते प्राय दरिद्री हुए, चोरीथी हो त्रन न ठर नेट^२ के,
 चोरनो कोड धणी नहीं, प्राये भूर्यु हो रह चोरनु पेटके-चो० २
 जिम जळमाहो नाखीयो, तळे आवे हो जटने अय^३ गोळ^३क,
 चोर कठोर करम करी, जाय नरके हो तिम निपट^४निटोल^४के. ३
 नाठु^५ पड्यु वळी विसर्यु, रह्यु रारयु हो थापण कर्यु जेहक,
 तृण तुस^६ मात्र न लीजीए, अणदीधु हो किहा कोइनु तेहके- ४
 दूरे अनर्थ सकळ टळे, मिले व्हाला हो सयळ जश थायके,
 मुरमुखना हुए भेटणा, त्रत त्रीजु हो आवे जस टायने-चोरी० ५
 त्यजी चोरपणु देवता, होय निश्चय हो रोहिणीया जेमके,
 ए त्रतथी जस मुख लहे, वळी प्राणी हो वह पुण्यथु प्रेम के-चो० ६

१ जूठ २ स्थिर थइने लागे घनत ३ लोढानो गोळो
 ४ गमार, मूर्ख ५ निलज्ज ६ खायायट ७ पीतगा, लेश मात्र

चोथा अवह्वार्य पापस्थानकनी सज्जाय.

पापस्थानक चोयुं वजीए, दुर्गतिमूल अंभ,	
जग सवि मूड्यो ठे एहमा, उडे तेह अर्चभ-	पा० १
रुडु लागे ठे ए धुर, परिणामे अति क्रूर,	
फळ किंपाक ^१ नी सारिखा, उर्जे सज्जन दूर-	पाप० २
अवर विद्रुम ^२ स्मित फूलटा, ^३ कुचफळ ^४ कठिन विशाल,	
रामा देखी न राचीए, ए त्रिपवलि रसाल-	पाप० ३
प्रवळ ज्वलित अय पृतळी, ^५ आलिंगन भल्लु तत,	
नररुदुवारनितत्रिनी, ^६ जपन ^७ सेवन ए दुरत-	पाप० ४
टावानळ गुणजनतणो, कुळ मगी कुर्वक ^८ एह	
राजवानी मोहरायनी, पातरु कानन ^९ मेह-	पाप० ५
प्रभुताए हरि सारिगो, रूप मयण ^{१०} अवतार,	
सीताए र रावण यथा, उडो पर नर नार-	पाप० ६
दश शिर रज माह रोळव्या, रावण त्रिवश अवभ	
रामे न्याये र आपणो, रोप्यो जग जयथभ-	पाप० ७
पाप वंवाये रे अति त्रणु, मुकृत सकळ क्षय जाय,	
अत्रह्वार्योनु चिंतव्यु, रुदिय सकळ नवि थाय-	पाप० ८
मंत्र फळे जग जस त्रे, देव करे रे सान्निद्ध	
ब्रह्मचर्य वरे जे नरा, ते पामे नत्र निद्ध-	पाप० ९
शेठ मुद्रशेनने टळी, शूळी सिंहासन होय,	
गुण गाये गगनेरे देवता, महिमा शीलनु जोय-	पाप० १०

१ झेरी फळ २ परवाळा जेवा होठ ३ फळ झरे पवु
थोडु हसवु ४ स्तन ५ सगत धगावेली लोढानी पूतळी ६
नारी ७ वेडनो आगलो भाग ८ शाहीनो कुचडो ९ पाप
रुपी घन १० कामदेव

मूल चारित्रनु ए भल, समकित वृद्धि निदान,
शील सलील वर जिह, तस ह्य सुजस वखाण-पा० ११

पाचमा परिग्रह पापस्थानकनी सज्झाय.

सुमति सदा दिलमा धरा-ए देशी

परिग्रह ममता परिहरो, परिग्रह टोपनु मूळ सल्लणे,	स. प. १
परिग्रह जेह वर घणो, तस तप जप प्रतिहूळ.	स.
नवि पलटे मूल राशिथी, मार्गी ^१ कडिय न होय	स. प. २
परिग्रह ग्रह छे अभिनवो, सहने दीए दु ख सोय	स.
परिग्रह मद गरअत्तणे, ^२ भयमाही पटे जत	स. प. ३
यानपात्र ^३ जिम सायर, भारात्रात ^४ अत्यत	स.
ज्ञानध्यान हयगयनर, तप जप श्रुत परतत	स. प. ४
छोडे सम प्रभुता लह, मुनि पण परिग्रहवत	स.
परिग्रह ग्रह वशे लिंगीया, लेद कुमतिरज सीस	स. प. ५
जिम तिम जग लपता फिर, उनपत्त हुड निशदिस	स.
तृप्तो न जीव परिग्रहे, इधणथी जिम आग	स. प. ६
तृष्णादाह ते उपशमे, जल सम ज्ञान वराग.	स.
तृप्तो सगर सुते नहि, गोधनथी कुचीकर्ण	स. प. ७
तिलक शेठ वळी धान्यथी, कनने नद सकर्ण ^५	स.
असतृष्ट परिग्रहभर्या, सुखीया न इद नरिद	स. प. ८
सुखी एक अपरिग्रही, साधु सुजस समरू ^६	

१ निश्चित मार्गें चारनार २ भारे थवायी ३ घहाण,
४ भारे भरेहु ५ पडित, डाणो; ६ समताना वंद

छट्टा क्रोध पापस्थानकनी सज्ज्ञाय.

ऋषभनो वंश रयणायट-ए देशी

क्रोध ते बोधनिरोध छे, क्रोध ते संयमघातीरे,	
क्रोध ते नरकनुं वारणु, क्रोध दुरित ^१ पक्षपातीरे,	१
पापस्थानक छट्टु परिहरो, मन वरी उत्तम खति ^२ रे,	
क्रोधभुयंग ^३ नी जागुली ^४ , एह कही जयवतीरे	पा. २
पूरव कौडि चरण ^५ गुणे, भाव्यो छे आतम जेणरे,	
क्रोधविवश हुता दौय गढी, हारे सवि फळ तेणरे.	पा. ३
वाळे आश्रम आपणो, भजना ^६ अन्यने दाहरे,	
क्रोध कृशानु ^७ समान छे, टाळे प्रशम ^८ प्रवाहरे.	पा. ४
आक्रोश तर्जना घातना, वर्मभ्रंशने भापेरे,	
अग्रिम अग्रिम विरह्यी ^९ , लाभ ते शुद्ध स्वभावेर.	पा. ५
न होय ने होय तो चिर नहि, चिर रहे तो फळ छे हो रे,	
सज्जनक्रोध ते एहयो, जेहवो हुर्जननेहो रं	पा. ६
क्रोधी मुसे कट्ट वोलणा, कंटकीया कट्टसाखी ^{१०} र,	
अटिट्ट कल्याणकरा ^{११} कहा, दीप तरुशत साखीरे.	पा. ७
कुरगइ चड तप कर्या, चरित सुणी सम आणोरे,	
उपशम सार छे प्रवचने, सुजशवचन ए प्रमाणोरे.	पा. ८

सातमा मान पापस्थानकनी सज्ज्ञाय.

नदी यमुनाके तीर उडे दाय पखिडा—ए देशी

पापस्थानक कहे सातमु श्री जिनराजए,
मान मानवने होय दुरितशिरताज ए,

१ पाप, २ क्षमा ३ सर्प ४ जागुलीमध्र, ५ चारित्र, ६ होय अथवा न होय (वाळे के न वाळे), ७ अग्नि, ८ शांति, ९ एक एकना अनुक्रमे त्यागथी, १० सराय झाड (बौरडी, वाघळ, थोर घनेरे), ११ नहि जोग्याज भला

आठ शिखर गिरिराजतणा आढा वळे,
 नाये विमलालोक^१ तिहा किम तम^२ टठे ? १
 मज्ञामद तपमद वळी गोत्रमदे भर्षा,
 आजीविकामन्त्रंत न मुक्ति अगीर्ष्या,
 क्षयोपशम अनुसारे जो एह गुण मह,
 श्यो मद्र करवो एहमा ? निर्मद मुख लह. २
 उच्चभाय दृढदोषे मदज्वर आक्रुगो,
 होय तेहनो प्रतिकार^३ नहे मुनियर गरो,
 पूर्व पुरुष मिधुर्^४धी लघुता भावतु,
 श्रुद्ध भावन ते पावन शिवसाधन नतु ३
 माने खोद्यु राज्य लकानु रावणे,
 नरनु मान हरे हरि आरी औरावणे,
 धूलिभद्र श्रुतमदधी पाम्या त्रिकार ए,
 माने जीवने आय नरकअधिकार ए. ४
 विनय श्रुत तप शील त्रिगर्ग हणे सने,
 मान ते वाननो भजक होय भयोभये
 उपरु ठेरु विवेकग्यणनो मान ठे,
 एहने छाडे तास न दु ख रहे पठे ५
 माने बाहुपलि वरसलगे काउस्सगग रथा,
 निर्मत् सैरु चक्री द्योय मुनि सम रुदा,
 सायधान त्यजी मान जे यान धवल धर,
 परमा सुजसरमा^६ तस आर्लिगन कर ६

आठमा माया पापस्थानकनी सज्जाय

स्वामी स्वयंभू माभळो अरिहताजी-प देशी

पापस्थानक अष्टम कळं सुणो सतानी,

छांडो माया मूल गुणंताजी,

कष्ट करे व्रत आदरे सु., मायाए ते प्रतिकूल गु. १

नगन मासउपवासिया सु., सीथ^१लीए कृश अन्न गु,

गर्भ अनंता पामशे सु., जो ठे माया मन्न गु० २

केश लोच मलयारणा सु., भूमिशर्या व्रतयाग गु

सुकर^२सकळ छे साधुने सु., दुष्कर मायात्याग गु. ३

नयन वचन आकारनु सु., गोपन मायावत गु. ४

जेह करे असती फरे सु., ते नहि हितकर तंत गु.

कुसुमपुरे घर शेठने सु., हेठे रवो सचिन्न गु. ५

उपरे तस वीजो रवो सु., मुत्कल^३पण मुगुणज्ञ गु.

दभी एरु निंदा करे सु., वीजो रे गुणराग गु.

पहेळाने भव दुत्तर^४ कहे सु, वीजाने कह वळी ताग गु. ६

विप्रि निषेध नप्रि उपदिशे सु., एकांते भगवंत गु.

कारणे निरूपटी हटुं सु., ए आणा ठे तंत गु. ७

मायाथी अळगा टळो सु., जिम मळो मुगति^५ रग गु.

सुजसविनास सुखी रवो सु., लक्षण आवे अग गु ८



१ दाणो, २ सहेटु, ३ मोत्रो (शिथिलाचारी), ४ दु खे
मसार तरनार

नवमा लोभ पापस्थानकनी सज्झाय

जीरे मारे जाग्यो कुमर जाम—ए देशी

- जीरे मार लोभ ते दोष अधोभ,^१
 पापस्थानक नवमु कहु जीरेजी,
 जी. सर्व विनाशनु मूल, एहथी कोड न सुख लहु जी रे. १
 जी. सुणीए बहु लोभाध, चक्रवर्त्ती हरीनी कथा जी रे.
 जी. पाम्या कटुफ विपाक, पीउत रक्त^२जळो यथा जी रे. २
 जी. निर्मनने शतचाह^३, शतचहे सहस लोभीए जी रे.
 जी. सहस लहे लखलोभ, लग्बलोभे मन कोडीए जी रे. ३
 जी. कोटीश्वर नृपऋद्धि, नृप चाह चक्रीपणु जी रे
 जी. चाहे चक्री मुरभोग, मुर चाहे मुरपतिमुख घणु जी र. ४
 जी. मूल लघुपणे लोभ, बाधे शराव^५परे सही जी रे.
 जी. उत्तरा ययने अनत, उच्छा आकाशसमी कही जी रे ५
 जी. स्वयभ्रमण समुद्र, कोइरु अवगाही^६ शक जी र.
 जी. ते पण लोभसमुद्र-पार न पामे बलथके जी रे. ६
 जी. कोइक लोभने हेत, तप श्रुत द्वार जे जडा जी रे.
 जी. काग उडावण हेत, मुरमणि^१ नाखे ते खडा जी रे. ७
 जी. लोभ तजे जे वीर, तस सवि सपत्ति किंरूरी जी रे.
 जी. सुजंस मुपुण्य विलास, गात्रे तस मुरमुदरी जी रे. ८



१ अति घणो २ लोढी ३ सोनी इच्छा ४ सरयला, अळ
 सिया ५ न्हाण ६ चिंतामणि र-न

दशमा राग पापस्थानकनी सज्जाय

सुण मोनी सजनी रजनी न जावे रे-प देशी

पापस्थानक दशमुं कहुं रागरे, कुणहि न पाभ्यो तेहनो तागरे,
रागे बाह्या हरि हर वभारे, रावे नाचे करेय अचभारे. १

राग केशरी छे वड राजारे, विपयाभिलाप ते मंनी ताजारे,
जेहना छोरु ईद्रिय पचोरे, तेहनो कीधो ए सकल प्रपंचोरे. २

जेह सटागमवश हुडू जाशेरे, अप्रमत्तता शिखरे वाशेरे,
चरण वरम नृप शैल^३ विवेकेरे, तेहशुं न चले रागी टेकेरे ३

मीजा तो सवि रागे गाहारे, एकादश गुणटाणे उमाह्या^३ रे,
रागे पाळ्या ते नर सुत्तारे, नरकनिगोदे महादुःखजुत्तारे. ४

रागहरण तप जप श्रुत भार्यार,
तेहथी पण जिणे भवफळ चाख्यांर,

तेहनो कोइ न छे प्रतिकारोरे, अमीय होय विप त्या शो चारोरे
तपवले दृष्ट्या तरणु ताणीरे, रुचन कोडि आपाढभूति नाणीरे,

नंदिपण पण रागे नडियारे, श्रुतनिधि पण वेश्यावश पडियारे. ६
गावीश जिन पण रही प्रवासेरे, वर्धा पूर्व राग अभ्यासेरे,

वन्नवध पण जस बल तूटेरे, नेहंतुथी नेह न छटे रे. ७
देहउचाटन^५ अग्निनु दहधुरे, घणकुट्टन ए मवि दुःख सहवुं रे,

अति घणुं राती जे होय मजीठ रे, रागतणो गुण एहज टीठरे. ८
राग न करजो कोइ नर कोदथुरे,

नवि रहेवाय तो करजो मुनिथुरे
मणि जिम फणीविपनो^५ तिम तेहोर,

रागनुं भेपज सुजगसनेहोरे. ९

१ घमशे २ पर्वत ३ पर्वोच्या ४ देहनो नाश (खंडाइन
भूषो थइ जवुं ते ५ झेग्नो

अग्यारमा द्वेष पापस्थानकनी सञ्ज्ञाय

लालननी देशी

द्वेष न धरीए लालन द्वेष न धरीए,
 द्वेष तज्याथी लालन शिवमुख बरीए ला. शि.
 पापस्थानक ए अग्यारमुं कडु,
 द्वेषरहित चित्त होय सवि रडु ला. हो. १
 चरण करण गुण वनी चित्रशाली^१,
 द्वेषधूमे^२ होय ते सवि काली ला. ते. २
 दोष वेंतालीश शृद्धआहारी,
 धूम्रदोषे होय मयल प्रिकारी ला. म. ३
 उग्र विहार ने तप जप किरिया,
 करता द्वेष ते भवमाहे फरिया ला. भ. ४
 योगनु अंग अद्वेष ठे पहेलु,
 साधन सवि लहे तेहयी बहेतु ला. ते. ५
 निर्गुण ते गुणवत न जाणे,
 गुणवत ते गुण द्वेषमा ताणे ला. द्वे. ६
 आप गुणी ने वळो गुणरागी,
 जगमाह तेहनी कीरति जागी ला. की ७
 राम धरीजे जिहा गुण लहीए,
 निर्गुण उपर समचित्त रहीए ला. स. ८
 भवधित्तिचिंतन सुजशरिलासे,
 उत्तमना गुण एम प्रकाशे ला. ए. ९

१ चित्रयाळो सुद्धर आघास (रहेवाणु घर) २ द्वेषरूपी धुमाढायडे

वारमा कलह पापस्थानकनी सज्जाय.

किसके चले किसके पूत प देशी

- कलह ते वारमुं पापनु स्थान, दुरगति वन्नु मूळ निदान-
साजन सांभळो, महोटो रोग कलह काचकामळो.^१
- दंतकलह जे घरमाहे होय, लच्छीनिवास तिहां नवि जोय. सा. १
- शु सुदरी तुं न करे सार^२? न करे आपे काद गमार-सा.
- क्रोधमुखी तु तुजने विकार, तुजथी अधिको कुण ? कलिकाळ-सा. २
- साहमुं बोले पापणी नित्त, पापी तुज पिता जुओ चित्त-सा.
- दतकलह इम जेहने थाय, ते दंपतीने सुख कुण वाय ? सा. ३
- कांटे काटे थाये वाडी, बोले बोले वाये राडी-सा.
- जाणी मौन वरे गुणवत, ते सुख पामे अतुल अनंत- सा. ४
- नित्ये कलहण कोहणशील^३, भंडणशील^४ विवादनशील^५ सा.
- चित्त उताप धरे जे एम, समय करे निरर्थक तेम- सा. ५
- कलह करीने स्वमाने जेह, लघु गुरु आरायक होय तेह-सा.
- कलह समावे ते धन्न धन्न, उपशमसार कहियो सामन्न^६ सा. ६
- नारद नारी निर्दय चित्त, कलह उदरीरे^७ ऋणे नित्त-सा.
- सज्जन मुजन सुशील महत, वारे कलह स्वभावे सत- सा. ७

तेरमा अभ्याख्यान पापस्थानकनी सज्जाय.

अरणिक् मुनियर चाल्या गाचरो-प देशी

पापस्थानक ते तेरमुं उाडीए, अभ्याख्यान दुरतोजी,
अछना आळ जे परना उच्चर, दुःख पामे ते अनतोजी-

१ कमळो, २ मभाळ, ३ क्रोध करधानो टेंव, ४ भाडधानी टेंव, ५ घाद करधानो टेंव, ६ धमण (साधु)पणु, ७ जमावे,

- धन धन ते नर जे जिनमत धरे. १
- अछते दोष रे अभ्यारयान जे, करे न पूरे ठाणोजी,
ते ते दोषेरे तेहने दूषीए, इम भाखे जिनमाणो जी-ध. २
- जे बहु मुखरी^१ रे बळी मत्सरभर्या, अभ्याख्यानी ते होयजी,
पातक लागेरे अणकीवा सही, ते कीधुं सपि खोयजी-ध. ३
- मिथ्यामतिनी रे दश सज्ञा जिके, अभ्यारगानना भेदोजी,
गुण अवगुणनो र जे करे पालटो, ते पामे बहु खेदोजी-ध. ४
- परने दोष न अछता दीजीए, पीजीए जो जिनवाणीजी,
उपशमरसथुर जगमां भींजीए, कीजीए सुजरीकमाणीजी-ध. ५

चौदमा पैगुन्य पापस्थानकनी सज्झाय

शिरोहीमा शालु हो ध उपर योधपुरी-प देखी

पापस्थानक हो के चौदसु आकरु,
पिथुनपणानु^३ हो क व्यसन ठे अति बूरुं,
अशन^४ माननो हो के थुनक^५ कृतज्ञ^६ छे,
तेहथी भूंडो हो के पिथुन^७ लग्गे पछे. १
बहु उपकरीए हो के पिथुनने पर पर^८,
कलहनो दाता हो के होय ते उपरे,
दूधे धोयो हो के गायस^९ उजळो,
किम होये प्रकृते^{१०} हो के जे ठे शामळो. २

१ घाचाळ घोलका, २ इष्यांछु, ३ घाडी खावानु ४ खावानु
५ कृतज्ञो, ६ कर्म गुणना जाण, ७ खाडीयो, ८ करी करी, ९ काणडा,
१० स्वभाये

तिलहतिलक्षण^१ हो के नेह^२ ठे त्यां लगे,
 नेह विणहे^३ हो के खल^४ कहीए जगे,
 इम निःस्नेही हो के निर्दय हृदयथी,
 पिशुननी वार्त्ता हो के नरि जाये कथी. ३
 चाडी करता हो के वाडी गुणतणी,
 मुके चूके हो के ख्याति पुण्यतणी,
 कोइ नवी देसे हो के वदन पिशुनतणुं,
 निर्मळ कुळने हो के दीए ते कलंक घणुं. ४
 जिम सज्जनगुण हो के पिशुनने दूपीए,
 तिम तिणे सहेजे हो के त्रिभुवन भूपीए,
 भस्मे मांज्यो हो के दर्पण होय भलो,
 सुजश सवाड हो के सज्जन मुकुलतिलो^५.



पंदरमा रतिअरति पापस्थानकनी सज्ज्ञाय.

प्रथम गोवाळातणे भवेजी-ए देशी

जिहा रति^१ कोइक कारणेजी, अरति^२ तिहा पण होय,

पापस्थानक ते पंदरमुजी, तिणे ए एकज जोय

—सुगुण नर, समजो चित्तमोझार.

१

चित्त अरति रति पाखगुजी, ऊडे पखीरे नित्त,

पिंजर^३ शुद्ध समाधिमेंजी, वध्यो रहे ते मित्त-सु.

२

मनपासद^४ ऊडे नहिजी, पापी अरति रति आग,


तो हुए सिद्धि कल्याणनीजी, भावठ जाए भाग-सु.

३

रतिवशे अरति करीजी, भूतारथ होय जेह,

१ तलनु तलपणुं, २ सेल, ३ नाश पामे, ४ सोळ, ५ सारा
 कुळमा तिलक समान, ६ प्रीति, ७ अप्रीति, ८ पांजदं, ९ पारो.

तस विवेक आवे नहिजी, होय न दुःखनो ठेह-सु. ४
 न रति अरति छे वस्तुधीजी, ते उपजे मनमाहि,
 अंगज^१ बल्लभ सुत हुआजी, यूकादिक^२ नहि काहि-सु. ५
 मनकल्पित रति अरति ठे जी, नहीं स य पर्याय,
 नहीं तो वेची वस्तुमाजी, किम ते सपि मिट जाय ? सु. ६
 जेह अरति रति नवि गणेजी, सुख दु ख दोय समान,
 ते पामे जससपदाजी, वाये जग तस वान-सु. ७



सोळमा परपरिवाट पापस्थानकनी सज्झाय

साहेव वाहु जिणेसर धिनजु-ए देशी

सुदर पापस्थानक तजा सोळसु, परनिंदा असराळहो,
 सुंदर निदक जे मुखरी हुए, ते चौथो चडाळ हो सु. पा० १
 सुं. जेहने निंदानो ढाळ^३ ठे, तप किरिया तस फोक हो,
 सु. देव किञ्चिस^४ ते उपजे, ए फळ रोकारोक^५ हो सु पा० २
 सु. क्रोध अजीरण तपतणु, ज्ञानतणु अहंकारहो,
 सु. परनिंदा किरियातणु, वमन अजीर्ण आहार हो सु पा० ३
 सु. रूप न कोइनु धारीए, दाखीए निज निज रग हो,
 सु. तेहमा काह निंदा नहि, बोले बीजु अग हो सु. पा० ४
 सुं. निर्घ^६नो जेह स्वभाव ठे, तास कथन नवि निंद हो,
 सु नाम धरी जे निंदा करे, तेह महामतिभंद हो सु. पा० ५
 सु. एह कुशीलणी एम कहे, कोप हुए जेह भाख हो,
 सुं. तेह वचन निंदातणु, दश बैकालिक साख हो सु. पा० ६

१ अगधी उत्पन्न थयेलो, २ जू वगरे ३ देव, ४ चडाळ
 जातिना देव, ५ राकडे राकडु, ६ निर्घना योग्य (घस्तु)

- सुं. दोपनजरथी निंदा हुए, गुणनजरे हुए राग हो,
 सुं. जग सवि चाले मादल^१मढ्यो, सर्वगुणी वीतराग हो सुं. पा० ७
 सुं. निजमुख-कनककचोलडे, निंदरू परमल लेइ हो,
 सुं. जेह घणा पर गुण ग्रहे, संत ते विरला कोइ हो सुं. पा० ८
 सुं. परपरिवाद^२-व्यसन तजो, न करो निज उत्कर्ष^३ हो,
 सुं. पापकरम इम सवि टळे, पामे शुभ जस हर्ष हो सुं. पा० ९



सत्तरमा मायामृपावाद पापस्थानकनी सज्ज्ञाय

सखी चैतरज महोने चाल्या-प देशी

- सत्तरमु पापनु ठाम, परिहरजो सदगुणधाम,
 जिम वाये जगमा माम^४ हो लाल,
 पाषाणोस न कीजीए. १
 ए तो विपने वलीय वधार्युं, ए तो गह्वने अवळुं धार्युं,
 ए तो वायनु गाल वकार्युं हो लाल-माया. २
 ए तो मायो ने मोसावाद,
 यइ महोटा करेय ठगाइ,
 तस हेठे गइ चतुराट हो लाल-माया. ३
 बगला परे पगला भरता, थोडु बोले जाणे मरता^५,
 जगधरे घाले^६ फरता हो लाल-माया. ४
 जे कपटी बोले जूठ, तस लागे पाप अपूठ,
 पडितमा होये मुख भूठ हो लाल-माया. ५
 दभीनु जूठ मीठ, ते नारीचरित्रे दीठ,
 पण ते ठे दुर्गतिचीठुं हो लाल-माया. ६

१ ढाल २ पारकी निंदा, ३ प्रशंसा, वखाण, ४ महिमा, ५ मृपायादी, ६ मर्या पडिला, ७ माथु मारे

जे जूठो घे उपदेश, जनरजननो घर वेश,
 तेनो जूठो सरुल कलेश हो लाल-माया. ७
 नेणे त्रीजो मारग भाग्यो, वज निंदे दमे रारयो^१,
 शुद्धभापके शममुख चाव्यो हो लाल-माया ८
 जूठु बोली उदर जे भरवु, कपटीने वेशे फरवु,
 ते जमवारे श्रु करवु हो लाल-माया. ९
 पंडे जाणे तो पण दमे,
 मायामोसने अविक्र अचमे,
 ममकितदृष्टि मन थमे हो लाल-माया. १०
 श्रुतमर्यादा निरधारी, रक्षा मायामोस निवारी,
 शुद्धभापरुनी बलिहारी हो लाल-माया. ११
 जे मायाए जूठ न बोले,
 जग नहि कोइ तेहने तोले,
 ते राजे सुजस अमोले हो लाल-माया. १२



अढारमा मिथ्यात्वशल्य पापस्थानकनी सज्ज्ञाय

उत्तमर्त्विणी अवसर्त्विणी जारा-ए देशी

अढारसु जे पापनु धानरु, ते मिथ्यात्व परिहरीएजी,
 सत्तरथी पण ते एरु भारी, होए तुलाए^२ जो वरीएजी,
 ऋष्ट करो पर परे दमो अप्पा^३, धर्मअर्थ वन खरचोजी,
 पण मिथ्यात्व छते ते जूठु, तिणे तेहथी तुमे धिरचो^४जी. १
 किरिया करतो त्यजतो परिजन, दुःख सहतो मन रीझेजी,
 अघ न जीपे परनी सेना, तिम मिथ्यादृष्टि न सीझेजी,

१ दभवटे राखेल्या वेशज लोको निंदे २ घाचयामा, ३ आत्मा ४ अटको

वीरसेन रूरसेन दृष्टान्ते, समकितनी निर्युक्तेजी,
जोडने भली परे मन भावो, एह अरथ वर युक्तेजी. २

वम्मे अग्रम्मे^१ अधम्मे रम्मह^२, सन्ना मग उमगा^३जी,
उन्मार्गे मारगनी^४ मन्ना, माधु असाधु मंलग्गा^५जी,
असाधुमा साधुनी मति, जीये अजीव (अजीव) जीव वेदो^६जी,
मुत्ते अमुत्त^७ अमुत्ते मुत्तह^८, सन्ना^९ ए दग भेदोजी. ३

अभिग्रहिक^{१०} निज निज मते अभिग्रह, अनभिग्रहिक^{११} सहु सरिखाजी,
अभिनिवेशी^{१२} जाणतो कहे जूठे, करे न तत्वपरिख्खाजी,
संशय^{१३} ते जिनवचननी शंका, अव्यपते अनाभोगा^{१४}जी,
ए पण पांच भेद ठे विश्रुत,^{१५} जाणे नमजु लोगाजी. ४

लोक लोकोत्तर भेद ए पट्टविध,^{१६} देव र्म वली गुरु पर्वजी,
शक्ते तिहा लौकिक त्रण आदर, करता प्रथम निगर्वजी,

१ धर्मने अधर्म माने, २ अधर्मने धर्म माने, ३ खरा मार्गने खोटा मार्ग माने, ४ खोटा मार्गने खरो मार्ग माने, ५ साथे, ६ जाणे, ७ रूपीने अरूपी माने, ८ अरूपीने रूपी माने, ९ सज्ञा, जाणवुं ते, १० पोताना मतमा आग्रह राखे, ११ बधा धर्मने सारा माने, गोळ खोळ वे सुवर्ण लोहनी परीक्षा न करे, १२ सत्य मार्ग जाणे पण पोतानो आग्रह छोडे नहि, १३ जिनवचनमा शंका करे, १४ पेंद्रियादिकनी पेटे कइज समजे नहि, १५ प्रर्यात, १६ लौकिक देवगत मिथ्यात्व (कुदेषने सुदेव गतघा), लौकिक गुरुगत मिथ्यात्व (उगुरुने सुगुरु मानघा), लौकिक पर्यगत मिथ्यात्व (मिथ्यात्वोना होळी, उळेंत घगेरे पर्यने सुपर्य मानघा), लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व (धीतराग देयने आ लोकना सुखनी प्राप्तिनी इच्छाथी माने), लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व (निग्रथ सुगुरुनी सामारिक सुखनी इच्छाथी सेवा करे), लोकोत्तर पर्यगत मिथ्यात्व (ज्ञान पाचम, मौन अग्यारश घगेरे पर्यने आ लोकना सुखने माटे आराधे)

लोकोत्तर देव माने नीयाणे^१, गुर जे लक्षणहीनाजी,
 पर्वनिष्ठ इह लोरुने काजे, माने गुरपटलीनाजी. ८
 एम एकवीश मिथ्यात्व ल्यजे जे, भजे चरण गुरुकेराजी,
 सजे न पापे रजे न राखे, मत्सर द्रोह अनेराजी,
 समकितवारी श्रुतआचारी, तेहनी जग बलिहारीजी,
 शासन समकितने आरापे, तेहनी कुरो मनोहारीजी. ६
 मिथ्यात्व ते जग परम रोग ठे, बळीय महाअधकारोजी,
 परम शत्रु ने परम शत्रु ते, परम नरकसचारोजी,
 परम दोहग^३ने परम ऋद्रि ते, परम सकट ते कहीएजी,
 परम कतार^४ परम दुर्भिक्ष^५ते, ते छाडे सुख लहीएजी. ७
 जे मिथ्यात्व लवलेस न राखे, श्रुद्धो मारग भाखेजी,
 ते समकित सुस्तरु फळ चाखे, रहे वळी अणीए आखे^६जी,
 महोटाइ शी होय ? गुणपाखे, गुण प्रभु समकित दाखेजी,
 श्री नयविजय विबुध पय सेवक, वाचक जस इम भाखे जी. ८

श्री अठार पापस्थानरुनी सज्ज्ञाय संपूर्ण.



१ सुखप्राप्तिनी इच्छा, २ नरके जवु, ३ दुर्भाग्य, ४ अटवो,
 ५ दुष्काल ६ अणीशुद्ध

११ श्री समकितना सदसठ बोलनी सज्जाय.



दूहा.

मुकृत बलि कादंबिनी, समरी सरस्वती मात,
समकित सदसठ बोलनी, कहीशु मधुरी वात. १
समकितदायक गुरुतणो, पच्चुवचार न थाय,
भव कोडाकोडे करी, करता सर्व उपाय. २
दानादिक किरिया न टिये, समकित विण शिवशर्म,
ते माटे समकित वडुं, जाणो प्रचनमर्म. ३
दर्शनमोहविनाशथी, जे निर्मल गुणठाण,
ते निश्चय समकित काहुं, तेहनां ए अहिठाण. ४

दाळ पट्टेली धीरजिनेश्वर उपदिशे ए देशी
चउ सदहणा तिलिङ्ग ठे, दशविष विनय विचारोरे,
त्रण शुद्धि पण दूपण, आठ प्रभायक धारो रे. ५

हरिगीत छंद

प्रभावरु अड पञ्च भूपण, पञ्च लक्षण जाणीए,
पट जयण पट आगार भावना, छविहा मन आणीए,
पट ठाण समकिततणा सदसठ, भेद एह उदार ए,
एहनो तच्चविचार करतां, लहीजे भवपार ए. ६

दाळ

चउविह सदहणा तिहा, जीवादिक परमत्यो र,
प्रचवनमाहि जे भाखिया, लीजे तेहनो अत्यो रे. ७

हरिगीत छंद

तेहनो अर्थ विचारीए, ए प्रथम सदहणा सरी,
धीजी सदहणा तेहना जे, जाण मुनि गुण जयहरी;

संयोग रग तरंग शीले, मार्ग शुद्ध कहे बुधा,
तेहनी सेवा कीजीए जिम, पीजीए समतामुधा. ८

ढाळ

समकित जेणे ग्रही चम्यु, निह्य ने अहाछन्दा रे,
पासत्या ने कुशीलिया, वेपविडवफ मदा रे. ९

हरिगीत छद

मंदा अनापी दूरे उडो, त्रीजी सदहणा ग्रही,
परदर्शनीनो सग तजीए, चोथी सदहणा कही,
हीणातणो जे सग न तजे, तेहनो गुण नवि रह,
ज्युं जलधिजलमा भल्यु गगा,—नीर ल्णपणु लहे. १०

ढाळ २

जयुद्धीपना भरतमा रे प देशी

रण लिंग समकिततणा र, पहलो श्रुतअभिलाप,
जेहथी श्रोता रस लहे रे, जेरो साकर द्राख र—
माणो वरीए समकित रग, जिम लहीए मुख
अभंगरे, माणी० ११

तरुण मुखी स्त्रीपरिवर्यो र, चतुर मुणे सुरगीत,
तेहथी रागे अति घणे रे, धर्म मुण्यानी रीतर, प्रा० १२

भूख्यो अटवी उतर्यो रे, जिम द्विज घेवर चग,
इच्छे तिम जे यमने रे, तेहिज त्रीजु लिंग र, प्रा० १३

वेयावच गुरु देवनु र, त्रीजु लिंग उदार,
विद्यासाधक पर करे र, आलस नविय लगाररे, प्रा० १४

ढाळ ३

समकितनु मूल जाणीप जी प देशी

अरिहंत ते जिन विचरताजी, कर्म खपी हुआ सिद्ध,

चेइय जिनपडिमा कही जी, सूत्र सिद्धात प्रसिद्ध-
चतुर नर, समजो विनयप्रकार, जिम लहीए समकित

सार-चतुर० १५

धर्म खिमादिक भाखियो जी, साधु तेहना रे गेह,
आचारज आचारना जी,—दायरु नायरु जेह चतुर० १६

उपाध्याय ते शिष्यने जी, सूत्र भणायणहार,
प्रवचन संघ वखाणीए जी, दरिसण समकित सार, च० १७

भगति गाय प्रतिपत्तिथी जी, हृदयमेम बहुमान,
गुणधुति अवगुण ढाकरा जी, आशातननी हाण. च० १८

पाच भेदे ए दशतणो जी, विनय कर अनुकूल,
सींचे तेह सुधारसेजी, वर्म वृक्षनु मल-चतुर० १९

ढाळ ४ धोवोडा तु धोजे मननु धोतीयु रे ए देशी
रण शुद्धि समकिततणीरे, तिहा पहिली मन शुद्धिर,
श्रीजिन ने जिनमत विना रे, जूठ सकल ए बुद्धि रे-
चतुर विचारो चित्तमा रे. २०

जिनभगते जे नवि थयुं रे, ते वीजाधी केंप थाय रे ?
एयु जे सुरे भाखीए रे, तेनी वचनशुद्धि कहेवाय रे-च० २१

उद्यो भेद्यो वेदनारे, जे सहेता अनेक प्रकार रे,
जिन विण पर सुर नवि नमे रे, तेहनी काया शुद्धि उदार
रे-चतुर० २२

ढाळ ५

कडवा फळ उे क्षोधना ए देशी

समकितदूपण परिहरो, जेहमा पहिली उे शकार,
ते जिनवचनमा मत करो, जेहने सम नृप रकार-
समकितदूपण परिहरो.

२३

कंखा कुमतनी वाछना, वीजु दूपण तजीए, पामी सुरतरु परगढो, किम वाउल भजीए ? स०	२४
सशय धर्मना फळतणो, वितिगिच्छा नामे, त्रीजु दूपण परिहरो, निज शुभ परिणामे. सम०	२५
'मिथ्यामति गुण वर्णनो, टाळो चोथो दोष, उनमारगी युणता हुवे, उनमारगपोप सम०	२६
पाचमो दोष मिथ्यामति,--परिचय नवि कीजे, इम शुभ मति अरविंदनी, भली वासना लीजे. स०	२७

टाळ ६

अभिनदन जिन दरिमण तरसीए ए देशी

आठ प्रभावक प्रवचनना कथा, पावयणी धुरि जाण, वर्तमान श्रुतना जे अर्थनो, पार लहे गुणखाण- धन धन शासन मडन मुनियरा.	२८
धर्मरुथी ते वीजो जाणीए, नटिपेण पर जेह, निज उपदेशे रे रजे लोको, भजे हृदयमदेह. ध०	२९
वादी वीजो रे तर्कनिपुण भण्यो, मल्लवादी पर जेह, राजद्वारे जयरुमळा वरे, गाजंतो जिम मेह. ध०	३०
भद्रनाहु परे जेह निमित्त कहे, परमत जीपण काज, तेह निमित्तीर चोथो जाणीए, श्रीजिनशासनराज. ध०	३१
तप गुण ओपे रे रोपे धर्मने, गोपे नवि जिनआण, आस्रव लोपर नवि कोपे कदा, पश्चम तपसी ते जाण.ध०	३२
छठो विद्या र मत्रतणो उलि, जिम श्री वयर मुणिंद, सिद्ध सातमो रे अञ्जनयोगथी, जिम कालिक मुनि- चद, ध०	३३

काव्य सुधारस मधुर अर्थ भर्या, धर्महेतु करे जेह,
 सिद्धसेन परे राजा रीझवे, अट्टम वर कवि तेह. ४० ३४
 जय नवि होवे प्रभावक एहवा, तव निधिपूर्व अनेक,
 जात्रा पूनादिक करणी करे, तेह प्रभावक छेक. ध. ३५

ढाळ ७

सतीय सुभद्रानी देशी

सोहे समकित जेहथी, सखी जिम आभरणे देह;
 भूषण पांच ते मन वस्या, सखी मन वस्यां तेहमां
 नहीं सदेह, गुज समकितरग अचळ होजेरे. ३६
 पहिलं कुशलपणुं तिहा, सखी मंदन ने पञ्चरकाण,
 किरियानो विवि अति घणो, सखी अति घणो आचरे
 तेह सुजाण. गुज० ३७

बीजुं तीरथसेवना, सखी तीरथ तारे जेह,
 ते गीतारथ मुनिवरा, सखी तेहथुं कीजे नेह. गुज० ३८
 भगति करे गुरुदेवनी, सखी त्रीजु भूषण होय,
 किणहि चलाव्यो नवि चले, सची चोयु ए भूषण
 जोय. गुज० ३९

जिनशासनअनुमोदना, सखी जेहथी बहु जन हुत,
 कीजे तेह प्रभावना, सखी पाचमुं भूषण खत ४०

ढाळ ८

धर्मजिनेश्वर गाठ रगशु प देशी

लक्षण पाच कथा समकिततणां, धुर उपशम
 अनुकूल, सुगुण नर,
 अपराधीशु पण नवि चित्तथकी, चितवीए प्रतिकूल
 सुगुणनर, श्री जिनभापित वचन विचारीए. ४१

मुरनरमुख जे दुःखकरी लेखने, वठे शिवमुख एक, सु०
 वीजु लक्षण ते अगीकर, सार सवेगशु टेक सु० श्री. ४२
 नारक चारक सम भवज्जभग्यो तारक जाणीने वर्म. सु०
 चाहे निरुल्लुं निर्वद ते, वीजु लक्षणमर्म, सु० श्री. ४३
 द्रव्ययकी दुःखियानी जे दया, र्महीणानी र भाव्य, सु०
 चौधु लक्षण अनुकपा कही, निज शकते मन लाव्य, सु० श्री ४४
 जे जिनभारयु ते नहि अन्यथा, एहवो जे हठ रग, सु०
 ते आस्तिकता लक्षण पाचमु, कर कुमतिनो ए
 भ० सु० श्री. ४५

ढाळ ९

श्रीजे भय घर स्यानधतप करी ए देशी
 परतीरथी परना सुर तेणे, चैत्य ग्रथा वली जेह,
 वटन प्रमुख तिहा नवि करवु, ते जयणा पट भेयर-
 भविका, समकितयतना कीजे. ४६
 वटन ते करयोजन कहीए, नमन ते शीश नमावे,
 दान शष्ट अन्नादिक देवु, गोरव भगति देखावे
 र भ० स० ४७
 अनुप्रदान ते तेहने कहीए, वार वार जे दान,
 टोप कुपात्रे पात्रमतिए, नहि अनुरूपा मानरे भ० स० ४८
 अणवोलाने जेह बोलु, ते कहीए आलाप,
 वार वार आलाप जे करवो, ते जाणो सलापरें भ० स० ४९
 ए जयणाथी समकित दीपे, वली टीपे व्यनहार,
 एमा पण कारणाथी जयणा, तेहना अनेक प्रकार
 र भ० स० ५०

टाळ १०

ललनानी देशी

शुद्ध धर्मथी नवि चले, अति दृढ गुण आधार ललना,
तो पण जे नहि ऐहवा, तेहने ए आगार ललना- ५१
बोल्हुं तेह्नुं पाळीए, दतीदतसम पोल ललना,
सज्जन ने दुर्जनतणा, कळप कोटिने तोल ललना. बो० ५२
राजा नगरादिक धणी, तस शासनअभियोग ललना,
तेहथी कार्त्तिकरुनी परे, नहि मिऱ्यात्व सयोग ललना. बो० ५३
मेलो जननो गण कद्यो, बलचोरादिक जाण ललना,
क्षेत्रपालादिक देवता, तातादिक गुरुठाण ललना. बो० ५४
वृत्ति दुर्लभ आजोविका, ते भीषणकातार ललना,
ते हेते दूपण नहीं, करता अन्य आचार ललना. बो० ५५

टाळ ११

राग मल्हार

पाच पोथी रे ठयणी पाठा त्रिटागणा ए देशी
भावीजे रे समकित जेहथी एअडु,
ते भावना रे भावो करी मन परवटुं,
जो समकित रे ताजुं साजुं मूल रे,
तो प्रततरु रे, दीए शिषफळ अनुकूल रे. ५६

हरिगीत छंद

अनुकूल मूल रसाळ समकित, तेह विण मतिअध ए,
जे करे किरिया गर्वभरिया, तेह जूठो धंध ए,
ए प्रथम भावन गुणे रुढी, सुणो वीजी भावना,
वारणु समकितधर्मपुरनुं, एहवी ते पावना. ५७

त्रीजी भावना र समकितपीठ जो दृढ ग्रही,
तो मोटो रे अर्धमासाद ढगे नहीं,
पाये खोटे रे मोटे मडाण न शोभीए,
तेणे कारण रे समकितथु चित्त थोभीए. ५८

हरिगीत छंद

योभीए चित्त नित एम भावी, चोथी भावना भावीए,
समकित निधान समस्त गुणनु एहत्तु मन लावीए,
ते विना दृष्टा रत्न सरिखा मूल उत्तर गुण सबै,
किम रहे ताके जेह हरवा, चोरजोर भवे भये. ५९

ढाळ

भावो पचमी रे भावना शम दम साररे,
पृथ्वी पर रे समकित नस आधार रे,
उट्टी भावना रे समकितभाजन जो मळे,
श्रुत शीलनो रे तो रम तेहमाथी नवि ढळे. ६०

हरिगीत छंद

नवि ढळे समकितभाजनो रस, अभियसम सवरतणो,
पट भावना ए कही एहमा, करो आदर अति घणो,
इम भावता परमार्थ जलनिधि, होय नित्य शकशोल ए,
घन पवन पुण्य प्रमाण प्रगट, चिदानदकल्लोल ए. ६१

ढाळ १२

मगळ आट करो जस आगळ ष देशी

ठरे जिहा समकित ते थानरु, तेहना पटविध कहीएरे,
तिहा पहिलु थानरु ठे चेतन, लक्षण आत्म लहीएरे,

खीरनीरपरे पुद्गलमिश्रित, पण एहथी ठे अळगोरें,
अनुभव हंसचचु जो लागे, तो नहि दीसे वळगो रे. ६२

वीजुं थानक नित्य आतमा, जे अनुभूत सभारे रे,
वाळकने स्तनपानवासना, पूरव भव अनुसारे रे,
देव मनुज नरकादिक तेहना छे अनित्य पर्यायो रे,
द्रव्यधकी अत्रिचलित अखडित, निज गुण आतमरायारे. ६३

त्रीजुं स्थानक चेतन कर्त्ता, कर्मतणे ठे योगे रे,
कुंभकार जिम कुंभतणो जग, दंडादिकसंयोगे रे,
निश्चयथी निज गुणनो कर्त्ता, अनुपचरित व्यवहारे रे,
द्रव्यकर्मनो नगरादिकनो, ते उपचार प्रकारे रे. ६४

चोयु थानक चेतन भोक्ता, पुण्य पाप फळकोगे रे,
व्यवहारे निश्चय नय दृष्टे भुजे निज गुण नेरो रे,
पाचसु थानक अठे परम पद, अचल अनत सुखवासो रे,
आधि व्याधि तन मनथी लहीए, तस अभाषे सुख
खासो रे. ६५

छट्टु थानक मोक्षतणु ठे, सजम ज्ञान उपायो रे,
जो सहजे लहीए तो सधळे, कारण निष्फळ थायो रे,
कहे ज्ञाननय ज्ञानज साचु, ते विण जूठी किरिया रे,
न लहे रूपु रूपु जाणो, सीपभणी जे फरिया रे. ६६

कहे किरियानय किरिया विण जे, ज्ञान तेह श्रुं करशे रे ?
जळ पेसी कर पट न हलावे, तारु ते किम तरशे रे ?
दूषण भूषण ठे इहां प्रहोळां, नय एकेकने वादे रे,
स्मिद्धांती ते वेहु पत्तु ससधे, ज्ञानवत अग्रमादेरे. ६७

इणि पर सडसठ बोल विचारी, जे समकित आराहेरे,
 राग द्वेष टाळी मन बाळी, ते समसुख अवगाहरे,
 जेहनु मन समकितमा निश्चल, कोइ नहीं तस तोले रे,
 श्री नयविजय विबुध पय सेवक, वाचकजस डम बोलेर. ६८

इति श्री सम्यक्तवना सडसठ गोलनी सज्जाय सपूर्ण.

१३ यति धर्म बत्रिशी

दोहरा

भावयति तेने कहो, ज्या दशविध यतिधर्म,	१
कपटक्रियामा म्हालता, महीया वाये कर्म.	
लौकिक लोकोत्तर क्षमा, दुविध कही भगवत,	२
तेहमा लोकोत्तर क्षमा, प्रथम धर्म ठे तत.	
वचन धर्म नामे कळो, तेहना पण उहु भेद,	३
आगमवचणे जे क्षमा, तेह प्रथम अपखेद.	
धर्म क्षमा निज सहजथी, चदम गध प्रकार,	४
निरतिचार ते जाणीए, प्रथम सूक्ष्म अतिचार	
उपकारे अपकारथी, लौकिक वळी मित्राग,	५
बहु अतिचार भरी क्षमा, नहि सयमने लाग.	
वार कपाये क्षय करी, जे मुनि धर्म लहाय,	६
वचन धर्म नामे क्षमा, जे बहु तिहा कहाय.	
महव अज्जव मुक्ति तव, पच भेद एम जाण,	७
त्या पण भावनियठने, चरम भेद प्रमाण.	
इह लोकादिक कामना, विण अणसण मुख जाण,	८
शुद्ध निर्जरा फळ कळो, तप शिवसुखसयोग.	

- आश्रयद्वारने रुवीए, इन्द्रिय टंड कपाय,
सत्तर भेद संयम कहौ, एहिज मोक्षउपाय. ९
- सत्य सून अविरुद्ध जे, वचन विवेक विशुद्ध,
आलोयण जळ शुद्धता, शौच वर्म अविरुद्ध. १०
- खग उपाय मनमे ररे वर्मोपगरण जेह,
परजित उपधि न आठरे, भावअकिंचन तेह. ११
- शील विषय मन वृत्ति जे, प्रह्न तेह सुपवित्त,
होय अनुत्तरदेवने, विषय त्यागनो चित्त. १२
- ए दशवित्र यतिवर्म जे, आरावे नित्यमेत्र,
मूळ उत्तर गुण यतनधी, तेहनी कीजे सेव. १३
- अतर जतना विण किश्यो, वाढक्रियानो लाग १
केवल कचुकि परिहर, निर्विष हुए न नाग. १४
- दोपरहित आहार ल्ये, मनमा गारव राखी,
ते केवल आजीविका, मूयगडागनी साखी. १५
- नाम धरावे चरणनु, विगम चरण गुणखाण,
पापश्रमण ते जाणीए, उत्तराभयन प्रमाण. १६
- शुद्ध क्रिया न करी अके, तो तु शुभु भाख,
शुद्ध प्ररूपक होइ करी, जिनशासनस्थिति राख. १७
- उसन्नो पण करमरज, टाळे पाळे बोध,
चरण करण अनुमोदता, गच्छाचारे शोध. १८
- हीणो पण ज्ञाने अत्रिक, मुठर मुरचि विशाळ,
अल्पागम मुनि नहि भलो, बोले उपदेशमाळ. १९
- ज्ञानवतने केळवी, द्रव्यादिक अहि नाण,
वृहत् कल्प भापे वळी, सरसा भाप्या जाण. २०
- ज्ञानादिक गुण मन्ठरी, कष्ट करे ते फोरु,
ग्रथिभेद पण तस नहीं, भूले भोळा लोक. २१

- ज्यों जोहार जवेहरी, ज्ञाने ज्ञानी तेम,
हीनाधिक जाणे चतुर, मूरख जाणे केम १ २२
- आदर कीधे तेहने, उमारग थिर होय,
बाह्यक्रिया मत राचजो, पचाशक अउलौय. २३
- जेहथी मारग पामीयो, तेहने सामो थाय,
प्रतनीक ते पापीयो, निश्चय नरके जाय. २४
- सुंदर बुद्धिपणे कर्यो, सुंदर सरय न थाय,
ज्ञानादिक वचने करी, मारग चाल्यो जाय. २५
- ज्ञानादिक वचने रह्या, साथे जे शिवपथ,
आतमज्ञाने ऊजळो, ते हू भावनिग्रंथ. २६
- निंदक निश्च नारकी बाह्यरुचि मतिअध,
आतमज्ञाने जे रमे, तेहने तो नहि बय. २७
- आतमसाखे धर्म जे, त्या जननु शु काम १
जन मन रजन धर्मतुं, मूल न एरु वदाम. २८
- जग्या जन ठे बहु सुखी, रुचि नहीं को एरु,
निज हित होय तिम कीजीए, ग्रही प्रतिज्ञा टेक. २९
- दूर रही जे विषयथी, कीजे श्रुतअभ्यास,
सगति कीजे सतनी, हुइए तेहना दास. ३०
- समतामें लय लाइए, वरी अ यातमरग,
निंदा तजीए परतणी, भजीए सपयचग. ३१
- वाचक यशविजये कही, ए मुनिने हितवात,
एह भाव जे मुनि धर, ते पाये शिषसात. ३२

इति संयम वत्रिगी सपूर्ण.

१४ श्रीचिदानंदजी कृत परमात्म छत्रिशी.

दृष्टा

- परम देव परमात्मा, परम ज्योति जगदीस,
परम भाव उर आनके, प्रणमत हुं निस दीस १
- एक ज्यु चेतन द्रव्य हे, तामें तीन प्रकार,
वहिरातम अंतर कद्यो, परमातम पद सार. २
- वहिरातम ताकुं कहे, लखे न ब्रह्मस्वरूप,
मगन रहे पर द्रव्य हे मिथ्यावत अनुप. ३
- अंतर आतम जीव सो, सम्यग्दृष्टि होय,
चोथे अरु फुनि वारमे, गुणधानरु लो सोय. ४
- परमातम पद ब्रह्मरुो, प्रगटयो शुद्ध स्वभाव,
लोकालोरु प्रमाण सर, झळके तिनमें आय. ५
- वहिर आतम भाव तज, अतर-आतम होय,
परमातमपद भजतु हे, परमातम वहे सोय. ६
- परमातम सोड आतमा, अवर न दूजो कोय,
परमातमकुं ध्यावते, एह परमातम होय. ७
- परमातम एह ब्रह्म हे, परम ज्योति जगदीस,
परसु भिन्न निहारीए, जोइ अलख सोइ इस. ८
- जे परमातम सिद्धमें, सोही आतम माहि,
मोह मयल दग लग रक्षो, तामें मूजत नांहि. ९
- मोह मयल रागादिके, जा जिन कीजे नास,
ता ठिन एह परमातमा, आपही लहे प्रकास. १०

- आतम सो परमातमा, परमातम सोइ सिद्ध,
विचकी दुविधा मिट गड, प्रगट भट निज रिद्ध. ११
- मेंहि सिद्ध परमातमा, मेंहि आतमराम,
मेंहि भ्याता भ्येयको, चेतन मेरो नाम. १२
- मेंहि अनंत सुखको वनी, मुखमें मोहि सोहाय,
अविनाशी आनन्दमय, सोह त्रिभुवनराय. १३
- शुद्ध हमारो रूप हे, शोभित सिद्धसमान,
गुण अनत करी सयुत, चिदानन्दभगवान. १४
- जेसो शिवपे तहि वसे, तेसो या तनमाहि,
निश्चयदृष्टि निहारता, फेर रच कछु नाहि १५
- करमनके सजोगत, भए तीन प्रकार,
एऊ आतमा द्रव्यकु, कर्म नटावणहार. १६
- कर्मसघाते अनादिके, जोर न कछु उसाय,
पाड कला विपेककी, रागद्वेष छिन जाय. १७
- करमनकी जर राग ह, राग जर जर जाय,
परम होत परमातमा, भाड सुगम उपाय १८
- काहेकु भटन्त फिरे ? सिद्ध होनेके काज,
राग द्वेषकु त्याग दे, भाड सुगम डलाज. १९
- परमातमपदको धनी, रक भयो गिल लाय,
राग द्वेषकी प्रीति सौं, जनम अकारथ जाय २०
- राग द्वेषकी प्रीति तुम, भूले करो जन रच
परमातमपद ढारुके, तुमहि नियो तिरयच. २१
- तप जप सजम सत्र भले, राग द्वेष जो नाहि,
राग द्वेषके जागते, ए सत्र भए जाहि. २२

- राग द्वेषके नासते, परमात्मपरकास,
राग द्वेषके भासते, परमात्मपदनास. २३
- जो परमात्मपद चहे, तो तुं राग निवार,
देखी सजोग सामीको, अपने हिये प्रिचार. २४
- लाख घातकी रात यह, तोकुं देइ बताय,
जो परमात्मपद चहे, राग द्वेष तज भाय. २५
- राग द्वेष त्यागे विनु, परमात्मपद नाहि,
कोटि कोटि तप जप करे, सब अकारथ जाय. २६
- दोष आत्मकु यह, राग द्वेषको संग,
जैसे पास मजिठमें, बख ओरहि रग. २७
- तेसे आत्मद्रव्यकु, राग द्वेषके पास,
कर्मरंग लागत रहे, कैसे लहे प्रकास ? २८
- इण करमनको जीतवो, रुठिन रात हे वीर,
जर खोदे विनु नहि मिटे, दुष्ट जात बे पीर. २९
- लछो पत्तोके किये, ए मिटवेके नाहि,
ध्यानअग्नि परकाशके, होम देहि ते माहि. ३०
- ज्युं दारुके गजकु, नर नहि शके उठाय,
तनक आग सजोग ते, छिन एकमें उड जाय. ३१
- देहसहित परमात्मा, एह अचरीजकी घात,
राग द्वेषके त्यागते, कर्मशक्ति जरी जात ३२
- परमात्मके भेद छय, निकल सकल परमान,
सुख अनंतमें एकसे, कहैवेके द्रव्यथान. ३३
- भाइ एह परमात्मा, सो हे तुममें याहि,
अपनी शक्ति संभारके, लिखावत दे ताहि. ३४

राग द्वेपकुं त्यागके, धरी परमात्मभ्यान, यु पावे सुर शाश्वत, भाइ इम कल्यान.	३५
परमात्म छत्रिसीको, पढियो प्रीति सभार, चिदानन्द तुम प्रति लिखी, आत्मके उद्धार.	३६

१५ क्षमा छत्रिशी



आदर जीव क्षमा गुण आदर, म करीश राग ने द्वेपजी, समताए शिवसुर पामीजे, कोवे कुगति विशेषजी.	आ० १
समता सजमसार मुणीजे, कल्पमूननी सारोजी, क्रोध पूर्व कोडि चारित्र वाळे, भगवत एणी पेरे भारोजी.	आ० २
कुण कोण जीव तर्या उपशमथी ? साभळ तु दृष्टांतजी, कुण कोण जीव भम्या भवमाहे ? क्रोयतणे विरततजी	आ० ३
सोमल ससरे शीश प्रजाळयो, वाधी माटोनी पाळजी, गजमुकुमाळ क्षमा मन धरतो, मुक्ति गयो ततकाळजी.	आ० ४
कुळवाळओ साधु कहातो, कीधो क्रोध अपारजी, कोणिकनी गणिका वश पढियो, रडवढियो ससारजी	आ० ५
सोवनकार करी अति वेदन, याध्रमु रीट्यु शीशजी, मेतारज मुनि मुगति पहोत्यो, उपशम एह जगीशजी.	आ० ६
कुरड अकुरड बे साधु कहाता, रद्या कुणाला खाळजी, क्रोध करी कुगते ते पहोत्या, जनम गमायो आळजी.	आ० ७
कर्म खपावी मुगते पहोता, रथक मूरिना शिष्यजी, पालक पापीए घाणी पील्या, नाणी मनमा रीशजी.	आ० ८

- अच्चंकारी नारी अछंकी, तोड्यो पियुशु नेहजी,
वड्वरकुळ सतां दुःख व्होळां, क्रोधतणां फळ एहजी. आ० ९
- वाघणे सर्व शरीर वळ्युं, तत्क्षण छोड्या प्राणजी,
साधु सुकोशळ शिवसुख पाम्या, एह क्षमागुण जाणजी. आ० १०
- कुण चडाल फहीजे विहुमें ? निरती नहि करे देवजी,
रुपि चंडाल कही जे वढतो, टाळे वेढनी टेंजजी. आ० ११
- सातमी नरके गयो ते ब्रह्मदत्त, ऋाढी ब्राह्मणआखजी,
क्रोधतणां फळ कडवां जाणी, रागद्वेष द्यो नांखजी. आ० १२
- खंडकरुपिनी खाल उतारी, सद्यो परिसह जेणजी,
गरभवासनां दुःखथी छट्यो, सवळ क्षमागुण तेणजी. आ० १३
- क्रोध करी खंडकआचारज, हुओ अग्निकुमारजी,
दंडकनृपनो देश प्रजाळ्यो, भमशे भवहमझारजी. आ० १४
- चंडरुद्रआचारज चलता, मस्तक दीध प्रहारजी,
क्षमा करंतां केवळ पाम्यो, नवदीक्षित अणगारजी. आ० १५
- पाच वार रुपिने संताप्यो, आणी मनमा द्वेषजी,
पच भवसीम दह्यो नदनादिक, क्रोधतणां फळ देखजी. आ० १६
- सागरचंदनुं शीश प्रजाळी, निशि नभसेननरिदजी,
समताभाव धरी सुरलोके, पुहुतो परमानंदजी. आ० १७
- चदना गुरुणीए घणु निभ्रछी, धिम् धिक् तुज आचारजी,
मृगावती केरळसिरि पामी, एह क्षमाअधिकारजी. आ० १८
- सांव प्रद्युम्न कुमारे सताप्यो, कृष्ण द्विपायन साहजी;
क्रोध करी तपनु फळ हार्यो, कीधो छारिकादाहजी. आ० १९
- भरतने मारण मूठी उपाडी, राहुवळ वळवंतजी,
उपशमरस मनमांहि आणी, संजम ले मतिमंतजी. आ० २०

- काउसगमा चडियो अति क्रोधे, प्रसनचद्र रुपिरायजी,
सातमी नरकतणा दळ मेळ्या, कडुआ तेणे कपायजी. आ० २१
- आहारमांहे क्रोधे रुपि धूक्यो, आण्यो अमृतभायजी,
कूरगड्ढ केरळ पाम्यु, क्षमातणे परभावजी आ० २०
- पार्श्वनाथने उपसर्ग कीधा, कमठ भरातर धीठजी,
नरक तिर्यचतणा दुःख लाधा, प्रोधतणा फळ दीठजी. आ० २३
- क्षमावत दमदत मुनीश्वर, वनगा रघो काउस्सगजी,
कौरवकटक हण्यो इटाळे, त्रोड्या कर्मना रगजी. आ० २४
- सज्यापाळक काने तरओ, नाम्यो क्रोधउदोरजी,
विहु काने खीला ठोफाणा, नवि छटा महावीरजी. आ० २५
- चार हत्यानो कारक हुतो, दृढप्रहारी अतिरेकजी,
क्षमा करीने मुक्ति पहीत्यो, उपसर्ग सही अनेकजी. आ० २६
- पोहोरमाहे उपजतो हार्यो, क्रोत्रे कवळनाणजी,
देखो श्री दमसार मुनीश्वर, मूत्र गुण्यो उट्टाणजी. आ० २७
- सिंहगुफावासीरुपि कीधो, धूलिभद्रउपर कोपजी,
वेश्यावचने गयो नेपाळे, कीधो सजमलोपजी आ० २८
- चद्रावतंसक काउसग रहियो, क्षमातणो भडारजी,
दासी तेल भर्यो निशि दीवो, सुरपदवी लही सारजी. आ० २९
- एम अनेक तर्या त्रिभुवनमें, क्षमागुणे भवि जीवजी,
क्रोध करी कुगते ते पहीत्या, पाडता मुखरीवजी. आ० ३०
- विप हलाहल कहीए विरओ, ते मार एक चारजी,
पण कपाय अनती वेजा, आपे मरण अपारजी. आ० ३१
- क्रोध करता तप जप कीधा, न पडे काइ टामजी,
आप तपे परने सतापे, क्रोधशु केहो कामजी ? आ० ३२

क्षमा करंतां खरच न लागे, भागे कोट क्लेश जी;
 अरिहत देव आराधक धावे, व्याप सुयश प्रदेशजी. आ० ३३
 नगरमाहे नागौर नगीनो, ज्या जिनरग्रामादजी,
 श्रावकलोक वसे भति मृत्तीया, धर्मतणे प्रमादजी. आ० ३४
 क्षमछत्रिणी ग्यांते की गी, आत्म पर उपकारजो,
 माभयनां श्रावक पण समज्या, उपशम यथो अपारजी. आ० ३५
 जुगप्रदान जिणचंद्र मुरीश्वर, सरुचंद्र तमु शिष्यजी,
 समयसुदर तमु गिप्य भणे णम, चतुर्विध संजगीसजी. आ० ३६


१६ अथ पद्मावती आराधना प्रारंभ.

द्वे गणी पद्मावती, जीवराशि गमाने,
 जाणपणु जुगतें भद्रु, उण वेळा आय— १
 ते मृज मिच्छामि दुःखद, अरिहतनी मास,
 जे में जीव विराधिया, चउराशी लाख. ते० २
 सात लाख पृथिवीतणा, माते अपकाय
 सात लाख तैउकायना, माते गी पाय ते० ३
 दश प्रत्येक वनस्पति, चउदद साधार,
 रि ति चउरिंदी जीवना, वे वे लाख विचार. ते० ४
 देवता निर्धच नास्की, चार चार प्रकाशी,
 चउदह लाख मनुष्यना, ए लाख चोगाणी. ते० ५
 इण भर परभों सेरिया, जे पाप अदार,
 त्रिद्वि त्रिविध फणे परिहर, दुर्गतिता दानार. ते० ६

- हिंसा कीधी जीयनी, बोल्या मृपापाद,
टोप अदत्तादानना, मैयुनउन्माद. ते० ७
- परिग्रह मेळयो कारमो, कीधी क्रोध विशेष,
मान माया लोभ में कीया, बळी राग ने द्वेष ते० ८
- कलह करी जीन दूहव्या, दीया कूडा कलंक,
निंदा कीधी पारकी, रति अरति निशक. ते० ९
- चाढी कीधी चोतरे, कीधी थापणमोसो,
कुगुर कुदेव कुधर्मनो, भलो आण्यो भरोसो. ते० १०
- खाटकीने भये में कीया, जीव नानाविध घात,
बडीमारभवे चरकला, मार्याँ दिन रात. ते० ११
- काजी मुल्लाने भये, पढी मत्र कठोर,
जीव अनेक जन्मे कीया, कीधा पाप अघोर. ते० १२
- माळीने भवे माछला, जाळ्या जळ्यास,
धीवर भील कोळी भये, मृग पाळ्या पास. ते० १३
- कोट्याळने भये में कीया, आकरा कर दड,
बडीपान मरावीया, कोरडा छडी दड. ते० १४
- परमाधामीने भवे, दीधा नारकी दु.ख,
उदन भेदन वेदना ताडन आत तिकख. ते० १५
- कुंभारने भर में कीया, नीभाड पचाव्या,
तेलीभये तिल पीलिया, पापे पिंड भराव्या. ते० १६
- हालीभये हळ खेडीया, फाळ्या पृथ्वीना पेट,
मूड निदान घणा कीया, दीवा बळद चपट. ते० १७
- माळीने भये रोपिया, नानाविध वृक्ष,
मूळ पत्र फळ फूलना, लाग्या पाप ते लक्ष ते० १८

- अधोवाइआने भव, भर्षा अविका भार,
पोठीपुंठे कीडा पड्या, दया नाणी लगार. ते० १९
- ठीपाने भवे छेतर्षा, कीया रगण पाम,
अग्निआरभ कीधा घणा, शतुर्नाद अभ्यास. ते० २०
- शूरपणे रण श्रद्धता, मार्या माणसट्ट,
मदिरा मांस माखण भरया, खाधा मूळ ने फद. ते० २१
- खाण खणावी वातुनी, पाणी उलेच्या,
आरभ कीधा अति घणा, पोते पापज संच्या. ते० २२
- कर्म अंगार कीया गळी, धरमें दव दीधा,
सम खाधा वीतरागना, कूडा कोमज की शा. ते० २३
- त्रिह्नीभवे उदर लीया, गीरोळी हत्यारी,
मूढ गमारतणे भवे, में जू लीस मारी. ते० २४
- भाढभुंजातणे भवे, एकेद्रियजीव,
ज्वारी चणा गहुं शेकिया, पाडता रीप. ते० २५
- साढण पीसण गारना, आरभ अनेक,
राधण इधण अग्निना, की शा पाप उद्रेक. ते० २६
- विकथा चार की मी वळी, सेव्या पाच प्रमाद,
इष्टवियोग पाड्या घणा, कीया रुदन विपवाद. ते० २७
- साधु अने श्रावकतणां, प्रत लेडने भाग्या,
मूळ अने उत्तरतणां, मुज दूपण लाग्या. ते० २८
- साप वींछी सिंह चीवरा, शकरा ने समळी,
हिंसक जीवतणे भवे, हिंसा कीवी सगळी. ते० २९
- सूवावडी दूपण घणा, वळी गर्भ गजाव्या
जीवाणी होळया घणा, शीलप्रत भजाव्या ते० ३०

भव अनंत भमता थका, कीधा देहसंभव, त्रिविध त्रिविध करी वोसिरु, तीणशु प्रतिपव.	ते० ३१
भव अनंत भमता थका, कीधा परिग्रहसत्र, त्रिविध त्रिविध करी वोसिरु, तीणशु प्रतिपव.	ते० ३२
भव अनंत भमता थका, कीधा दुष्टसत्र, त्रिविध त्रिविध करी वोसिरु, तीणशु प्रतिपव.	ते० ३३
इणि पर इह भव पर भो, कीधा पाप अखर, त्रिविध त्रिविध करी वोसिरु, कर जन्म पवित्र.	ते० ३४
एणी विधे ए आराधना, भवि करशे जेह, सगयसुदर कहे पापथी, यली छटशे तेह	ते० ३५
राग बेराही जे सुणे, एह त्रीजी दाठ, समयसुदर कहे पापथी, छटे ततकाल.	ते. ३६



१२ श्री अमृतवेलिनी सज्ज्ञाय

चेतन ज्ञान अजुआलीए, टाठीए मोहसतापरे, चित्तडु डमडोलतु वालीए, पालीए सहज गुण आपर—चेतन० १	
उपशम अमृतरस पीजीए, कीजीए साधुगुणगानर, अधमययणे नवि खीजीए, टीजीए सजनने मानरे—चेतन० २	
क्रोधअनुवध नवि रासीए, भाखीए ययण मुख साचर, समकितरत्न रचि जोडीए, छोडीए कुमति मति काचरे—चेतन० ३	
शुद्ध परिणामने कारणे, चारना शरण येरे चित्तर, प्रथम तिहा शरण अरिहतनु, जेह जगदीश जगमित्तरे—चेतन० ४	
जे समोसरणमा राजता, भाजता भविःसदेहरे, धर्मना वचन वरसे सदा, पुष्करार्त्त जिम मेहरे—चेतन० ५	

शरण धीजुं भजे सिद्धनुं, जे करे कर्म चक्रचूररे,
 भोगवे राज्य शिवनगरनुं, ज्ञान आनद भरपूररे-चेतन०
 साधुनुं शरण गीजु परे, जेह सांगे शिवपंधरे,
 मूल उत्तर गुण जे वर्या, भव तर्या भाग निग्रंधरे-चेतन०
 शरण चोखुं धरे वर्मनु, जेहमा पर दयाभावरै,
 जे सुखहेतु जिनवर कह्यं, पापजळ तारवा नावरै-चेतन०
 चारनां शरण ए पडिजे, बळी भजे भावना शुद्धरे,
 दुरित सवि आपणां निंदीए, जेम होय संसरवृद्धिरै-चेतन०
 इहभय परभव आचर्यां, पापअधिकरण मिळ्यातरे,
 जे जिनाशातनादिक प्रणा, निंदीए तेह गुणघातरे-चेतन० ११
 गुरुतणा वचन ते जगणी, गंधीया आप मतजाळरे,
 नहु परे लोकने भोळव्या, निंदीए तेह जंजाळरे-चेतन० १२
 जेह हिंसा करी जाकरी, जेह गोन्या मृषावादरे,
 जेह परपन हरी हरखिया, कोधलो कामउन्मादरे-चेतन० १३
 जेह वन वान्य मूर्च्छा वरी, सेविया चार कपायर,
 रागने द्वेषने बश हुआ, जे क्रियो कलहडपायरै-चेतन० १४
 जूठ जे आळ परने दिया, जे कर्यां पिशुनतापापरै,
 रति अरति निंद मायामृषा, बळीय मिळ्यात्वसंतापरै-चेतन० १५
 पाप जे एहवा सेविया, तेह निंदीए त्रिहु काळरे,
 सुकृतअनुमोदना कीजीए, जिम होये कर्म विसराळरे-चेतन० १६
 विश्वउपगार जे जिन करे, मार जिन नाम सयोगरे,
 ते गुण तास अनुमोदीए, पुण्य अनुबध शुभयोगरे-चेतन० १७
 सिद्धनी सिद्धता कर्मना-सयथकी ऊपनी जेहरे,
 जेह आचार आचार्यनो, चरणवन सिंघवा मेहर-चेतन० १८

- जेह उग्रजायनो गुण भलो, मूत्र सज्वाय परिणामरे,
साधुनी जे बळी साधुता, मूल उत्तर गुण गामरे—चेतन० १८
- (जेह) विरति देश श्रावणतणी, जे समकित सदाचाररे,
समकितदृष्टि सुर नरतणो, तेह अनुमोदीए साररे—चेतन० १९
- अन्यमा पण दयादिक गुणा, जेह जिनप्रचनअनुसाररे,
सर्व ते चित्त अनुमोदीए, समकितग्रीज निरधाररे—चेतन० २०
- पाप नबि तीत्र भावे कर, जेहने नपि भवरागरे,
उचित स्थिति जेह सेवे सदा, तेह अनुमोदवा लागरे—चेतन० २१
- योढळो पण गुण परतणो, साभळी हर्ष मन आणरे,
दोष लग्न पण निज देखता, निज गुण निजातमा जाणरे—चेतन० २२
- उचित व्यवहार अवलपने, एम करी स्थिर परिणामरे,
भावीए शुद्ध नयभावना, पापनाशनतणु ठामरे—चेतन० २३
- देह मन वचन पुद्गलथकी, कर्मधी भिन्न तुज स्वर,
अक्षय अकलक छे जीवनु, ज्ञान आनड सरपररे—चेतन० २४
- कर्मधी कल्पना उपजे, पवनधी जेम जलधिवेलेरे,
रूप प्रगटे सहज आपणु, देखता दृष्टि स्थिर मेलर—चेतन० २५
- धारता कर्मनी धारण, मारता मोह वड चोररे
ज्ञानरुचिवेल विस्तारता, मारता कर्मनु जोरर—चेतन० २६
- राग विष दोष उदारता, मारता द्वेषरस शेषरे
पूर्ण मुनि प्रचन सभारता, मारता कर्म नि शेषरे—चेतन० २७
- देखीए मार्ग शिवनगरनो, जे उदासीनपरिणामर,
तेह अणछोडता चालीए, पामीए जिम परम गामरे—चेतन० २८
- श्रीनयविजय गुरुशिष्यनी, गीसडी अमृतपेलेरे,
णह जे चतुर नर आदर, ते लहे सुयश रगरेलर—चेतन० २९

पया जन्म, चित्त सद्ध्यानचिन्तया ।

एव शमे याति, विनियोग स पुण्यभाक् ॥१९॥

। स्नेहमयान्पाशान्, भित्त्वा मोहमहार्गलाम् ।

त्रिसमायुक्ता, शूरा मोक्षपथे स्थिता. ॥२०॥

॥ मोहनीयेन, मोहित सकल जगत् ।

। मोह समुत्सार्य, तपस्यन्ति महाधियः ॥२१॥

मोहस्य माहात्म्य, विद्वांसो येऽपि मानवा ।

न्ति तेऽपि ससारे, कामार्थरतितत्परा ॥२२॥

। क्रोधस्तथा लोभो, रागोद्वेषश्च मत्सरः ।

। माया तथा मोह, कण्डर्पो दर्प एव च ॥२३॥

। हि रिपवो घोरा, धर्मसर्वस्वहारिणः ।

। वैभ्रम्यते जीव, ससारे बहुदुःखदे ॥२४॥

गद्वेषमयो जीवः, कामक्रोधवश गत ।

। भ्रमोहमदाविष्टः, ससारे ससरत्यसौ ॥२५॥

ज्ञानसपन्नो, जैनभक्तो जितेन्द्रियः ।

मोक्षभागी न सशयः ॥२६॥

। ऽप्येते महाद्विपः ।

। कुतो नृणाम् ॥२७॥

मोहसमो रिपु ।

। सुखम् ॥२८॥

निर्लिः ।

- ज्ञानाभ्यास सदा कार्यों, ध्यानेनाध्ययनेन च ।
 तप.सरक्षण चैव, यदीच्छेद्धितमात्मन ॥९॥
- ज्ञानादित्यो हृदि यस्य, नित्यमुद्योतकारकः ।
 तस्य निर्मलतां याति, पञ्चेन्द्रियदिगाननम् ॥१०॥
- एतद् ज्ञानफल नाम, यच्चारित्रोद्यम सदा ।
 क्रियते पापनिर्मुक्तै, साधुसेवापरायणे ॥११॥
- सर्वं ह्यहं परित्यज्य, निभृतेनान्तरात्मना ।
 ज्ञानामृत सदा पेय, चित्ताह्लादनमुत्तमम् ॥१२॥
- ज्ञान नाम महारत्न, यन्न प्राप्त कदाचन ।
 ससारे भ्रमता भीमे, नानादुखविधायिनि ॥१३॥
- अधुना तत्त्वया प्राप्त, सम्यग्दर्शनसयुतम् ।
 प्रमाद मा पुन कापीर्विषयास्त्रादलालस ॥१४॥
- आत्मान सतत रक्षे, ज्ञानध्यानतपोवल्लै ।
 प्रमादिनोऽस्य जीवस्य, शीलरत्न विलुप्यते ॥१५॥
- शीलरत्ने हृते तस्य, मोहध्वान्तमुपेयुष ।
 नानादु खशताकीणे, नरके पतन ध्रुवम् ॥१६॥
- यावत्स्वास्थ्य शरीरस्य, यावच्चेन्द्रियसपट ।
 तावत्युक्त तप कर्तु, वार्धके केवल श्रम ॥१७॥
- शुद्धे तपसि सदीर्यं, ज्ञान कर्मपरिक्षये ।
 उपयोग धन प्रात्रे, यस्य याति स पण्डित ॥१८॥

- तेषां च विरमे सौख्य, जायते परमान्द्रुतम् ॥२९॥
 कषायविषये रोगै-रात्मान पीडित सदा ।
 चिकित्स्यतां प्रयत्नेन जिनवाक्सारभेषजै ॥३०॥
 विषयोरगदष्टस्य, कषायविषमोहिन ।
 सयमो हि महामन्त्र स्याता हि सर्वदेहिन ॥३१॥
 कषायकलुषो जीवो, रागरज्जितमानस ।
 चतुर्गतिभवाग्भोधो, भिन्ननोरिव सीदति ॥३२॥
 कषायवशगो जीव कर्म वध्नाति दारुणम् ।
 तेनासो क्लेषमाप्नोति, भवकोटिपु दुस्तरम् ॥३३॥
 कषायविषयैश्चित्त, मिथ्यात्वेन च सश्रुतम् ।
 ससारबीजता याति, विमुक्त मोक्षबीजताम् ॥३४॥
 कषायविजये सौरय, इन्द्रियाणा च नियहे ।
 जायते परमोत्कृष्ट-मात्मनो भवभेदि यत् ॥३५॥
 कषायान्शत्रुत्रपत्रये-द्विषयान्विषवत्तया ।
 मोह च परम व्याधि-मेवमूचुर्विचक्षणा ॥३६॥
 कषायविषयैश्चोरे-धर्मरत्न विलुप्यते ।
 वैराग्यसङ्गधाराभि, शूरा कुर्वन्ति रक्षणम् ॥३७॥
 कषायकर्षण कृत्वा, विषयाणामसेवनम् ।
 एतद्वो मानवा पथ्य, सम्यग्दर्शनमुत्तमम् ॥३८॥
 कषायातपतप्ताना, विषयामयमोहिनाम् ।
 सयोगायोगखिन्नाना, सम्यक्त्व परम हितम् ॥३९॥

वर नरकवासोऽपि, सम्यक्त्वेन समायुतः ।
 न तु सम्यक्त्वहीनस्य, निवासो दिवि राजते ॥४०॥
 सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य, ध्रुव निर्वाणसङ्गमः ।
 मिथ्यादृशोऽस्य जावस्य, ससारे भ्रमण सदा ॥४१॥
 सम्यक्त्व परम रत्न, शङ्कादिमलवर्जितम् ।
 ससारदुःखदारिद्र्य, नाशयेत्सुविनिश्चितम् ॥४२॥
 पण्डितोऽसौ विनीतोऽसौ, धर्मज्ञ प्रियदर्शनः ।
 यः सदाचारसपन्न, सम्यक्त्वदृढमानस ॥४३॥
 जरामरणरोगाणां, सम्यक्त्वज्ञानभेषजे ।
 शमन कुरुते यस्तु, स वै वैद्योऽभिधीयते ॥४४॥
 जन्मान्तरार्जित कर्म, सम्यक्त्वज्ञानसयमै ।
 निराकर्तुं सदा युक्तमपूर्वं च निरोधनम् ॥४५॥
 सम्यक्त्व भावयेत्क्षिप्र, सज्ज्ञान चरण तथा ।
 कृच्छ्रात्सुचरित प्राप्त, नृत्व याति निरर्थकम् ॥४६॥
 अतीतेनापि कालेन, यन्न प्राप्त कदाचन ।
 तदिदानीं त्वया प्राप्त, सम्यग्दर्शनमुत्तमम् ॥४७॥
 उत्तमे जन्मनि प्राप्ते, चारित्र्य कुरु यत्नत ।
 सद्धर्मे च परां भक्तिं, शमे च परमा रतिम् ॥४८॥
 अनादिकाल जीवेन, प्राप्त दुःख पुन पुनः ।
 मिथ्यामोहपरीतेन, कपायवशवर्तिना ॥४९॥
 सम्यक्त्वादित्यसभिन्न, कर्मध्वान्त विनश्यति ।

आसन्नभव्यसत्त्वाना, काललब्ध्यादिसनिधौ ॥५०॥

सम्यक्त्वभावशुद्धेन, विषयासङ्गर्जिना ।

कपायविरतेनैव, भवदुख विहन्यते ॥५१॥

ससारध्वसन प्राप्य, सम्यक्त्व नाशयन्ति ये ।

वमन्ति तेऽमृत पीत्वा, सर्वव्याधिहर पुन ॥५२॥

मिथ्यात्व परम बीज, ससारस्य दुरात्मन ।

तस्मात्तदेव मोक्तव्य, मोक्षसारय जिःश्रुणा ॥५३॥

आत्मतत्त्व न जानन्ति, मिथ्यामोहेन मोहिता ।

मनुजा येन मानस्था, विप्रलुब्धा कुशासनै ॥५४॥

दुःखस्य भीरवोऽप्येते, सद्धर्म न हि कुर्वते ।

कर्मणा मोहनीयेन, मोहिता बहवो जना ॥५५॥

कथ न रमते चित्त, धर्मेऽनेकसुखप्रदे ।

जीवानां दुःखभीरूणा, प्रायो मिथ्यादृशो यतः ॥५६॥

दुःख न शम्यते सोढ, पूर्वकर्मार्जित नरै ।

तस्मात्कुरुत सद्धर्म, येन तत्कर्म नश्यति ॥५७॥

सुकृत तु भवेद्यस्य, तेन यान्ति परिक्षयम् ।

दुःखोत्पादनभूतानि, दुष्कर्माणि समन्तत ॥५८॥

धर्म एव सदा कार्यो, मुक्त्वा व्यापारमन्यत ।

य करोति परं सोख्य, यावन्निर्वाणसङ्गम ॥५९॥

क्षणेहि समतिक्रान्ते, सद्धर्मपरिवर्जिते ।
 आत्मान मुषितं मन्ये, कषायेन्द्रियतस्करैः ॥ ६० ॥
 धर्मकार्ये मतिं धत्स्व, यावदायुर्दृढ तव ।
 आयुःकर्माणि सक्षीणे, पश्चाच्च किं करिष्यसि ? ॥ ६१ ॥
 धर्ममाचर यत्नेन, मा भवस्त्वं मृतोपम ।
 सद्धर्मचेतसां पुसां, जीवित सफल भवेत् ॥ ६२ ॥
 मृता नैव मृतास्तेषु, ये नरा धर्मकारिणः ।
 जीवन्तोऽपि मृतास्ते वै, ये नरा पापकारिणः ॥ ६३ ॥
 धर्मामृतं सदा पेय, दुःखातद्भ्रविनाशम् ।
 यस्मिन्पीते पर सौख्य, जीवानां जायते सदा ॥ ६४ ॥
 सद्धर्मो यो दयायुक्तः, सर्वप्राणिहितप्रद ।
 स एवोत्तारणे सक्तो, भवाम्भोधे सुदुस्तरात् ॥ ६५ ॥
 यदा कण्ठगतप्राणः, जीवोऽसौ परिवर्त्तते ।
 नान्यः कश्चित्तदा त्राता, मुक्त्वा धर्मं जिनोदितम् ॥ ६६ ॥
 अल्पायुषा नरेणेह, धर्मकर्मविजानता ।
 न ज्ञायते कदा मृत्युर्भविष्यति न सशयम् ॥ ६७ ॥
 आयुर्यस्यापि देवज्ञैः, परिज्ञाते हि जातके ।
 तस्यापि क्षीयते सद्यो, निमित्तोत्तरयोगतः ॥ ६८ ॥
 जिनैर्निगदित धर्मं, सर्वसौख्यमहानिधिम् ।
 ये न त प्रतिपद्यन्ते, तेषां जन्म निरर्थकम् ॥ ६९ ॥

हेतु कर्म परित्यज्य, पापकर्मसु रज्यते ।
 तेन वै दह्यते चेत, शोचनीयो भविष्यति ॥७०॥
 यदि नामाप्रिय दुःख, सुख च यदि वा प्रियम् ।
 ततः कुरुत सद्धर्म, जिनाना जितजन्मनाम् ॥७१॥
 विशुद्धादेव सकल्पाद्, धर्मं सद्भिरुपार्यते (स्यते) ।
 स्वल्पेनैव प्रयासेन, चित्रमेतदहो परम् ॥७२॥
 धर्म एव सदा त्राता, जीवानां दुःखसङ्घटात् ।
 तस्मात्कुरुत भो यत्न, तत्रानन्तसुखप्रदे ॥७३॥
 यत्त्वया न कृतो धर्म, सदा मोक्षसुखावहः ।
 प्रसन्नमनसा जैन-स्तेन दुःखी भवानिह ॥७४॥
 यत्त्वया क्रियते कर्म, विषयान्वेन दारुणम् ।
 उदये तस्य सप्राप्ते, कस्ते त्राता भविष्यति ॥७५॥
 भुक्त्वाप्यनन्तशो भोगान्, देवलोके यथेप्सितान् ।
 यो हि तृप्तिं न सप्राप्त, स किं प्राप्स्यति साप्रतम् ॥७६॥
 वरहाहाल भुक्त, विषयतद्भवनाशनम् ।
 न तु भोगविषय भुक्त, अनन्तभवदुःखदम् ॥७७॥
 इन्द्रियप्रभवसौख्य, सुखाभास न तत्सुखम् ।
 तच्च कर्मविवन्धाय, दुःखदानैकपण्डितम् ॥७८॥
 अक्षाश्वा(न्) निश्चला(न्) धत्स्व, विषयोत्पथगासिनः ।
 वैराग्यप्रग्रहाकृष्टान्, सन्मार्गं विनियोजयेत् ॥७९॥

- अक्षाण्यैव स्वकीयानि, शत्रवो दुःखहेतवः ।
 विषयेषु प्रवृत्तानि, कषायवशवर्त्तिनः । ॥८०॥
- इन्द्रियाणां यदा छन्दे, वर्त्तते मोहसङ्गतः ।
 तदात्मैव भवेच्छत्रु-रात्मनो दुःखवधनः ॥८१॥
- इन्द्रियाणि प्रवृत्तानि, विषयेषु निरन्तरम् ।
 सज्ञानभावनाशक्ता, वारयन्तु हिते रताः ॥८२॥
- इन्द्रियेच्छां रुजामज्ञः, कुरुते यो ह्युपक्रमम् ।
 तमेव मन्यते सौख्य, किन्तु कष्टमतः परम् ॥८३॥
- आत्माभिलापरागाणां, यत् श्रम क्रियते बुधैः ।
 तदेव परम तत्त्व, इत्युचुर्ब्रह्मवेदिनः ॥८४॥
- इन्द्रियाणां स(श)मेनाल, रागद्वेषजयेन च ।
 आत्मानं यो जयेत्सम्यक्, ससृतिव्छेदकारणम् ॥८५॥
- इन्द्रियाणि वशे यस्य, यस्य दुष्टं न मानसम् ।
 आत्मा धर्मरतो यस्य, सफल तस्य जीवितम् ॥८६॥
- परनिन्दासु ये मूका, निजश्लाघापराडमुखाः ।
 ईदृशैर्ये गुणैर्युक्ता, पूज्याः सर्वत्र विष्टये ॥८७॥
- प्राणान्तिकेऽपि सप्राप्ते, वर्जनीयानि साधुना ।
 परलोकविरुद्धानि, येनात्मा सुखमश्नुते ॥८८॥
- समानयति भूतानि, यः सदा विनयान्वितः ।
 स-प्रियः सर्वलोकेस्मिन्नापमानं समश्नते ॥८९॥

किपाकृत्य फल भक्ष्य, कदाचिदपि धीमता ।
 विषयास्तु न भोक्तव्या, यद्यपि स्युः सुपेशलाः ॥९०॥
 स्त्रीसपर्कसम सौख्यं, वर्णयन्त्यबुधा जना ।
 विचार्यमाणमेतद्धि, दुःखाना वीजमुत्तमम् ॥९१॥
 स्मराग्निना प्रदग्धानि, शरीराणि शरीरिणाम् ।
 स(श)मांभसा ह्यसिक्तानि, निर्वृतिं नैव भेजिरे ॥९२॥
 अग्निना तु प्रदग्धानां, स(श)मोऽस्तीति यतोऽत्र वै ।
 स्मरवह्निप्रदग्धानां, स(श)मो नास्ति भवेऽपि ॥९३॥
 मदनोऽस्ति महाव्याधि-दुश्चिकित्स्य सदा बुधैः ।
 ससारवर्धनोऽत्यर्थं, दुःखोत्पादनतत्पर ॥९४॥
 यावदस्य हि कामाग्नि-हृदये प्रज्वलत्यलम् ।
 आश्रयन्ति हि कर्माणि, तावदस्य निरन्तरम् ॥९५॥
 कामाहिदृढदष्टस्य, तीव्रा भवति वेदना ।
 यथा सुमोहितो जन्तु-स्ससारे परिवर्त्तते ॥९६॥
 दुःखाणामाकरो यस्तु, ससारस्य च वर्धनः ।
 स एष मदनो नाम, नराणां स्मृतिसूदन ॥९७॥
 सकल्पाण्डात्समुद्भूत, कामसर्पोऽतिदारुणः ।
 रागद्वेषद्विजिह्वोऽसौ, वशीकर्तुं न शक्यते ॥९८॥
 दुष्टा चेयमनङ्गेच्छा, सेय ससारवर्धनी ।
 दुःखस्योत्पादने शक्ता, शक्ता वित्तस्य नाशने ॥९९॥

अहो ते धिपणाहीना, ये स्मरस्य वश गताः ।
 कृत्वा कल्मषमात्मान, पातयन्ति भवार्णवे ॥१००॥
 स्मरेणातीवरौद्रेण, नरकावर्त्तपातिना ।
 अहो खलीकृतो लोको, धर्माभृतपराडुखः ॥१०१॥
 स्मरेण स्मरणादेव, वैरं देवनियोगतः ।
 हृदये निहित शल्य, प्राणिनां तापकारकम् ॥१०२॥
 तस्मात्कुरुत सद्बृत्त, जिनमार्गरताः सदा ।
 येन तत्खण्डशो याति, स्मरशल्य सुदुर्धरम् ॥१०३॥
 चित्तसदृषण. कामस्तथा सद्गतिनाशन ।
 सद्बृत्तध्वसनश्चासौ, कामोऽनर्थपरंपरा ॥१०४॥
 दोषाणामाकरः कामो, गुणानां च विनाशकृत् ।
 पापस्य च निजो बन्धु-रापदां चैव सङ्गम ॥१०५॥
 पिशाचेनैव कामेन, छिद्रित सकलं जगत् ।
 बभ्रमीति परायत्त, भवाब्धौ तन्निरन्तरम् ॥१०६॥
 वैराग्य भावनामन्त्रै-स्तन्निवार्य महाबलम् ।
 स्वच्छन्दबृत्तयो धीराः, सिद्धिसौख्यं प्रपेदिरे ॥१०७॥
 कामो त्यजति सद्बृत्त, गुरोर्वाणीन्द्रिय तथा ।
 गुणानां समुदाय च, चेतःस्वास्थ्य तथैव च ॥१०८॥
 तस्मात्काम सदा हेयो, मोक्षसौख्य जिघृक्षुभिः ।
 ससार च परित्यक्त, वाञ्छद्भिर्यतिसत्तमेः ॥१०९॥

कामार्थौ वैरिणौ नित्य, विशुद्धध्यानरोधिनी ।
 सत्यजतां महाक्रूरौ, सुख सजायते नृणाम् ॥११०॥
 कामदाहो वर सोढु, न तु शीलस्य खण्डनम् ।
 शीलखण्डनशीलाना, नरके पतन ध्रुवम् ॥१११॥
 कामदाह सदा नैव, स्वल्पकालेन शाम्यति ।
 सेवनाच्च महत्पाप, नरकावर्त्तपातनम् ॥११२॥
 सुतीव्रेणापि कामेन, स्वल्पकाल तु वेदना ।
 खण्डनेन तु शीलस्य, भवकोटिषु वेदना ॥११३॥
 नियत प्रशम याति, कामदाह सुदारुण ।
 ज्ञानोपयोगसामर्थ्या-द्विप मन्त्रपदैर्यथा ॥११४॥
 असेवनमनङ्गस्य, शमाय परम स्मृतम् ।
 सेवनाच्च परावृद्धि, शमस्तु न कदाचन ॥११५॥
 उपवासोऽवमौढ्य-रसाना त्यजन तथा ।
 स्नानस्यासेवन चैव, ताम्बूलस्य च वर्जनम् ॥११६॥
 असेवेच्छा निरोधस्तु, निरनुस्मरण तथा ।
 एते हि निर्जनोपाया, मदनस्य महारिपो ॥११७॥
 काममिच्छानिरोधेन, क्रोध च क्षमया भृशम् ।
 जयेन्मान मृदुत्वेन, मोह सज्ञानसेवया ॥११८॥
 तस्मिन्नुपशमे प्राप्ते, युक्त सद्वृत्तधारणम् ।
 तृष्णां सुदूरतस्त्यक्त्वा, विपाक्तमिव भोजनम् ॥११९॥

कर्मणां शोधन श्रेष्ठं, ब्रह्मचर्यं सुरक्षितम् ।

सारभूत चरित्रस्य, देधेरपि सुपूजितम् ॥१२०॥

या चैषा प्रमदा भाति, लाघण्यजलवाहिनी ।

सैषा वैतरणी घोरा, दुःखोर्मिशताकुला^१ ॥१२१॥

ससारस्य च बीजानि, दुःखानां राशयः पराः ।

पापस्य च निधानानि, निर्मिता केन योषितः ॥१२२॥

इयं सा मदनज्वाला, व रेवं समद्भुता ।

नराणां यत्र हियन्ते, यौवनानि धनानि च ॥१२३॥

नरकावर्त्तपातिन्य, स्वर्गमार्गदृढार्गला ।

अनर्थानां विधायिन्यो, योषित केन निर्मिताः ॥१२४॥

कृमिजालशताकीर्णं, दुर्गधमलपूरिते ।

त्वग्मात्रसंवृते स्त्रीणां, का काये रमणीयता^१ ॥१२५॥

अहो ते सुखतां प्राप्ता, ये काममलवर्जिता ।

सद्वृत्त विधिनाऽऽपाल्य, यास्यन्ति पदमुत्तमम् ॥१२६॥

भोगार्थी यं करोत्यज्ञो, निदानं मोहसङ्गतं ।

चूर्णीकरोत्यसौ रत्नं, अनर्घ्यं सूत्रहेतुना ॥१२७॥

भवभोगशरीरेषु, भावनीयं सदा बुधे ।

निर्वेदं परया बुद्ध्या, कर्मरातिजिघृक्षुभिः ॥१२८॥

१ शतमङ्गला. (इति समीचीनम्.)

यावन्न मृत्युवज्जेण, देहशैलो निपात्यते ।

नियुज्यता मनस्तावत्कर्मारतिपरिक्षये ॥१२९॥

त्यज कामार्थयो सङ्ग, धर्मध्यान सदा भज ।

छिन्धि स्नेहमयान्पाशान्मानुष्य प्राप्य दुर्लभम् ॥१३०॥

कथ ते भ्रष्टसदृत्ता, विषयानुपसेवते ।

पचतान्तरिता येषां, नरके तीव्रवेदना ॥१३१॥

सदृत्ताद्भ्रष्टचित्तानां, विषयासङ्गसङ्गिनाम् ।

तेषामेवेह दुःखानि, भवन्ति नरकेषु च ॥१३२॥

विषयास्वादलुब्धेन, रागद्वेषवशात्मना ।

आत्मा सुवञ्चितस्तेन, यः स(श)म नापि सेवते ॥१३३॥

आत्मना यत्कृत कर्म, भोक्तव्य तदनेकधा ।

तस्मात्कर्माश्रव रुद्धवा, स्वेन्द्रियाणि वश नयेत् ॥१३४॥

इन्द्रियप्रसरं रुद्ध्वा, स्वात्मान वशमानयेत् ।

येन निर्वाणसौख्यस्य, भाजनत्प्र प्रपत्स्यसे ॥१३५॥

सपन्नेष्वपि भोगेषु, महतां नास्ति वृद्धिता ।

अन्येषा वृद्धिरेवास्ति, शमस्तु न कदाचन ॥१३६॥

पद्मखण्डाधिपतिश्चक्री, परित्यज्य वसुधराम् ।

तृणवत्सर्वभोगाँश्च, दीक्षा दैगवरी स्थित ॥१३७॥

कृमितुल्यैः किमस्माभिर्भोक्तव्य वस्तुसुदरम् ।
 येनात्र गृहपद्वेषु, सीदामः किमनर्थकम्? ॥१३८॥
 येन ते जनित दुःख, भवांभोधौ सुदुस्तरम् ।
 त कर्मारातिमत्युग्र, विजेतु किं न वाञ्छसि? ॥१३९॥
 अवह्यचारिणो नित्य, मांसभक्षणतत्परा ।
 शुचित्व तेऽपि मन्यन्ते, किन्तु चित्रमतः परम् ॥१४०॥
 येन सक्षीयते कर्म, सचयश्च न जायते ।
 तदेवात्मविदा कार्यं, मोक्षसौख्याभिलाषिणा ॥१४१॥
 अनेकशस्त्वया प्राप्ता, विविधा भोगसपद ।
 अप्सरोगणसकीर्णं, दिवि देवविराजिते ॥१४२॥
 पुनश्च नरके रौद्रे, रौरवेऽत्यन्तभीतिदे ।
 नानाप्रकारदुःखौघैः, सस्थितोऽसि विधेर्वशात् ॥१४३॥
 तप्ततैलकभल्लीषु, पच्यमानेन यत् त्वया ।
 सप्राप्त परम दुःख, त वक्तु नैव पार्यते ॥१४४॥
 नानायन्त्रेषु रौद्रेषु, पीड्यमानेन वह्निना ।
 दुःसहा वेदना प्राप्ता, पूर्वकर्मनियोगतः ॥१४५॥
 विण्मूत्रपूरिते भीमे, पूतिश्लेष्मावसाकुले ।
 भूयो गर्भगृहे मातु देवाद्यातोऽसि सस्थितिम् ॥१४६॥
 तिर्यग्गतौ च यद्दुःख, प्राप्त छेदनभेदनैः ।
 न शक्तस्तत्पुमान्वक्तु, जिह्वाकोटिशतैरपि ॥१४७॥

ससृता नास्ति तत्सौरय, यन्न प्राप्तमनेकधा ।
 देवमानवतिर्यक्षु, भ्रमता जन्तुनानिशम् ॥१४८॥
 चतुर्गतिनिबन्धेऽस्मिन्-ससारेऽत्यन्तभातिदे ।
 सुखदु खान्यवाप्तानि, भ्रमताविधियोगत ॥१४९॥
 एव चिरमिद कष्ट, ज्ञात्वात्यन्तविनश्वरम् ।
 कथ न यासि वैराग्य ? धिगस्तु तव जीवितम् ॥१५०॥
 जीवित विद्युता तुल्य, सयोगा स्वप्नसनिभा ।
 सध्यारागसम स्नेहः, शरीरं तृणविन्दुवत् ॥१५१॥
 शक्रचापसमा भोगाः, सपदो जलदोपमा ।
 यौवन जलरेखेव, सर्वमेतदशाश्वतम् ॥१५२॥
 समानवयसो दृष्टा, मृत्युना स्ववशीकृता ।
 कथ चेत. स(श)मो नास्ति, मनागपि हितात्मनः ॥१५३॥
 सर्वाशुचिमये काये, नश्वरे व्याधिपीडिते ।
 को हि विद्वान्तिं गच्छेद्यस्यास्ति श्रुतसङ्गम ॥१५४॥
 चिर सुपोषित कायो, भोजनाच्छादनादिभि ।
 विकृतिं याति सोऽप्यन्ते, कास्था बाह्येषु वस्तुषु ॥१५५॥
 नायातो वधुभि सार्धं, न गतो वन्धुभि समम् ।
 वृथैव स्वजनैः स्नेहो, जनाना मूढचेतसाम् ॥१५६॥
 जातेनावश्य मर्तव्य, प्राणिना प्राणधारिणा ।
 अत कुरुत मा शोक, मृते वन्धुजने बुधा ॥१५७॥

आत्मकार्यं परित्यज्य, परकार्येषु यो रतः ।
 ममत्वरतचेतस्कः, स्वहितात् भ्रस(श)मेष्यति ॥१५८॥
 स्वहितं तु भवेद् ज्ञान, चारित्र्य दर्शन तथा ।
 तपःसरक्षणं चैव, सर्वविद्भिस्तदुच्यते ॥१५९॥
 सुखसभोगसन्मूढा, विषयास्वादलपटाः ।
 स्वहितात् भ्रस(श)मागत्य, गृहवाससिपेविरे ॥१६०॥
 वियोगा वहवो दृष्टा, द्रव्याणां च परिक्षयः ।
 तथापि निर्धृणचेतः, सुखास्वादनलपटम् ॥१६१॥
 यथा च जायते चेतः सम्यक् शुद्धिः सुनिर्मलाम् ।
 तथा ज्ञानविदा कार्यं, प्रयत्नेनापि भूरिणा ॥१६२॥
 विशुद्धमानसस्य, रागादिमलवर्जितम् ।
 ससारमफलतस्य, सकलसमुपस्थितम् ॥१६३॥
 ससारध्वंसने हृष्टि, धृतिमिन्द्रियनिग्रहे ।
 कषायविजये यत्न, नाभव्यो लब्धुमर्हति ॥१६४॥
 एतदेव परं ब्रह्म, न विदन्तीह मोहिनः ।
 यदेतच्चित्तनिर्मलय, रागद्वेषादिवर्जनम् ॥१६५॥
 तथा लुप्टे यमे तद्धि, पण्डितेन हितैषिणा ।
 यथा न विक्रियां याति, मनोऽत्यर्थं विपत्स्वपि ॥१६६॥
 धन्यास्ते मानवा लोके, ये प्राप्ताप्यापदां पराम् ।
 विकृतिं नैव गच्छन्ति, यतस्ते साधुमानसः ॥१६७॥

सक्लेशो नहि कर्तव्यः, सक्लेशो बन्धकारणम् ।
 सक्लेशपरिणामेन, जीवो दुःखस्य भाजनम् ॥१६८॥
 सक्लेशपरिणामेन, जीवः प्राप्नोति भूरिशः ।
 सुमहत्कर्मसंबध, भवकोटिषु दुःखदम् ॥१६९॥
 चित्तरत्नमसक्लिष्ट, महतामुत्तमं धनम् ।
 येन सप्राप्यते स्थान, जरामरणवर्जितम् ॥१७०॥
 सपत्नौ विस्मिता नैव, विपत्तौ नैव दुःखिता ।
 महतां लक्षणं हेतत्, तनु द्रव्यसमागमः ॥१७१॥
 आपत्सु सपतन्तीषु, पूर्वकर्मनियोगतः ।
 धैर्यमेव परं त्राण, न युक्तमनुशोचनम् ॥१७२॥
 विशुद्धपरिणामेन, शान्तिर्भवति सर्वतः ।
 सक्लिष्टेन तु चित्तेन, नास्ति शान्तिर्भवेष्वपि ॥१७३॥
 सक्लिष्टचेतसा पुसा--मायात्ससारवर्धनम् ।
 विशुद्धा चेतसो वृत्तिः, सपत्निर्वृत्तिदायिनी ॥१७४॥
 यदा चित्तविशुद्धिः स्यादापद सपदस्तदा ।
 समास्तत्वविदा पुसां, सर्वं हि महता महत् ॥१७५॥
 परोऽप्युत्पथमापन्नो, निषेद्धं युक्त एव सः ।
 किं पुनः स्वमनोऽत्यर्थं, विषयोत्पथयाधि यत् ॥१७६॥
 अज्ञानाद्यदि वा मोहात्, यत्कृतं कर्म कुत्सितम् ।
 व्यावर्तये मनस्तस्मात्, पुनस्तन्न समाचरेत् ॥१७७॥

अचिरेणैव कालेन, फलं प्राप्स्यसि दुर्मते ।
 विपाकेऽतीवतिक्रस्य, कर्मणो यत् त्वया कृतम् ॥१७८॥
 स्वल्पेनैव तु कालेन, फल प्राप्स्यसि यत्कृतम् ।
 शशवदात्मकर्णाभ्यां, गोपयत् स्व मनागपि ॥१७९॥
 वर्धमान हि तत्कर्म-अज्ञानाद्यो न शोधयेत् ।
 सुप्रभूतर्णसंग्रस्तः, स पश्चात्परितप्यते ॥१८०॥
 सुखभावकृते मूढाः, किं न कुर्वन्ति मानवाः ।
 ये न सतापमायान्ति, जन्मकोटिशतेष्वपि ॥१८१॥
 परं च वञ्चयामीति, ये हि मायां प्रयुञ्जते ।
 इहान्यत्र च लोके वै, तैरात्मा वञ्चितः सदा ॥१८२॥
 पचतासन्नतां प्राप्ता, न कृत सुकृतार्जनम् ।
 सुमानुष्ये हि सप्राप्ते, हा गत जन्म निष्फलम् ॥१८३॥
 कर्मपाशविमोक्षाय, यत्नो यस्य न देहिनः ।
 स ससारमहागुप्तौ, वद्धः सतिष्ठते सदा ॥१८४॥
 गृहचारकवासेऽस्मि-न्विषयामिपलोभित ।
 सीदन्ति नरशार्दूला, वद्धा वान्धववन्धनैः ॥१८५॥
 गर्भवासेऽपि यद्दुःख, प्राप्तमत्रैव जन्मनि ।
 अधुना विस्मृतं किं ते? येनात्मानं न बुध्यसे ॥१८६॥
 चतुरशीतिलक्षेषु, योनीनां भ्रमता त्वया ।
 प्राप्तानि दुःखशल्यानि, नानाकाराणि मोहिना ॥१८७॥

कथं नो द्विजसे मूढ ? दुःखात्ससृष्टिसभवात् ।
 येन त्वं विषयासक्तो, लोभेनास्मिन् वशीकृत ॥१८८॥
 यत्त्वयोपार्जितं कर्म, भवकोटिषु पुष्कलम् ।
 तच्छेत्तु चेन्न शक्नोषि, गत ते जन्म निष्फलम् ॥१८९॥
 अज्ञानी क्षपयेत् कर्म, यज्जन्मशतकोटिभिः ।
 तद् ज्ञानी तु त्रिगुप्तो, निहन्त्यन्तर्मुहूर्तत ॥१९०॥
 जीवितेनापि किं तेन ? कृता यत्र न निर्जरा ।
 कर्मणां सवरो वापि, ससारासारकारिणाम् ॥१९१॥
 स जातो येन जातेन, सुकृता मकपाचना ।
 कर्मणा पाकघोराणा, त्रिवुधेन महात्मना ॥१९२॥
 रोपे रोप परं कृत्वा, माने मान विधाय च ।
 सङ्गे सङ्ग परित्यज्य, स्वात्माधीनं सुखं कुरु ॥१९३॥
 परिग्रहे महाद्वेषो, मुक्तौ च रतिरुत्तमा ।
 सद्दुःखाने चित्तमेकाग्रं, रोद्राते नैव सस्थितम् ॥१९४॥
 धर्मस्य सचये यत्नं, कर्मणा च परिक्षये ।
 साधूनां चेष्टिते चित्तं, सर्वदा पापनाशनम् ॥१९५॥
 मानस्तभं दृढं भङ्गत्वा, लोभाद्रिं प्रविदार्य वै ।
 मायावह्निं समुत्पाद्य, क्रोधशत्रुं निहत्य च ॥१९६॥
 यथारघातं हितं प्राप्य, चारित्र्यं ध्यानतत्परा ।
 कर्मणां प्रक्षयं कृत्वा, प्रयाता परमं पदम् ॥१९७॥

सद्गादिरहिता धीरा, रागादिमलवर्जिताः ।
 शान्ता दान्ता तपोभूषा, मुक्तिकाङ्क्षणतत्पराः ॥१९८॥
 धृतिभावनया युक्ताः, सत्यभावनयान्विता ।
 तत्त्वार्था हितचेतस्कास्ते पात्र दातुमुत्तमा । ॥१९९॥
 धृतिभावनया दुःख, सत्त्वभावनया भयम् ।
 ज्ञानभावनया कर्म, नाशयन्ति न सशयः ॥२००॥
 आग्रहो हि स (श) मे येषां, विग्रह कर्मशत्रुभिः ।
 विषयेषु निरासद्गास्ते पात्र यातउत्तमा । ॥२०१॥
 नि सद्गिनोऽपि वृत्ताद्या, निःस्नेहास्तु श्रुतिप्रिया ।
 अभूयापि तपोभूषा-स्ते पात्र योगिनः सदा ॥२०२॥
 यैर्ममत्व सदा त्यक्त, स्वकायेऽपि मनीषिभिः ।
 ते पात्र सयतात्मानः, सर्वसत्त्वहिते रताः ॥२०३॥
 परिपहजये शक्त, शक्त कर्मपरिक्षये ।
 ज्ञानध्यानतपोभूष, शुद्धाचारपरायणम् ॥२०४॥
 प्रशान्तमानस सौम्य, प्रशान्तकरण शुभम् ।
 प्रशान्तारिमहामोह, कामक्रोधनिसूदनम् ॥२०५॥
 निदास्तुतिसम धीर, शरीरेऽपि च निःस्पृहम् ।
 जितेन्द्रिय जितक्रोध, जितलोभमहाभटम् ॥२०६॥
 रागद्वेषविनिर्मुक्त, सिद्धिसद्गमनोत्सुकम् ।
 ज्ञानाभ्यासरत नित्य, नित्य च प्रशमे स्थितम् ॥२०७॥
 एव विध हि यो दृष्टा, स्वगृहाङ्गणमागतम् ।
 मात्सर्यं कुरुते मोहात्क्रिया तस्य न विद्यते ॥२०८॥

मायां निरासिकां कृत्वा, तृष्णां च परमौजसः ।
 रागद्वेषौ समुत्सार्य, प्रयाता पदमक्षयम् ॥२०९॥
 धीराणां यतयो धीरा, ये निराकुलचेतसः ।
 कर्मशत्रुमहासैन्य, निर्जयन्ति तपोवलात् ॥२१०॥
 परीषहजये शूरा, शूराश्चेन्द्रियनिग्रहे ।
 कषायविजये शूरास्ते शूरा गदिता बुधैः ॥२११॥
 नादत्तेऽभिनव कर्म, स्वचारित्रनिविष्टधी ।
 पुराण निर्ययेद् वाढ, विशुद्धध्यानसङ्गतः ॥२१२॥
 सत्सारवासनिवृत्ता, शिवसौख्यसमुत्सुका ।
 सद्भिस्ते गदिता प्राज्ञा, शेषा स्वार्थस्य वाचकाः ॥२१३॥
 समतां सर्वभूतेषु, यः करोति सुमानसः ।
 ममत्वभावनिर्मुक्तो, यात्यसौ पदमव्ययम् ॥२१४॥
 इन्द्रियाणां जये शूरः कर्मवधे च कातरः ।
 तत्त्वार्थो हितचेतस्कः स्वशरीरेऽपि निस्पृहः ॥२१५॥
 परीषहमहाराति-बलनिर्दलनक्षमः ।
 कषायविजये शूरः स शूर इति कथ्यते ॥२१६॥
 सत्सारध्वसिनी चर्या, ये कुर्वन्ति सदा नराः ।
 रागद्वेषहर्ति कृत्वा, ते यान्ति परमा गतिम् ॥२१७॥
 मलैस्तु रहिता धीरा, मलदिग्धाङ्गयष्टयः ।
 ते ब्रह्मचारिणो नित्य, ज्ञानाभ्यास सिधेविरे ॥२१८॥

ज्ञानभावनया - शक्ता--निभृतैरन्तरात्मना ।
 अप्रमत्तगुण प्राप्य, लभन्ते हितमात्मनः ॥२१९॥
 ससारवासमीरूणां, त्यक्तान्तर्वाह्यसङ्गिनाम् ।
 विषयेभ्यो निवृत्तानां, श्लाघ्य तेषां हि जीवितम् ॥२२०॥
 सम शत्रौ च मित्रे च, सम मानापमानयोः ।
 लाभालाभे सम नित्य, लोष्टकाञ्चनयोस्तथा ॥२२१॥
 सम्यक्त्वभावनाशुद्ध, ज्ञानसेवापरायणम् ।
 चारित्रचरणासक्त, अक्षीणसुखकाङ्क्षिणम् ॥२२२॥
 ईदृश श्रमण दृष्ट्वा, योऽवमन्येत दुष्टधीः ।
 नृजन्मनः फल सारं, स हारयति सर्वथा ॥२२३॥
 रागादिवर्धन सङ्ग, परित्यज्य दृढव्रता ।
 धीरा निर्मलचेतस्कास्तपस्यन्ति महाधियः ॥२२४॥
 ससारोद्विग्नचित्तानां, नि श्रेयससुखैपिणां ।
 सर्वसङ्गनिवृत्तानां, धन्य तेषां हि जीवितम् ॥२२५॥
 सप्तभीस्थानमुक्तानां, यत्रास्तमितशायिनाम् ।
 त्रिकालयोगयुक्तानां, जीवित सफल भवेत् ॥२२६॥
 आर्तरोद्रपरित्यागात्, धर्मशुक्लसमाश्रयात् ।
 जीवः प्राप्नोति निर्वाण, अनन्तसुखमच्युतम् ॥२२७॥
 आत्मान विनियम्याद्यु, विषयेषु पराङ्मुखः ।
 साधयेत्स्वहित प्राज्ञो, ज्ञानाभ्यासरतो यतिः ॥२२८॥

यथा सङ्ग परित्यागस्तथा कर्मविमोचनम् ।
 यथा च कर्मणा छेदस्तथाऽऽसन्न परं पदम् ॥२२९॥
 यत्परित्यज्य गन्तव्य, तत्स्वकीय कथ भवेत् ।
 इत्यालोच्य शरीरेऽपि, विद्वानाशा परित्यजेत् ॥२३०॥
 नून नात्मा प्रियस्तेषां, ये रता सङ्गसङ्ग्रहे ।
 सन्नासीन्नापकृन्तुच्छ, स्वीकर्तु नैव शक्यते ॥२३१॥
 शरीरमात्रसङ्गेन, भवेदारम्भवर्धनम् ।
 तदशाश्वतमत्राण, तस्मिन्निघ्नान् रतिं त्यजेत् ॥२३२॥
 सङ्गात्सजायते गृद्धि-गृद्धो वाञ्छति सञ्चयम् ।
 सञ्चयाद्वर्धते लोभो, लोभात्ससृष्टिवर्धनम् ॥२३३॥
 ममत्वाज्जायते लोभो, लोभाद्वागश्च जायते ।
 रागाच्च जायते द्वेषो, द्वेषाद्दुःखपरपरा ॥२३४॥
 निर्ममत्व पर तत्र, निर्ममत्व पर सुखम् ।
 निर्ममत्व पर वीज, मोक्षस्य कथित बुधे ॥२३५॥
 निर्ममत्वे सदा सौरय, ससारस्थितिभेदनम् ।
 जायते परमोत्कृष्टमात्मन सस्थिते सति ॥२३६॥
 अर्थो मूलमनर्थाना, अर्थो निर्वृतिनाशनम् ।
 कपायोत्पादकश्चार्थो, दुःखाणा च विधायक ॥२३७॥
 प्राप्तोज्झितानि वित्तानि, त्वया सर्वाणि ससृता ।
 पुनस्तेषु रति कष्ट, भुक्तवान्त इवोदने ॥२३८॥

को वा वित्तं समादाय, परलोक गतः पुमान् ।
 येन तृष्णाग्निस्तप्तः, कर्म वध्नाति दारुणम् ॥२३९॥
 तृष्णान्धा नैव पठ्यन्ति, हित वा यदि वाहितम् ।
 सतोषाञ्जनमासाद्य, पठ्यन्ति सुधियो जना ॥२४०॥
 सतोपसारसद्रत्न, समादाय विचक्षणा ।
 भवन्ति सुखिनो नित्य, मोक्षसन्मार्गवर्त्तिनः ॥२४१॥
 तृष्णानलप्रदीप्तानां, सत्सौख्य तु कुतो नृणाम् ? ।
 दुःखमेव सदा तेषा, ये रता धनसञ्चये ॥२४२॥
 सतुष्टाः सुखिनो नित्यं, असतुष्टा सुदुःखिता ।
 उभयोरन्तरं ज्ञात्वा, सतोपे क्रियतां रति ॥२४३॥
 द्रव्याशां द्रतस्त्यक्त्वा, सतोप कुरु सन्मते ।
 मा पुनर्दीर्घससारे, पर्यटिष्यसि निश्चितम् ॥२४४॥
 ईश्वरो नाम सतोषी, यो न प्रार्थयते परम् ।
 प्रार्थना महतामत्र, पर दारिद्र्यकारणम् ॥२४५॥
 हृदय दह्यतेऽत्यर्थं, तृष्णाग्निपरितापितम् ।
 न शक्य शमन कर्तुं, विना सतोपवारिणा ॥२४६॥
 ये. सतोषोदक पीत्वा, निर्ममत्वेन वासितम् ।
 त्यक्त तैर्मानस दुःख, दुर्जनेनेव साँहृद ॥२४७॥
 ये. सतोषामृत पीत, तृष्णातृडपनाशनम् ।
 तैः सुनिर्वाणसौख्यस्य, कारण समुपार्जितम् ॥२४८॥

संतोष लोभनाशाय, धृतिं वासुखशान्तये ।
 ज्ञान च तपसो वृद्धौ, धारयन्ति दिगम्बरा ॥२४९॥
 ज्ञानदर्शनसपन्न, आत्मा वैको ध्रुवो मम ।
 शेषा भावाश्च मे बाह्या, सर्वे सयोगलक्षणा ॥२५०॥
 सयोगमूलजीवेन, प्राप्ता तु खपरंपरा ।
 तस्मात्सयोगसवध, त्रिविधेन परित्यजेत् ॥२५१॥
 ये हि जीवादयो भावा, सर्वज्ञै भाषिता पुरा ।
 अन्यथा च क्रियास्तेषा, चिन्ता तत्र निरर्थका ॥२५२॥
 यथा च कुरुते जन्तु-र्नमत्प्र विपरीतधीः ।
 तथा हि बन्धमायान्ति, कर्माण्यस्य समतत ॥२५३॥
 अज्ञानावृत्तचित्तानां, रागद्वेषवशात्मना ।
 आरभेषु प्रवृत्ताना, हित नश्यति भीतवत् ॥२५४॥
 परिग्रह परिष्वङ्गा-द्रागो द्वेषश्च जायते ।
 रागद्वेषौ महाबन्ध, कर्मणा भवकारिणाम् ॥२५५॥
 सर्वसद्गान् पशून् कृत्वा, ध्यानान्निनाऽऽहुतिं क्षिपेत् ।
 कर्माणि समिधश्चैव, यागोऽय सुमहाफलम् ॥२५६॥
 राजसूयसहस्राणि, अश्वमेधशतानि च ।
 अनन्तभागतुल्यानि, न स्युस्तेन कदाचन ॥२५७॥
 सा प्रज्ञा या स (श) मे याति, विनियोगपराहता ।
 शेषा निरयदा प्रज्ञा, कर्मोपार्जनकारिणी ॥२५८॥

प्रज्ञाङ्गना सदा सेव्या, पुरुषेण सुखावहा ।
 हेयोपादेयतत्त्वज्ञा, या रता शमकर्मणि ॥२५९॥
 दयाङ्गना च सा सेव्या, सर्वकामफलप्रदा ।
 सेवितासौ करोत्याशु, मानस करुणात्मकम् ॥२६०॥
 मैत्र्यङ्गना सदोपास्या, हृदयानन्दकारिणा ।
 या विधत्ते कृतोपास्ति-चित्त विद्वेषवर्जितम् ॥२६१॥
 सर्वसत्त्वे दया मैत्री, यः करोति सुमानस ।
 जयत्यसावरीन् सर्वान्, वाह्याभ्यन्तरसस्थितान् ॥२६२॥
 स (श) मे नयति भूतानि, यः शक्तो देशनाविवो ।
 कालाद्विलब्धियुक्तस्य, प्रत्यह तस्य निर्जरा ॥२६३॥
 शमो हि न भवेद्येषां, ते नरा पशुसनिभा ।
 समृद्धा र्आप सच्छास्त्रे, कामार्था रतिसङ्गिनः ॥२६४॥
 कर्मणां ध्वसने चित्त, राग मोहारिनाशने ।
 द्वेष कपायवर्गे च, नायोग्यो लब्धुमर्हति ॥२६५॥
 चित्र नरकतिर्यक्षु, भ्रमतोऽपि निरन्तरम् ।
 यतोस्तु विद्यते नैव, स (श)मो दुरितवन्धिनः ॥२६६॥
 मनस्याह्लादिनी सेव्या, सर्वकाल सुखप्रदा ।
 उपनेया त्वया भद्र, क्षमा नाम कुलाङ्गना ॥२६७॥
 क्षमया क्षीयते कर्म, दुःखद पूर्वसचितम् ।
 चित्त च जायते शुद्ध, विद्वेषभयवर्जितम् ॥२६८॥

प्रज्ञा स्या च मैत्री च, समता करुणा क्षमा ।
 सम्यक्त्वसहिता सेव्या, सिद्धिसौधसुखप्रदा ॥२६९॥
 भय या हि भगवद्गीमा-त्प्रीतिं च जिनशासने ।
 शोक पूर्वकृतात्पापात्, यदीच्छेद्धितमात्मनः ॥२७०॥
 कुससर्ग सदा त्याज्यो, दोषाणा प्रविधायकः ।
 सगुणोऽपि जनस्तेन, लघुता याति तत्क्षणात् ॥२७१॥
 सत्सङ्गो हि बुधे कार्य, सर्वकालसुखप्रद ।
 तेनैव गुरुतां याति, गुणहीनोऽपि मानव ॥२७२॥
 साधूना खलसङ्गेन, चेष्टित मलिन भवेत् ।
 सैहिकेयात्समासक्ता, भाभ्यो भानोरपि क्षय ॥२७३॥
 रागादयो महादोषा, खलास्ते गदिता बुधे ।
 तेषा समाश्रयस्त्याज्य-स्तत्त्वविद्धि सदा नरै ॥२७४॥
 गुणा सुप्रजिता लोके, गुणा, कल्याणकारका ।
 गुणहीना हि लोकेऽस्मिन्, महान्तोऽपि मलीमसाः ॥
 सदृगैर्गुरुता याति, कुलहीनोऽपि मानव ।
 निर्गुण सुकुलाद्योऽपि, लघुता याति तत्क्षणात् ॥२७६॥
 सद्वृत्त पूज्यते देवै-राखण्डलपुरस्सरै ।
 असद्वृत्तस्तु लोकेऽस्मिन्, निव्यतेऽसौ सुतेरपि ॥२७७॥
 चारित्र तु समादाय, ये पुनर्भङ्गमागताः ।
 ते साम्राज्य परित्यज्य, दास्यभावं प्रपेदिरे ॥२७८॥

शीलसधारिणां पुसां, मनुष्येषु सुरेषु च ।
 आत्मा गौरवमायाति, परत्रेह च सन्ततम् ॥२७९॥
 आपदो हि महाघोरा--स्तत्त्वसाधनसगतैः ।
 निस्तीर्यते महोत्साहैः, शीलरक्षणतत्परैः ॥२८०॥
 वर तत्क्षणतो मृत्यु, शीलसयमधारिणाम् ।
 न तु सच्छीलहीनानां, कल्पान्तमपि जीवितम् ॥२८१॥
 वरं शत्रुगृहे भिक्षा, याचिता शीलधारिणा ।
 न तु सच्छीलभङ्गेन, साम्राज्यमपि जीवितम् ॥२८२॥
 धनहीनोऽपि शीलाढ्य, पूज्यः सर्वत्र विष्टपे ।
 शीलहीनो धनाढ्योऽपि, न पूज्यः स्वजनेष्वपि ॥२८३॥
 वर सदैव दारिद्र्य, शीलैश्वर्यसमन्वितम् ।
 न तु शीलविहीनाना, विभवाश्चक्रवर्त्तिन ॥२८४॥
 धनहीनोऽपि सद्वृत्तो, याति निर्वाणनाथताम् ।
 चक्रवर्त्यप्यसद्वृत्तो, याति दुःखपरपराम् ॥२८५॥
 सुखरात्रिर्भवेत्तेषां, येषां शील सुनिर्भलम् ।
 न तु सच्छीलहीनाना, द्विवसोऽपि सुखावह ॥२८६॥
 देह दहति कोपाग्नि--स्तत्क्षण समुदीरित ।
 वर्धमान ससासग्र्य चिरकाल समार्जितम् ॥२८७॥
 क्रोधेन वर्धते कर्म, दारुण भववर्धनम् ।
 सकृच्च क्षीयते सद्य--स्तपस्स्य समुपार्जितम् ॥ ॥

सुदुष्टमनसा पूर्वं, यत्कर्म समुपार्जितम् ।
 तस्मिन्फलप्रदेयास्ते कोऽन्येषां क्रोधमुद्बहेत् ॥२८९॥
 छिद्यमाने ऋणे यद्द्व-च्चेतसो जायते धृति ।
 शोध्यमाने तु कर्मणो, किं विमुक्तिर्न जायते ॥२९०॥
 स्पृहित य परित्यज्य, सयत्नं पापमाहरेत् ।
 क्षमा न चेत्करोम्यस्य, मत्कृतघ्नो न विद्यते ॥२९१॥
 शत्रुभावस्थितान्यस्तु, करोति वशवर्त्तिन ।
 प्रज्ञाप्रयोगसामर्थ्या-त्स शूर स च पण्डितः ॥२९२॥
 विवादो हि मनुष्याणा, धर्मकामार्थनाशकृत् ।
 वैराद् वन्धजननोऽपि, नित्यं चाहितकर्मणाम् ॥२९३॥
 धन्यास्ते मानवा नित्य, ये सदा क्षमया युता ।
 वञ्च्यमाना शठैर्लुब्धैर्विवाद नैव कुर्वते ॥२९४॥
 वादेन बहवो नष्टा, येऽपि द्रव्यमहोत्कटा ।
 वरमर्थपग्न्यागो, न विवादं खलै सह ॥२९५॥
 अहकारो हि लोकाना, विनाशाय न वृद्धये ।
 यथा विनाशकाले स्यात्, प्रदीपस्य शिखोज्ज्वला ॥२९६॥
 हीनयोनिषु विभ्रम्य, चिरकालमनेकधा ।
 उच्चगोत्रे सकृत्प्राप्ते, कोऽन्यो मानं समुद्बहेत् ॥२९७॥
 रागद्वेषो महाशत्रू, मोक्षमार्गमलिम्लुचो ।
 ज्ञानध्यानतपोरत्न, हरत सुचिरार्जितम् ॥२९८॥

चिर गतस्य ससारे, बहुयोनिसमाकुले ।
 आत्मा सुदुर्लभा बोधिः, शासने जिनभाषिते ॥२९९॥
 अधुना तां समासाद्य, ससारच्छेदकारिणी ।
 प्रमादो नोचितः कर्तुं, निमेषमपि धीमता ॥३००॥
 प्रमाद ये तु कुर्वन्ति, मूढा विषयलालसाः ।
 नरकादिषु तिर्यक्षुः, ते भवन्ति चिरं नराः ॥३०१॥
 आत्मा यस्य वशो नास्ति, कुतस्तस्य परो जनः ।
 आत्माधीनस्य शान्तस्य, त्रैलोक्य वशवर्त्तितम् ॥३०२॥
 आत्माधीन तु यत्सौख्यं, तत्सौख्यं वर्णितं बुधैः ।
 पराधीन तु यत्सौख्यं, दुःखमेव न तत्सुखम् ॥३०३॥
 पराधीन सुखं कष्टं, राज्ञामपि महौजसां ।
 तस्मादेतत्समालोच्य, आत्मायत्तं सुखं कुरु ॥३०४॥
 आत्मायत्तं सुखं लोके, परायत्तं न तत्सुखम् ।
 एतत्सम्यग्बिजानतो, मुह्यन्ते मानुषा कथम् ॥३०५॥
 नैः सग्याजायते सौख्यं, मोक्षसाधनमुत्तमम् ।
 सगाच्च जायते दुःखं, ससारस्य निबन्धनम् ॥३०६॥
 पूर्वकर्मविपाकेन, वाधायां यत्तु शोचनम् ।
 तदिदं तु श्वदष्टस्य, जरत्खेऽथाहिताडनम् ॥३०७॥
 अज्ञे हि बाधते दुःखं, मानसं न विचक्षणे ।
 पवनैर्नीयते तूलं, मेरोः शृङ्गं न जातुचित् ॥३०८॥

परं ज्ञानफल वृत्त, न विभूतिर्गरीयसी ।
 तथाहि वर्धते कर्म, सद्वृत्तेन विमुच्यते ॥३०९॥
 सवेग परम कार्य, श्रुतस्य गदित बुधै ।
 तस्माद् ये धनमिच्छन्ति, ते त्विच्छत्यमृताद्विषम् ॥३१०॥
 श्रुत वृत्त स(श)मो येषां, धन परमदुर्लभम् ।
 ते नरा धनिन प्रोक्ता, शेषा निर्धनिन सदा ॥३११॥
 कोवा तृप्तिं समायातो, भोगैर्दुरितबन्धने ।
 देवो वा देवराजो वा, चक्राको वा नराधिप ॥३१२॥
 आत्मा वै सुमहत्तीर्थं, यदासौ प्रशमे स्थित ।
 अथास्य प्रशमो नास्ति, ततस्तीर्थ निरर्थकम् ॥३१३॥
 शीलव्रतजलस्नाने, शुद्धिरस्य शरीरिण ।
 न तत्स्नातस्य तीर्थेषु, सर्वेष्वपि महीतले ॥३१४॥
 रागादिवर्जन स्नान, ये कुर्वन्ति दयापरा ।
 तेषां निर्मलतायोगो, न तु स्नातस्य वारिणा ॥३१५॥
 आत्मान स्नापयेन्नित्य, ज्ञाननीरेण चारुणा ।
 येन निर्मलता याति, जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥३१६॥
 सर्वाशुचिमये काये, शुक्रशोणितसभवे ।
 शुचित्व येऽभिवाञ्छन्ति, नष्टास्ते जडचेतसः ॥३१७॥
 औदारिकशरीरेऽस्मिन्, सप्तधातुमयेऽशुचो ।
 शुचित्व येऽभिमन्यन्ते, पशवस्ते न मानवाः ॥३१८॥

सत्येन शुध्यते वाणी, मनो ज्ञानेन शुद्ध्यते ।
 गुरुशुश्रूषया काय, शुद्धिरेषा सनातनी ॥३१९॥
 स्वर्गमोक्षोचित्त नृत्व, मूढैर्विषयलालसैः ।
 कृत स्वल्पसुखस्यार्थे, तिर्यग्भ्रकभाजनम् ॥३२०॥
 सामग्री प्राप्य सपूर्णा, या विजेतु निरुद्यमः ।
 विषयारिमहासैन्य, तस्य जन्म निरर्थकम् ॥३२१॥
 निरवद्य वदेद्वाक्य, मधुर हितमर्थवत् ।
 प्राणिनां चेतसो ह्लादि, मिथ्यावाद्विबहिष्कृतम् ॥३२२॥
 प्रियवाक्यप्रदानेन, सर्वे तुप्यन्ति जन्तवः ।
 तस्मात्तदेव वक्तव्य, किं वाग्येऽपि दरिद्रता ॥३२३॥
 व्रतं शील तपो दान, सयमोऽर्हत्प्रपूजनम् ।
 दुःखविच्छिन्नये सर्व, प्रोक्तमेतन्न सशयः ॥३२४॥
 तृणतुल्य परद्रव्यं, पर च स्वशरीरवत् ।
 पररामां समां मातुः, पश्यन् याति परं पदम् ॥३२५॥
 सम्यक्त्वसमतायोगो, नै सग्य क्षमता तथा ।
 कषायविषयासङ्ग, कर्मनिर्जरण परम् ॥३२६॥
 अयं तु कुलभद्रेण, भवविच्छित्तिकारणम् ।
 दृढो बालस्वभावेन, ग्रन्थः सारसमुच्चयः ॥३२७॥
 ये भक्त्या भावयिष्यन्ति, भवकारणनाशनम् ।
 तेऽचिरेणैव कालेन, सुख प्राप्स्यति शाश्वतम्,

सारसमुच्चयमेत, ये पठन्ति समाहिता ।

ते स्वल्पेनैव कालेन, पठ यास्यन्त्यनामयम् ॥३२९॥

नम परमसद्धान-विघ्ननाशनहेतवे ।

महाकल्बाणसपत्ति-कारिणेऽरिष्टनेमये ॥३३॥

॥ सारसमुच्चय समाप्त ॥

१८ अध्यात्मविन्दुप्रथमद्वात्रिंशिका

ब्रूम. किमध्यात्ममहत्प्रमुच्चै-र्यस्मात्पर स्व च विभ-
ज्य सम्यक्,
समूलघात विनिहत्य घाति, नाभेयभू केवलमास-
साढ ॥ १ ॥

लब्धार्थत्वमथ प्रपद्य च गुरोर्नैकद्वयमेन क्षयात् ,
श्रुत्वाध्यात्ममथ प्रपीय च ततस्तत्त्वामृत यत्पुन
क्षेत्रज्ञं किल मोमुहीति विषय-ग्रामेषु वद्धस्पृह
तन्नून त्रिजगज्जये धृतिमतो मोहस्य विस्फूर्जितम् २
धत्तेऽम्भोधिर्जवन'पवनाच्छोटनोन्मूर्च्छदुग्रो-
होलश्रेणिचटुलितवपुर्व्याकुलत्व यथायम्,
निष्कपोऽपि स्वरसवशत कर्मकपाक'सग,
तद्वत् क्षुभ्यत्ययमपि पर पूरुप सप्रपद्य ॥ ३ ॥

कुम्भोदचनवर्धमान--करक-स्थाल्याद्यवस्थान्तरा -
 प्येकोऽपि ध्रुवमम्बुयोगवशतो मृदुद्रव्यपिण्डोऽश्नुते,
 तद्वत्कर्मजलीययोगमुपलभ्यात्मापि तिर्यङ्गरा--
 मर्त्यप्रेतपुरोगजातिनिकरत्वेन स्वय जायते ॥४॥
 भूतार्थो ननु निश्चयः तदितरोऽभूतार्थमावेदयन्,
 सत्याज्यो नितरां यतः स्वपरयोर्भेदे स वीज न हि,
 भूतार्थस्तु विशुद्धवस्तुकलना--भिज्ञो ध्रुव यत्ततो,
 भूतार्थं ननु सश्रितो विशदधी सम्यग्दृशात्मा भवेत् ५
 व्यवहरणनयोऽय पुंस्वरूपं विकारि,
 भणति च नवतत्त्वेर्मुद्रित क्षुद्ररूपम्,
 अवुधजनविवोधा--र्थ किलास्योपदेशो,
 जिनसमयविमूढ. केवल य श्रितोऽमुम् ॥६॥
 आत्मास्वरूपं पररूपमुक्त, अनादिमध्यान्तमकर्त्रभोक्तृ,
 चिदकितं चान्द्रकरावदात्, प्रद्योतयन् शुद्धनयश्च-
 कास्ति ॥ ७ ॥
 तीर्थप्रवृत्त्यर्थमय फलेग्रहिल्लिकालविद्भिर्व्यवहार उक्त
 पर पुनस्तत्त्वविनिश्चयाय, नयद्वयान्त'हि जिनेन्द्र-
 दर्शनम् ॥८॥
 ये यावन्तो ध्वस्तवन्धा अभूवन्, भेदज्ञानाभ्यास
 एवात्र वीजम्,

येऽप्यध्वस्तवन्धा भ्रमन्ति, तत्राभेदज्ञानमेवेति विद्मः॥९॥
 भेदज्ञानाभ्यासतः शुद्धचेता, नेता नाथ नव्यकर्मा-
 वलीनाम्,

(शुद्ध निरुपराग चित्त यस्य तादृशो यः सम्यग्दृष्टिः)
 लीनां स्वस्मिस्तामयँस्तां नितान्त, तां त स्वीयरूप-
 मुज्जीवयेत् ॥१॥

अज्ञानतो मुद्रित^१ भेदसविच्छक्तिः किलाय पुरुषः पुराण,
 परात्मनोस्तत्त्वमसविदान कर्तृत्वमात्मन्यसकृत्प्रयुक्ते
 ॥११॥

स्वतोऽन्यतो वाप्यधिगत्य तत्त्व, यद्येप देव किल
 सप्रबुद्ध

द्रव्य पर नो मम नाहमस्ये-तीयर्ति^२ बुद्धिं यदि
 वध्यते किम् ॥१२॥

प्रमाणनिक्षेपनया समेऽपि, स्थिता पदेऽध किल
 वर्त्तमाने,
 प्रपश्यता शातमनः समूर्ध्व, पद न चैषा कतमोऽपि
 भाति ॥१३॥

वन्धोदयोदीरणसत्त्वमुख्या, भावाः प्रवन्धः खलु
 कर्मणा स्यात्,
 एभ्य पर यत्तु तदेव धामास्म्यह पर कर्मकलकमुक्तम्॥

वातोल्लसत्तुङ्गतरङ्गभगा-द्यथा स्वरूपे जलधिः समास्ते,
तथायमात्माखिलकर्मजन्य--विकारनाशात्स्पृशति

स्वरूपम् ॥१५॥

चेद्रूप्यमेकमपहाय परे किलामी,
यावन्ति एव पुरुषेऽत्र लसन्ति भावा.
तान् सप्रपद्य च परत्वधिया समस्ता-
नास्ते यदास्त्रवति किं ननु कर्म नव्यम् ॥१६॥

शरीरससर्गत एव सन्ति,वर्णादयोऽमी निखिलाः पदार्था.
जांबूनदादेरुपधेरिव द्राग् वैशद्यभाजि स्फटिके तरङ्गाः॥

स्फटिकमणिरिवाय शुद्धरूपश्चिदात्मा,
भजति विविधभाव द्वेपरागाद्युपाधेः
यदपि तदपि रूपं नैव जाहात्यय स्व,
न खलु भवति चान्द्री ध्वान्तरूपा मरीचि ॥१८॥

पर स्वात्मत्वेन स्वमपि च परत्वेन कलयन्,
अय रागद्वेषाद्यनियतविभावे. परिणत
ततो रज्ये रुष्याम्यहमिति विकल्पाननुकल,^१
प्रकुर्वन् जीवोऽयं ननु जगति कर्माणि कुरुते ॥१९॥

भूताविष्टो नर इह यथा ज्ञानतः स्व च भूतं,
त्वैकीकुर्वन् भवति विसदृक् चेष्टितानां विधाता,

अप्यात्माय निजपरविवे--कच्युत कामकोपा-
 दीना कर्त्ता भवति नितरा शुद्धचिद्रूपकाणाम् ॥२॥
 व्याप्ये व्यापकभावत प्रकुरुते जीव स्वभावान् यथा,
 भावाद्देदकवेद्यतोऽनुभवति स्वास्तान् स्वभावान् पुन
 तद्वद्देदयतेऽथवा प्रकुरुते भावान् पराश्रेद्य,
 स्यादेव हि कृतिद्वयस्य करणात्सिद्धान्तवाधस्फुटम् ॥

सर्वे भावा निश्चयेन स्वभावान्,
 कुर्वन्तीत्य साधुसिद्धान्ततत्त्वम्,
 भिन्नद्रव्यीभूतकर्मप्रपञ्च,
 जीव कुर्यात्तत्कथ वस्तुतोऽयम् ॥ २२ ॥

गगो द्वेषो मोह इत्येवमाद्या,
 भावा नून शुद्धचिद्रूपका स्यु
 रोधादेषा जायते द्रव्यकर्मा-
 भावस्तस्मान्निर्विकारानुभूति ॥२३॥

ज्ञान ज्ञाने भवति न खलु क्रोधमुख्येषु तत्स्यात्,
 क्रोध क्रोधे न हि पुनरय पूरुपे चित्स्वरूपे,
 कर्मद्वन्द्वे न हि भवति चिच्छिन्नकर्मविरुद्धे-
 तीत्य शुद्धग्रहणरसिक कि विधत्तेऽन्यभावम् ॥२४॥

यदात्मनाऽऽत्माऽऽस्त्रययोर्विभेदो,

ज्ञातो भवेत् ज्ञानदशा तदानी,

निवर्त्ततेऽज्ञानजकर्त्तृकर्म-

प्रवृत्तिरस्मान्निखिलापि मक्षु^१ ॥२५॥

स्वत्वेन स्वं परमपि पर-त्वेन जानन्समस्तात् ,

स द्रव्येभ्यो विरमणमित-श्चिन्मयत्प्र प्रपन्नः

स्वात्मन्येवाभिरतिमुपयन्स्वात्मशीली स्वःशी-

त्येव कर्त्ता कथमपि भवेत् कर्मणो नैव जीयः ॥२६॥

व्याप्त यत्किल वर्वृतीति निखिला-वस्थासु याद्रूप्यतो,

जातु स्यान्न तदात्मताविरहित तेनाऽएव साक भवेत्;

तादात्म्य तदिह स्फुरन्न च भव-न्मुक्तो नितान्त ततो,

वर्णादिः सकलो गणो न तु पर-द्रव्यत्वमेव श्रयेत् ॥२७॥

अनवरतमनन्तान्, भावयन् कल्पनोधान्,

कथमिव परतत्त्वा वध्यसे कर्मजालैः

यदि सकलविकल्पातीतमेकं स्वरूप-

मनुभवति ततः किं, ससृतिः किं च बन्धः ॥२८॥

किं मुग्ध ! चिन्तयसि कामम^२ सिद्धकल्पान्,

तद्ब्रह्मरूपमनिशं परिभात्रयस्व;

यल्लामतोऽस्ति न परः पुनरिष्टलाभो,

यदर्शनाच्च न परं पुनरस्ति दृश्यम् ॥२९॥

पंथा विमुक्तेर्भविनां न चान्यो,

यतः पर. केवलिभिः प्रदिष्टः

आनन्दबोधावपि यद्विहाय,
 पदे परस्मिन्न कदापि भात ॥३०॥
 यत्पञ्चेन्द्रियवर्जित प्रविगलत्-कर्माटक प्रखल-
 स्वान्त विग्रहपञ्चकेन वियुत स्पृष्ट न च प्रत्ययैः
 शान्त शास्वतमक्रिय निरुपधि द्रव्यान्तरासङ्गत,
 विष्वक् प्रोहसदर्चिषा परिगत तत्त्व तदेवास्म्यहम् ॥३१॥
 इत्येव सप्रधार्य द्रुततरमखिल-भेदसचिद्वलेन,
 जीवाजीवप्रपञ्च विदलति किल यो मोहराजानुवृत्तिं,
 ज्ञानानन्दस्वरूपे भगवति भजति स्वात्मनि स्थैर्यमाशु,
 प्रक्षिप्याज्ञानभाव स भवति अचिरा-च्छुद्ध आत्म-
 स्वरूप. ॥३२॥

इति स्वोपज्ञाध्यात्मविन्दुविवरणे सदुपाध्याय-
 श्रीमद्दर्पवर्धनविरचिता प्रथमद्वात्रिंशिका सपूर्णा

१९ श्रीमुनिचंद्रसूरिकृता

मौक्षोपदेशे पंचाशत्.

- शुद्धध्यानलवित्रेण, समूलः क्लेशपादपः
 विलूनो येन स सदा, जिनो जीयाज्जगत्पतिः ॥१॥
- समस्त्यसुखो मोह-मूलो भवविपद्रुमः
 विलीनाति चिरालीन-वासनाजललालित ॥२॥
- आधयो विविधावस्था, व्याधयश्चाधमाधमाः
 जन्ममृत्युजराश्चास्य, स्वं स्वरूप जिनैर्मतम् ॥३॥
- दुर्भगत्वदरिद्रत्व-विरूपत्वपुरस्तराः
 विडम्बना. फल प्राहु-विडम्बितजगज्जना ॥४॥
- चतस्रो गतयः शाखा, नानादु खफलाकुलाः
 तासु यहुःखमारव्यात, तदिदानी निरूप्यते ॥५॥
- पञ्चेन्द्रियवधासक्ता, मांसाशनकृतादराः
 जायन्ते नरके जीवा, वहवारम्भपरिग्रहा. ॥६॥
- कुम्भीपाकेन पच्यन्ते, पिष्टवन्नष्टचेतना
 तत्र मुञ्जादिवच्चेते, हन्यन्ते लगुडैर्दृढै ॥७॥
- वज्रयन्त्रेषु पीड्यन्ते, निविडन्ते तिलेक्षुवत्,
 भ्रा.भूमिषु भृज्यन्ते, निस्त्राणाश्चणकादिषु

दारुवद्दारुणाकारे-श्छिद्यन्ते च परश्वधे
 भिद्यन्ते प्र.सकुन्ताद्यै-राखेटकमृगादिवत् ॥११॥
 तप्त त्रपु च पाय्यन्ते, ह्याछोटयन्ते शिलातले,
 आकीर्णां व षट्कैस्तीक्ष्णै-रारोप्यन्ते च शात्मलीम्
 काककङ्कशृगालाद्यै-र्भक्ष्यन्तेऽत्यन्तनिर्दये
 तार्यन्ते तरण रीणा, वैतरिण्याः सुराधमै. ॥११॥
 यस्य जिह्वाशत वक्त्रे, यो जीवेच्छरदां शतम्;
 सोऽपि वक्तु क्षमो न स्या-दशर्म नरकेषु यत् ॥१२॥
 कूटमानतुलाग्रन्तो, मिथ्याभाषणनत्पराः
 मायापिनो जना यान्ति, तैरश्च जन्म निश्चितम् ॥१३॥
 यादृश नरके दु ख, तिर्यक्ष्वपि च तादृशम्,
 यतो वाहनदोहाया, व्यापदोऽत्र सुदुस्तरा. ॥१४॥
 क्षुत्तृष्णावाधिता दीना, पारवश्यमुपागता.
 वहन्ति पशवो भार, पृष्ठकण्ठसमर्पितम् ॥१५॥
 केचनोद्वाहदोषेण, दाहदोषेण केचन,
 केचिद्दुःशघातेन, कशाघातेन केचन ॥१६॥
 केचिद्वधेन वन्धेन, निरोधेन च केचन,
 कर्णपुच्छुत्त्रिच्छेद-न।सावेधादिभिस्तथा ॥१७॥
 अपारदु खसम्भार-मध्यमग्ना दिवानिशम्,
 साक्षादेवेह दृश्यन्ते, तिर्यञ्चो वञ्चिताः शुभै ॥१८॥

सामान्यदानदातार-स्तुच्छकोपादिकिल्बिणः
 लभन्ते मानुषं नन्म, जन्मिनो मध्यमैर्गुणैः ॥२३॥
 रौद्रदारिद्र्यतस्तत्र, मृतभावातिशायिनः
 केचित्कथञ्चिजीवन्ति, मानवा मानवार्जिनः ॥२४॥
 केचिन्निष्ठुरकुष्टेन, सुष्ठु कष्टां दशां गन्तः
 अन्ये ज्वरातिसारादि-रोगोरगविपातुः ॥२५॥
 परकर्मकराः केचि-न्मलिनाननलोचनः
 दृश्यन्ते क्लेशजलधौ, मग्ना मग्नाश्चन्द्रानाम्ना
 अन्ये स्फुन्धसमारूढ-प्रौढभाराद्भ्रष्टः
 जीवन्त्यतिजघन्येन, कर्मणा शर्मणाश्चन्द्रानाम्ना
 ज्वलज्वलनसम्पर्क-कर्कशैर्विचन्द्रानाम्ना
 केचित्तापितसर्वाङ्गा, ग्लायन्ति ग्लायन्तिश्चन्द्रानाम्ना
 अकामनिर्जरादिभ्यः केचन सु सुश्चन्द्रानाम्ना
 कुत्रापि न सुखख्यातिः, काश्चिन्मृगश्चन्द्रानाम्ना
 वितुद्यमानहृदया, ईप्यान्मृगश्चन्द्रानाम्ना
 विपादवह्नावह्नाय, निश्चिन्मृगश्चन्द्रानाम्ना
 कण्ठलोठितवादित्रा, दृश्यन्मृगश्चन्द्रानाम्ना
 रङ्गस्यानेऽवतार्यन्ते, दीप्यन्मृगश्चन्द्रानाम्ना
 स्तम्बेरमतुरङ्गादि-वह्न्मृगश्चन्द्रानाम्ना
 दयावाह्य च वाह्यन्ते, चन्द्रानाम्ना

चण्डालाकृतयः केचि—चण्डदण्डेर्निपीडिताः
 स्वप्नेऽप्यलब्धसञ्चारा पुरन्दरसभादिषु ॥२९॥
 स्वर्गच्युतिं विलीन च, गर्भज बाललोलनम्,
 पश्यन्तो यत्र भिद्यन्ते, तद्वच्च तनवः सुरा ॥३०॥
 यथेह लवणाम्भोभि पूरितो लवणोदधिः
 शारीरमानसैर्दु खे—रसद्वयेयैस्तथा भव ॥३१॥
 केचित् स्वप्नात्तधनव—न्नतथ्यमिह किञ्चन,
 असारं राज्यवाज्यादि, तुपकण्डनवत्तथा ॥३२॥
 तडिदाडम्बराकार, सर्वमत्यन्तमस्थिरम्,
 मनोविनोदफलद, बालधूलीग्रहादिवत् ॥३३॥
 यश्च कश्चन कस्यापि, जायते सुखविभ्रम
 मधुदिग्धासिधाराग्र—ग्रासवन्नैष सुन्दरः ॥३४॥
 अत एव विरज्यन्ते, नीरजोज्ज्वलमानसाः
 रोगादिव भुजङ्गाद्वा, ससारावासतोऽमुतः ॥३५॥
 यतन्ते च सदानन्द—सुधानीरधयेऽधिकम्,
 परमब्रह्म सज्ञाय, पदाय विगतापदे ॥३६॥
 स्मरज्वरजरामुरया, दोषा भवभुवोऽत्र ये,
 सर्वथा ते न सन्त्येव, यत्र तत्परम पदम् ॥३७॥
 सर्वकल्याणसयोग सर्वमङ्गलसङ्गम
 सर्वोपादेयसीमा च, यतस्तन्मृग्यते बुधै ॥३८॥

पयाऽमृतस्तास्वादी, नान्यत्र रमते जनः
 तथा मुक्तिसुखामिज्ञो, रज्यते न सुखान्तरे ॥१२१॥
 तीर्णप्रायभवान्भोवि-र्धृत सम्मोहकश्मलः
 श्चिदेव महाभागो, भवेत्सिद्धिसुखोन्मुखः ॥१२२॥
 चौरकुलपयप्राप्तौ, यादृशो दुर्गसङ्ग्रहः
 गन्तीरसलिलेऽन्मोर्धो, द्वीपातिरथवा यथा ॥१२३॥
 मलागलगुहायां वा, ज्वलद्भिर्नर्मणिर्यथा
 विंको निर्मलस्तद्वत्, पुष्पभाजां विजृम्भते ॥१२४॥
 क्रियामिज्ञानमृलाभि-मोक्षोऽक्षेपेण सिध्यति,
 ताः पुनर्देवतापूजा, गुणसेवाद्यो मता. ॥१२५॥
 विशुद्धकेवलालोक-विलोकितजगत्त्रयं
 प्रातिहारिमहापूजा-जनितात्मविस्मयं ॥१२६॥
 सतस्तजगतानेक, नालिनाणिक्यमुज्ज्वलम्ः
 बर्हन्नेव सत्रां देवो, देवतागुणभूषितं
 शुद्धगृहीतशास्त्रार्थः परं निस्तद्गुणं ॥१२७॥
 मार्चण्डमण्डलसमो, मय्यास्ये
 गुणानां पालनं चैव, ॥१२८॥
 यस्मात् सदेव ॥१२९॥
 म
 अ

अक्षुद्रता दया दाक्ष्यं, क्षमा चाक्षविनिग्रहः
 न्यायानुवृत्तिरनघा, यत्नश्च श्रुतशीलयो ॥४९॥

समानधर्मवात्सल्य, यतिधर्मादर पर
 इत्यादिकुशलारम्भो, मुक्तिमार्गतया मत ॥५०॥

मोक्षोपदेशपञ्चाश-देवा भाव्या मुमुक्षुभि
 स्यान्मुनीन्द्रमुनीशेष्टं, येन मुक्तौ स्थिरं मत ॥५१॥

इति श्रीमुनिचद्रसूरिकृता मोक्षोपदेश-
 पञ्चाशत् समाप्ता

२० श्री सभ्यक्त्व-स्वरूप-स्तव.

जह सम्मत्तसरूव, परूविअ वीरजिणवरिंढेण,
 तह कित्तणेण तमहं, थुणामि सम्मत्तसुद्धिकये १
 सामि ! अणाडअणंते, चउगडसंसारघोरकांतारे,
 मोहाइ कम्मगुरुठिइ-विवागवसओ भमइ जीवो. २
 पल्लोवलमाइअहा-पवत्तिकरणेण कोवि जइ कुणइ;
 पलिआ असंखभागुण-कोडिकोडिअयरठिइ सेस ३
 तत्थवि गठी घणराग-दोसपरिणइमय अभिहिंतो,
 गठीय जीवोवि हहा, न लहइ तुह वसण नाह ! ४
 पहिलिय पविलियनाएण, कोवि पज्जत्तसन्नीपंचिंदी,
 भवो अवड्डुपुग्गल-परियट्टवसेसससारो ५
 अपुव्वकरणमुग्गर-घायविहियदुट्टगठीभेओ सो,
 अतमुहुत्तेण गओ, नियट्ठीकरणेवि सुज्जतो ६
 सो तत्थ रणे सुहडोव, वयरीजयजणियपरमआनद,
 सम्मत्त लहइ जीवो, सामन्नेण तुह पसाया ७
 त चेगविह दुविह, तिविह तह चउविह च पंचविह;
 तत्थेगविह जत्तुह, पणीयभावे सुतत्तरुड. ८
 दुविहं तु दवभावा, निच्छयववहारओवि अहवावि
 निस्सग्गुवएसाओ, तुह वयणविऊहिं निदिट्ट. ९

- तुह वयणे तत्तरुइ, परमत्थमजाणओवि दव्वगय,
सम्म भावगय पुण, परमत्थवियाणओ होइ १०
- निच्छयओ सम्मत्त, नाणाइमयप्पस्सुहपरिणामो,
इयर पुण तुह समये, भणिय सम्मत्तहेऊहिं ११
- जल-वत्थ-मग्ग-कुइव-जराइनायेण जेण पन्नत्तं,
निस्सग्गुवएसभव, सम्मत्त तस्स तुब्भ नमो. १२
- तिविह कारग-रोअग-दीवगभेएहिं तुह मयविऊहिं,
खाओवसमोवसमिय-क्खाइयभेएहि वा कहिय १३
- ज जह भणिय तुमए, त तह करणमि कारगो होइ,
रोअग-सम्मत्त पुण, रुइमित्तकर तु तुह धम्मे १४
- सयमिह मिच्छदिट्ठी, धम्मकहाईहिं दीवइ परस्स,
दीवग-सम्मत्तमिण, भणति तुह समयमइणो १५
- अपुव्वकयत्तिपुजो, मिच्छमुइन्न खावत्तु अणुइन्न,
उवसामिय अनियट्ठी-करुणाओ पर खओवसमी १६
- अकयत्तिपुजो ऊत्तग-दव-इलिय-दड्डु-रुक्खनाएण,
अंतरकरणुवसमिओ, उवसमिओ वा ससेणिगओ १७
- मिच्छाइखए खइओ, सो सत्तगि खीणि ठाइ वच्चाऊ,
चउतिभवभाविमुक्खो, तव्वभवसिद्धिवि इयरो वा. १८
- चउहा उ सासाण, गुडाइवमणुव्व मालपडणुव्व,
उवसमिओ उ पडतो, सासाणो मिच्छमप्पत्तो १९

वेअगजुअ पंचविहं, तं च तु दुपुंजखयंमि तइयस्स,
खयकालचरमसमये, सुद्धाणुवेयगो होइ. २०

अतमुहुत्तो-वसमो, छावलिय सासण वेयगो समओ,
साहियत्तिचीसायर, खइओ दुगुणो खओवसमो. २१

उक्कोस सासायण, उवसमिया हुंति पचवाराओ,
वेयग खयग इकसी, असखवारा खओवसमो २२

वीयगुणे सासाणो, तुरियाइसु अट्टिगार-चउ-चउसु,
उवसमग-खइग-वेयग-खाओवसमा कमा हुति. २३

तिस्सुद्धि-लिंग लक्खण-दूसण-भूसण-पभावगागारा,
सइहण जयण भावण ठाण विणय गुरुगुणाइयं. २४

वित्थारं तुह समया, सया सरंताण भवजीवाणं,
सामिय तुह प्पसाया, हवेऊ सम्मत्तसपत्ति. २५

२१ आठ दृष्टिनी सञ्जाय.

ढाल १ ली

चतुर सनेही मोहना-ए देशी.

शिवसुखकारण उपदिशी, योगतणी अड दिह्ठी रे,
ते गुण धुणी जिनवीरनो, करशु धर्मनी पुढी रे-
वीर जिनेसर देशना १

सघन अघन दिनरयणीमां, बाल विकल ने अनेरा रे,
अर्थ जुए जेम जूजुआ, तेम ओघनजरना फेरा रे-वी. २
दर्शन जे थया जूजुआं, ते ओघनजरने फेरे रे,
भेद थिरादिकदृष्टिमां, समकितदृष्टिने हेरे रे- वी ३
दर्शन सकलना नय ग्रहे, आप रहे निज भावे रे,
हितकरी जनने सजीवनी, चारो तेह चरावे रे- वी ४
दृष्टि थिरादिक चारमां, मुगतिप्रयाण न भाजे रे,
रयणीशयन जेम श्रम हरे, सुरनर सुख तेम छाजे रे-वी ५
एह प्रसगथी में कह्यु, प्रथम दृष्टि हवे कहीए रे,
जिहां मित्रा तिहां बोध जे, ते तृणअगनिसो लहीए
रे-वी. ६

वृत्त पण इहां यम सपजे, खेद नहि शुभ काजे रे,
द्वेष नहि वळी अवरशु, अेह गुण अग विराजे रे-वी ७
योगना बीज इहां ग्रहे, जिनवर शुद्ध प्रणामो रे,
भावाचारजसेवना, भवउद्देग सुठामो रे- वी ८

द्रव्यअभिग्रह पाळवा, ओपधप्रमुखने दाने ३
 आदर आगमआसरी, लिखनादिक वदु ३
 लेखन पूजन आपवु, श्रुतवाचनाउदु ३
 भावविस्तार सञ्जायथी, चिंतन भावन ३
 वीजकथा भली सांभळी, रोमांचिन ३
 एह अवचक योगथी, लहीए धरम ३
 सद्गुरुयोगे वदनक्रिया, तेहथी फळ ३
 योग क्रिया फळ भेदथी, त्रिविध अचक ३
 चाहे चकोर ते चदने, मधुकत म ३
 तेम भवि सहज गुणे होये, उत्तम निर्दिष्ट ३
 अेह अवचक योग ते, प्रगटे चरनादरे ३
 साधुने सिद्धदशासमु, वीजनु ३
 करण अपूर्वना निकटथी, जे ३
 मुख्यपणे ते इहां होये, सुयश ३
 ढाल २ ३

दर्शन तारादृष्टिमां मनमोहन मं०, ३
 शौच सतोष ने तप भलु म०, ३
 नियम पच इहां सपजे म०, ३
 जिज्ञासा गुणतरवनी म०, ३
 एह दृष्टि होय वरततां म०, ३
 अनुचित तेह न आचरे म०, ३

विनय अधिक गुणीनो करे म०, देखे निज गुण हाण म.
 त्रास धरे भवभयथकी म०, भव माने दुःखखाण म. ४
 शास्त्र घणां मति थोडली म०, शिष्ट कहे ते प्रमाण म
 सुयश लहे अे भावथी म०, न करे जूठ डफाण म ५

ढाल ३ जी

प्रथम गोवाळतणे भरेजी-ए देशी.

त्रीजी दृष्टि वला कहीजी, काष्ठ अग्नि सम बोध,
 क्षेप नहि आसन सधेजी, श्रवण समीहा सोध रे-
 जिनजी, धन धन तुज उपदेश १
 तरुण सुखी स्त्रीपरिवर्योजी, जेम चाहे सुरगीत,
 सांभळवा तेम तत्वनेजी, अे दृष्टि सुविनीतरे जि ध २
 सरी ए बोधप्रवादनीजी, ए विण श्रुत थलकूप,
 श्रवणसमीहा ते किसीजी, शयित सुणे जेम भूप रे जि ध ३
 मन रीझे तन उल्लसेजी, रीझे बुझे एकतान,
 ते इच्छाविण गुणकथाजी, वहेरा आगळ गान रे-जि ध ४
 विघन इहां प्राये नहिजी, धर्महेतुमां कोय,
 अनाचारपरिहारथीजी, सुयश महोदय होय रे-जि ध. ५

ढाल ४ थी

झाझरिया सुनिवर, धन धन तुम अवतार-ए देशी.

योगदृष्टि चोथी कहीजी, दोस्ता तिहा न उत्थान,
 प्राणायाम ते भावथीजी, दीप प्रभा सम ज्ञान-

मनमोहन जिनजी, मीठी ताहरी वाण. १
 वाह्यभाव रेचक इहांजी, पूरक अंतरभाव,
 कुभक थिरता गुणे करीजी, प्राणायाम स्वभाव—म. २
 धर्मअर्थे इहां प्राणनेजी, छांडे पण नहि धर्म,
 प्राणअर्थे सकट पडेजी, जुओ अे दृष्टिनो मर्म—म ३
 तत्वश्रवण—मधुरोदकेजी, इहां होये वीजप्ररोह,
 खारउदकसम भव त्यजेजी, गुरुभगति अद्रोह—मन.४
 सूक्ष्मबोध तो पण इहांजी, समकितविण नवि होय,
 वेद्य संवेद्य पदे कह्योजी, ते न अवेद्ये जोय—मन. ५
 वेद्यवध शिवहेतु छेजी, सवेदन तस नाण,
 नय निक्षेपे अति भलुजी, वेद्य सवेद्य प्रमाण—मन.६
 ते पद अथिविभेदधीजी, छेली पापप्रवृत्ति,
 तस लोह पद धृति समीजी, तिहां होय अत निवृत्ति—म०
 एहथकी विपरीत छेजी, पद ते अवेद्य सवेद्य,
 भवाभिनदी जीवनेजी, ते होय ब्रजअभेद्य—मन ८
 लोभो कृपण दयामणोजी, मायी मच्छरठाण,
 भवाभिनदी भयभयोंजी, अफल आरंभअयाण—मन.९
 एवा अवगुणवतनुंजी, पद छे अवेद्य कठोर,
 साधुसग आगमतणोजी, ते जीत्यो धुरंधोर—मन०१०
 ते जीते सहेजे टळेजी, विपम कुतर्कप्रकार,
 दूर निकट हाथी हणेजी, जेम वे बठर विचार—मन ११—

हुं पाम्यो सशय नहिजी, मूरख करे ए विचार,
 आळसु आ गुरु शिष्यनोजी, ते तो वचनप्रकार-मन-
 धीजे ते पती आववुजी, आपमते अनुमान,
 आगमने अनुमानथीजी, साचु लहे सुज्ञान-मन १३
 नहि सर्वज्ञ जुजूआजी, तेहना जे वळी दास,
 भक्ति देवनी पण कहीजी, चित्र अचित्र प्रकाश-म०
 देव संसारी अनेक छेजी, तेहनी भक्ति विचित्र,
 एक राग पर द्वेषथीजी, एक मुगतिनी अचित्र-मन०
 इन्द्रियार्थगत बुद्धि छेजी, ज्ञान छे आगमहेत,
 असमोह शुभ कृतिगुणेजी, तेणे फलभेदसकेत-मन०
 आदर किरिया रति घणीजी, विघन टळे मिले लच्छी,
 जिज्ञासा बुद्धसेवनाजी, शुभ कृति चिन्ह प्रत्यच्छी-म०
 बुद्धिक्रिया भवफळ दियेजी, ज्ञानक्रिया शिवअग,
 असंमोहकिरिया दियेजी, शीघ्र मुगतिफळ चग-म०
 पुद्गलरचना कारमीजी, तिहा जस चित्त न लीन,
 एक मार्ग ते शिवतणोजी, भेद लहे जग दीन-म १९
 शिष्यभणी जिनदेशनाजी, कहे जन परिणति भिन्न,
 कहे मुनिनी नयदेशनाजी, परमारथथी अभिन्न-मन
 शब्दभेद झगडो किस्योजी ? परमारथ जो एक,
 कहो गगा कहो सुरनदीजी, वस्तु फरे नहि छेक-मन.

धर्म क्षमादिक पण मटेजी, प्रगटे धर्मसन्यास;
तो झगडा झांटा तणोजी, मुनिने कवण अभ्यास?—म०
अभिनिवेश सघळो तजीजी, चार लही जेणे दृष्टि;
ते लेशे हवे पचमीजी, सुयशअमृतघनवृष्टि—मन० २३

ढाळ ५ मी

धन धन सप्रति साचो राजा—ए देशी

दृष्टिथिरामांहे दर्शन नित्ये, रतनप्रभासम जाणोरे,
भ्रांति नहि वळा वोध ते सूक्ष्म, प्रत्याहार वखाणोरे-१
ए गुण वीरतणो न विसारु, सभारु दिन रात रे,
पशु टाळी सुररुप करे जे, समकितने अवदातरे-ए गुण०
वालधूलि-घरलीला सरखी, भवचेष्टा इहां भासे रे,
ऋद्धि सिद्धि साव घटमां प्रगटे,
अष्ट महा सिद्धि पासे रे-ए गुण० ३
विषयविकारे न इद्रिय जोडे, ते इहां प्रत्याहारोरे,
केवळ ज्योति ते तत्त्व प्रकाशे,
शेष उपाय असारोरे-ए गुण० ४
शीतल चदनथी पण उपन्यो, अग्नि दहे जेम वननेरे,
धर्मजनित पण भोग इहां तेम,
लागे अनिष्ट ते मननेरे-ए गुण०

अशे होय इहां अविनाशी, पुद्गलजालतमासीरे,
चिदानदघन-सुयशविलासी,
केम होय जगनो आशीरे ?-ए गुण० ६

ढाल ६ ट्टी

भोलिडा हसा रे विषय न राचीए-ए देशी

- अचपळ रोगरहित निठुरनहि, अल्प होय दोंयनीति,
गध ते सारोरे कान्ति प्रसन्नता, सुस्वर प्रथम प्रवृत्ति-
धन धन शासन श्रीजिनवरतणु १
- धीरप्रभावीरे आगले योगथी, मित्रादिकयुत चित्त,
लाभ इष्टनो रे द्वद्वअधृष्यता,
जनप्रियता होय नित्य-धन० २
- नाश दोषनो रे तृपति परम लहे, समता उचित सयोग,
नाश वयरनोरे बुद्धि शतभरा,
ए निष्पन्नह योग-धन० ३
- चिन्ह योगनां रे जे पर ग्रथमां, योगाचार्यदिष्ट,
पंचम दृष्टिथकी ते जोडीए,
एहवा तेह गरिष्ट-धन० ४
- छठी दिठी रे हवे काता कहु, तिहा ताराभप्रकाश,
तत्त्वमिमांसा रे दृढ होय धारणा,
नहि अन्य श्रुत वास-धन० ५

मन महिलानु रे व्हाला उपरे, वीजां काम करत,
तेम श्रुतधर्मे रे एहमां मन धरे,

ज्ञानाक्षेपकवंत—धन० ६

एहवे ज्ञानेरे विघननिवारणा, भोग नहि भवहेत,
नवि गुण दोष न विषयस्वरूपथी, मन गुण अवगुण खेत,
मायापाणी रे जाणी तेहने, लघी जाय अडोल,
साचुं जाणी रे ते वीतो रहे, न चले डामाडोल-धन०८
भोग तत्त्वनेरे एम भय नवि टळे, ज़ठा जाणेरे भोग,
ते ए दृष्टिरे भवसायर तरे, लहे वळी सुयशसयोग-धन०९

ढाल ७ मी

ए छीडी किहां राखी-ए देशी

अर्कप्रभासमवोध प्रभामां, ध्यानप्रिया ए दिष्टी,
तत्त्वतणी प्रतिपत्ति डहा वळी, रोग नहि सुखपुष्टीरे-
भविका, वीरवचन चित्त धरीण १

सघळु परवश ते दुःखलक्षण, तजवश ते सुख लहीण,
ए दृष्टे आत्मगुण प्रगटे, कहो सुख ते

कुण कहीएरे ?- भविका० २

नागरसुख पामर नव जाणे, वल्लभसुख न कुमारी,
अनुभववण तेम ध्यानतणु सुख, कोण जाणे

नरनारीरे ?-भविका० ३

अह दृष्टिमा निर्मळ बोधे, ध्यान सदा होय साचु,
 दूपणरहित निरतर ज्योति, रतन ते दीपे जाचुरे—
 भविका० ४

विपभागक्षय शातवाहिता, शिवमारग ध्रुव नाम,
 कहे असगक्रिया इहा योगी, विमल सुयश परि-
 णाम रे—भविका० ५

ढाल ८ मी

तुज साथे नहि चालु मारा ढाला—ए देशी.
 दृष्टि आठमी सार समाधि,
 नाम परा तस जाणुजी,
 आपस्वभावे प्रवृत्ति पुरण,
 शशि सम बोध वखाणुजी,
 निरतिचारपद एहमा योगी,
 कहीए नहि अतिचारीजी,
 आरोहे आरुढे गिरिने,
 तेम एहनी गति न्यारीजी १
 चढन गघ समान क्षमा इहा,
 वासकने न गवेपेजी,
 आसगे वर्जित वळी एहमा,
 किरिया निज गुण लेखेजी,

शिक्षाथी जेम रतननियोजन,
 दृष्टिभिन्न तिम एहोजी,
 तास नियोगे करण अपूरव,
 लहे मुनि केवलगेहोजी २

क्षीणदोष सर्वज्ञ महामुनि,
 सर्व लब्धि फल भोगीजी,
 परउपगार करी शिवसुख ते,
 पामे योग अयोगीजी,
 सर्वशत्रुक्षय सर्वव्याधिलय,
 पुरण सर्व समीहाजी,
 सर्व अरथ योगे सुख तेहथी,
 अनतगुण निरीहाजी ३

अे अड दिट्टी कही सक्षेपे,
 योगशास्त्रसकेतेजी,
 कुलयोगी ने प्रवृत्तचक्र जे,
 तेहतणे हितहेतेजी,
 योगीकुले जाया तस धर्मे,
 अनुगत ते कूलयोगीजी,
 अछेपी गुरु देव द्विज प्रिय,
 दयावत उपयोगीजी,

सुश्रूपादिक अड गुण सपुरण,
 प्रवृत्तचक्र ते कहीअेजी,
 यमद्वयलाभी परदुगअर्थी,
 आद्य अवचक लहीएजी,
 चार अहिंसादिकयम इच्छा,
 प्रवृत्ति थिर सिद्धि नामेजी,
 शुद्ध रुचे पाळे अतिचारह,
 टाळे फळपरिणामेजी ५

कुलयोगी ने प्रवृत्तचक्रने,
 श्रवण शुद्धि पक्षपातजी,
 योगदृष्टिग्रन्थे हित होवे,
 तेणे कही अे वातजी,
 शुद्ध भाव ने सूनी किरिया,
 वेहुमा अतर केतोजी,
 जलहलतो सुरज ने खजुओ,
 तास तेजमा तेतोजी ६

गुह्यभाव अे तेहने कहीअे,
 जेहसु अतर भाजेजी,
 जेहसु चित्त पटतर होवे,
 तेहसु गुह्य न छजेजी,


योग्य अयोग्य विभाग अलहतो,
 करशे मोटी वातोजी,
 खमशे ते पडितपरखदमा,
 मुष्टिप्रहार ने लातोजी. ७
 सभा त्रण श्रोता गुण अवगुण,
 नदीसूत्रे दीसेजी,
 ते जाणी अे ग्रथ योग्यने,
 देजो सुगुण जगोशेजी,
 लोक पूरजो निज निज इच्छा,
 योग भाव गुण रयणेजी,
 श्री नयविजय विबुध पय सेवक-
 वाचक यशने वयणेजी. ८

समाप्तोऽय-मात्महितकरो ग्रंथ.

पुस्तक वाचनार प्रेमीने ध्यानमा राखवा

लायक अगत्यनी सूचनाओ

- १ पुस्तकने थूक लगाडवु नहि.
- २ पुस्तकने अशुद्ध वाचतु नहि.
- ३ पुस्तकने पास राखी वाट्ट करवी नहि.
- ४ पुस्तकने पग लगाटवो नहि.
- ५ पुस्तकने पटकवु नहि.
- ६ पुस्तकने पासे राखी भोजन करवु नहि
- ७ पुस्तकने पास राखी झाडो करवो नहि
- ८ पुस्तकने पासे राखी ' गाय करवो नहि
- ९ पुस्तकनो अक्षर थूकथी भूसवो नहि
- १० पुस्तक उपर बसवु के सूधु नहि
- ११ पुस्तकनो अग्निथी नाश करवो नहि.
- १२ पुस्तकनो पाणीथी नाश करवो नहि.
- १३ पुस्तकनो फाडीने के बीजा कोइ पण प्रकार नाश करवो नहि.



श्री जैराध कशोर मठ
श्री कनर